



लेखक के अन्य सम्पादित ग्रन्थ

- ★ षट् खंडागम
(धनलसिद्धांत)
- ★ सावय धम्म दोहा
- ★ पाहुड दोहा
- ★ तिलोय-पण्णत्ति
- ★ सिद्धान्त समीक्षा
- ★ जैन शिलालेख संग्रह

आदि आदि





लेखक के ६ सम्पादित :

- ★ षट् खंडागम
(धबलदि
- ★ सायय धम्म दोह
- ★ पाहुड दोहा
- ★ तिलोय-पण्णत्ति
- ★ सिद्धान्त समीक्ष
- ★ जैन शिलालेख

आदि आ



नामपुर विश्वविद्यालय के बी. ए. और एम. ए. के पाठ्यक्रम में स्वीकृत

तत्त्व समुच्चय

[जैन तत्त्वज्ञान तथा आचार सम्बन्धी प्राचीन प्राकृत गाथाओं का संकलन]



सम्पादक

डा० हीरालाल जैन

एम. ए., एल-एल. बी., डी. लिट.



भारत जैन महामण्डल, वर्धा

नवम्बर १९५२

प्रकाशक :
जमनालाल जैन, प्रबन्धमन्त्री
भारत जैन महामण्डल, वर्धा

राजेन्द्र-स्मृति ग्रंथ-माला—५
प्रथम संस्करण २०००] [नवम्बर १९५२
मूल्य तीन रुपये

मुद्रक :
गं. ना. सराफ,
व्यवस्थापक श्रीकृष्ण प्रिंटिंग वर्क्स, वर्धा

अपनी ओर से



‘तत्त्व-समुच्चय’ ग्रन्थ पाठकों के सम्मुख रखते हुए हमें हर्ष हो रहा है. जैन तत्त्वज्ञान और आचार की विशेषताओं को संक्षेप में और सरलभाषा में बतानेवाले ऐसे ग्रन्थ की कमी प्रायः अनुभव की जा रही थी. अपने अध्यापन में आने वाली कठिनाइयों के कारण तो डा० हीरालालजी ने इस कमी को काफी तीव्रता से अनुभव किया.

तत्त्व-समुच्चय में जैनधर्म के प्राचीन प्राकृत भाषा के ग्रंथों की गाथाओं का सकलन किया गया है. जैनधर्म का तत्त्वज्ञान पहले पहल प्राकृत भाषा में ही लिपिबद्ध किया गया था. गाथाओं का सकलन दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों के ग्रन्थों से किया गया है और जहाँ कहीं मान्यता भेद का प्रसंग आया है वहाँ दोनों सम्प्रदायों की मान्यता का उल्लेख कर दिया है. प्राकृत भाषा न समझने वालों के लिए हिन्दी अनुवाद भी दे दिया है. बा. ए. और एम. ए. के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए शब्द-कोष, ग्रन्थ व ग्रंथकारों का ऐतिहासिक परिचय भी दिया गया है. प्रारम्भ में जैनधर्म के विकासक्रम और प्राकृत भाषा की महत्ता पर भी डा० साहब ने काफी प्रकाश डाला है. इस तरह यह ग्रंथ जिज्ञासुओं, विद्यार्थियों, स्वाध्यायियों आदि सब के उपयोग का बन पड़ा है. इस महत्त्वपूर्ण सेवा के लिए भारत जैन महामंडल डा० साहब का अत्यन्त ऋणी है.

अत्यन्त कार्यव्यस्त रहते हुए भी ग्रंथ को सर्वांगसुन्दर बनाने के लिए डा० साहब ने समय निकाल कर जो श्रम किया है वह तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता. प्रकाशन में जो अत्यधिक विलम्ब हुआ, उसका एक कारण यह भी रहा कि डा० साहब इसे सब दृष्टियों से उपयोगी बनाना चाहते थे. आपके सुप्रयत्न से यह ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय में पाठ्य-ग्रंथ स्वीकार कर लिया गया है.

यह ग्रंथ राजेन्द्र-स्मृति ग्रंथ-माला की ओर से प्रकाशित हो रहा है. यह ग्रंथ-माला श्री राका परिवार ने श्री रिषभदासजी राका के ८ वर्षीय पुत्र स्व० राजेन्द्र की स्मृति में स्थापित की है.

हमारा विचार पहले इसका मूल्य दो रूपए रखने का था, पर उपयोगी सामग्री से पृष्ठ संख्या बढ़ जाने के कारण तीन रूपया करना पड़ा है.

आशा है इस उपयोगी ग्रंथ का स्वागत होगा.

वर्धा
१० नवम्बर १९५२ }

—प्रकाशक

अनुक्रम

प्रारम्भिक

प्राक्कथन	१-२
जैन धर्म, साहित्य और सिद्धान्त	३-१६

ग्रन्थ

विषय	मूल पृष्ठ	हिन्दी अनुवाद पृष्ठ
मंगलाचरण	१	६५
१ लोक-स्वरूप	३	६७
२ गृहस्थ-धर्म [१]	११	७४
३ गृहस्थ-धर्म [२]	१५	७८
४ मुनि-धर्म [१]	१९	८२
५ मुनि-धर्म [२]	२१	८४
६ धर्मांग	२५	९०
७ भावना	२६	९१
८ परीषद्	३१	९६
९ छह द्रव्य : सात तत्त्व : नव पदार्थ	३६	१०२
१० कर्म-प्रकृति	४०	१०७
११ गुणस्थान	४३	११०
१२ मार्मणा-स्थान	४६	११५
१३ ध्यान	५२	१२३
१४ स्याद्वाद	५५	१२७
१५ नय-वाद	५७	१३१
१६ निक्षेप	६२	१३७

परिशिष्ट

तत्त्व-समुच्चय का शब्द-कोष	१३९-१७४
तत्त्व-समुच्चय (ग्रन्थ-परिचय)	१७५-१८७
तत्त्व-समुच्चय (सम्बद्ध गाथाएँ)	१८७-१८८

प्राक्कथन

प्रस्तुत संकलन की प्रेरणा मुझे अपनी प्राकृत कक्षाओं को पढ़ाने समय मिली। प्राकृत साहित्य का बहु भाग जैनधर्म से सम्बंध रखता है, और बिना जैनधर्म के आचार व सिद्धान्त का विधिवत् ज्ञान हुए वह साहित्य अच्छी तरह समझ में नहीं आता, क्योंकि पद पद पर वह जैन पारिभाषिक शब्दों से भरा हुआ है। स्फुट रूप से प्रसंगोपयोगी बात को समझा देने पर भी वह विद्यार्थियों के हृदय पर स्थायी रूप से अंकित नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक एक दार्शनिक बात उसकी पूरी सांगोपांग व्यवस्था में बैठकर न बतलाई जाय तब तक न तो उसका यथार्थ ज्ञान हो पाता, और न स्मरण रह सकता। इसलिये यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि प्राकृत के कुछ ऐसे संकलन उपस्थित किये जाय जिन में विद्यार्थियों को प्राकृत भी पढ़ने पढ़ाने के लिये मिले और साथ-ही-साथ जैन धर्म का आवश्यक ज्ञान भी व्यवस्था से प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त उनके हाथ में ऐसी एक पुस्तक भी रहे जिसके आधार से वे किसी भी सैद्धान्तिक परिभाषा व व्यवस्था का प्रामाणिक उल्लेख कर सकें।

इस संकलन में सोलह पाठ हैं जिनमें जैनधर्म से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः सभी नैतिक, आध्यात्मिक व दार्शनिक व्यवस्थाओं की रूपरेखा अति प्रामाणिक ग्रंथों पर से प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक पाठ के अन्त में ग्रंथों का नाम भी दे दिया गया है और प्रत्येक गाथा के संख्याक्रम के पश्चात् उसके मूल ग्रंथ का अध्याय और पद्य की संख्या भी दे दी गई है। इस से एक तो यदि पाठक चाहे तो उस गाथा के अर्थ का विस्तार व पूर्वापर प्रसंग मूल ग्रंथ में सुलभता से देख सकता है। और दूसरे वह इसका प्रामाणिक उल्लेख भी कर सकता है।

पाठों का क्रम भी ऐसा रखा गया है कि आरम्भ में वर्णनात्मक व आचार नीति आदि सम्बंधी पाठ हैं, और पश्चात् क्रम से सैद्धान्तिक तत्त्वविवेचन के पाठ आये हैं जिनके लिये विद्यार्थी की मानसिक भूमिका तैयार होती गई है।

समस्त पाठों में गाथाओं की कुल संख्या ६०० के लगभग है। यदि विद्यार्थी नियम से औसतन दो गाथाओं का अर्थ समझ ले व उन्हें पाठ भी कर ले तो, अनध्याय के लगभग दो माह छोड़कर भी, वह एक वर्ष के भीतर ग्रंथ का पारायण कर सकता है। जहां विद्यार्थी पर अन्य विषयों का भी भार है, व सिद्धान्त-ग्रहण की पूरी योग्यता नहीं है, वहां पहले मात-आठ पाठ प्रथम वर्ष में व शेष द्वितीय वर्ष में पढ़े जा सकते हैं।

ग्रंथ के साथ सरल हिन्दी अनुवाद है और विशेष शब्दों का कोष भी है। इस कोष में शब्द बर्णानुक्रम से उनके संस्कृत रूपान्तर में रखे गये हैं, जिस से कहीं भी उल्लिखित शब्द का अर्थ सरलता से देखा जा सके। प्रायः चर्चा में तथा पठन पाठन में संस्कृत शब्दों का ही व्यवहार किया जाता है। शब्द का प्राकृत रूप, जहाँ वह अधिक भिन्न है, कोष्ठक में दे दिया गया है। पाठों में आये प्राकृत शब्दों का रूपान्तर भाषान्तर में आ ही गया है।

इस कोष के शब्दों को काड्डोंपर लिखने में मेरे प्रिय शिष्य जगदीश किलेदार एम. ए. ने मेरी सहायता की। और उनपर से प्रेसकापी तैयार करने में भारत जैन महामंडल के स्थायी कार्यकर्ता श्री जमनालालजी जैन की धर्मपत्नी सौ० विजयादेवी ने साहाय्य प्रदान किया है। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद तो क्या दूँ; आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपने ज्ञान में सब उन्नति करें।

इस ग्रंथ के तैयार करने की पूर्वोक्त प्रकार प्रेरणा मिलनेपर भी संभवतः पाठकों को उसके दर्शन इतने शीघ्र न हो पाते यदि भारत जैन महामंडल के अति निष्ठावान् कार्याध्यक्ष व मेरे परम स्नेही श्री ऋषभदासजी रांका का उसके लिये जब से मैंने चर्चा की तभी से अति आग्रह न होता। इस संस्कार्य की प्रेरणा के लिए मैं उनका अनुग्रहीत हूँ।

एक तो संकलन कार्य में स्थलन होना—न छोड़ने योग्य को छोड़ बैठना और छोड़ने योग्य को ले बैठना—बहुत संभव है। इस संबन्ध में मतभेद भी बहुत हो सकता है। दूसरे प्राकृत पाठ का मुद्रण व संगोधन भी बड़ा कठिन होता है। सिद्धान्त का अर्थ करने में भी जरा प्रमाद हुआ कि कुछ न कुछ भूलचूक हो ही जाती है। मुझे यह सब कार्य भी बड़ी व्यग्रता के काल में से कुछ क्षण निकाल निकाल कर करना पड़ा है। अतएव यदि कहीं कोई अशुद्धियाँ पाठकों की दृष्टि में आवें, या संकलन में हीनाधिकता जान पड़े तो सूचित करने की कृपा करें, ताकि आगे संशोधन किया जा सके।

यदि इस संकलन के द्वारा जैन धर्म के जिज्ञासुओं की कुछ तृप्ति हो सकी व विद्यार्थियों को प्राकृत एवं जैन साहित्य व सिद्धान्त में प्रवेश पाने में सुलभता प्राप्त हो सकी तो मैं अपने प्रयास को सफल समझूंगा।

नागपुर महाविद्यालय,
नागपुर २६-१२-१९५१ }

—हीरालाल जैन

जैन धर्म, साहित्य और सिद्धान्त

मानवीय संस्कृति के विकास ने जिन संस्थाओं को जन्म दिया उनमें धर्म का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जितने प्राचीन काल में हम जाय, बसुण्य के जीवन में कुछ न कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती ही हैं। चाहे जिस देश-प्रदेश के इतिहास पर दृष्टि डालें, वहां धर्म का प्रभाव दिखाई दिये बिना नहीं रहेगा। किन्तु धर्म का स्वरूप कभी और कहीं भी सर्वथा एक रूप नहीं रहा। वह देश और काल के अनुसार सदैव बदलता रहा है। यदि संसार के सब धर्मों की संख्या लगाई जाय तो वे सैकड़ों ही नहीं, सहस्रों पाये जाते हैं। किन्तु जिन धर्मों के अनुयायियों की संख्या करोड़ों पाई जाय ऐसे संसार में मुप्रसिद्ध और मुप्रचलित धर्म हैं ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और हिन्दू।

वैदिक धर्म

भारत के प्राचीन और प्रमुख धर्म तीन हैं: ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। ब्राह्मण धर्म को मुसलमानी काल से हिन्दू धर्म भी कहने लगे हैं। देश में इस धर्म का प्रभाव गभीर और व्यापक रहा है। इस धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ चार वेद हैं ऋग्, यजुः, साम और अथर्व। इनमें इन्द्र, वरुण, अग्नि, मित्र, उष, आदि अनेक देवी देवताओं की स्तुतियां की गई हैं जिनका यज्ञ आदि अवसरों पर गान किया जाता था। यज्ञ में या तो किसी पशु की बलि उस देवता को चढ़ाई जाती थी, या सोमरस निकालकर उसका पान किया जाता था। इस प्रकार देवताओं को प्रसन्न कर उनसे अपनी विजय, शत्रु का पराजय व नाश तथा धन-धान्य व पुत्र-पौत्रादि की वृद्धि की प्रार्थना की जाती थी। वेदों के आश्रित इसी क्रिया-काण्ड के कारण यह धर्म वैदिक भी कहलाया। जब चिन्तनशीलता अधिक बढ़ गई तब उपनिषद् ग्रंथों की रचना हुई जिनमें कर्मकाण्ड को महत्त्व न देकर प्रकृति और जीवन के मौलिक तत्त्व को समझने का प्रयत्न किया गया है। इस वैदिक प्रयत्नशीलता के फलस्वरूप छह दर्शनों की उत्पत्ति हुई—सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त। ये ही वैदिक षड्दर्शन कहलाते हैं। इनमें वेदान्त का सब से अधिक प्रचार और प्रभाव बढ़ा। इस दर्शन के अनुशार जीवन और प्रकृति का आदि स्रोत एक ही तत्त्व है, और वह है ब्रह्म। यही ब्रह्म सृष्टि में माया रूपी शक्ति के कारण नाना प्रकार दिखाई देता है। जो इसके नाना रूपों को ही सत्य और तथ्य समझते हैं वे अज्ञानी हैं, और संसार के बन्धन में फंसे हैं। किन्तु जो इन नाना रूपों को मिथ्या जान लेते हैं और उनके अदल तत्त्व एक ब्रह्म को पहिचान पाते हैं वे ही ज्ञानी और जीवनमुक्त हैं।

वैदिक धर्म में जीवन का विभाग और समाज-रचना का भी प्रयत्न किया गया है जो वर्णाश्रम-व्यवस्था कहलाती है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को

क्रमशः ब्राह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वाणप्रस्थ और संन्यास का पालन करना चाहिये। ये ही जीवन के चार आश्रम हैं, और इन्हीं के सुचारु रूपसे पालन करने में जीवन की सफलता है। मनुष्य-समाज गुण और कर्मों के अनुसार चार वर्णों में विभाजित है—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कर्तव्य वेदाध्ययन और धर्मानुष्ठान है। क्षत्रिय का धर्म, देश और समाज की रक्षा करना है। वैश्य का कर्तव्य कृषि वाणिज्यादि द्वारा समाज को सुखी और धनसम्पन्न बनाना है। तथा शूद्र का कर्तव्य उक्त वर्णों की विधिवत् सेवा करना है। यह वर्णाश्रम धर्म मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिग्रंथों में विस्तार से वर्णित पाया जाता है।

वैदिक सम्प्रदाय का संस्कृत साहित्य बहुत विशाल है। रामायण और महाभारत इसकी बहुत प्राचीन और लोकप्रिय रचनायें हैं। कालिदासादि महाकवियों द्वारा रचे गये काव्यों और नाटकों का यहां प्रचुर भंडार है। अनेक पुराणों में इतिहासातीत काल से लगाकर राजाओं और महर्षियों की वंशावलियां पाई जाती हैं। किन्तु इस साहित्य के देवी देवता वेदों के देवताओं से कुछ भिन्न हैं। यहां विष्णु और शिव तथा काली और दुर्गा की पूजा का प्राधान्य है। यों तो हिन्दू धर्म के नाना सम्प्रदाय देशभर में फैले हुए हैं, तथापि स्थूल रूप से उत्तर भारत में वैष्णव सम्प्रदाय का, दक्षिण में शैव सम्प्रदाय का तथा पूर्व में बगाल और उसके आसपास काली-पूजा का अधिक प्रचार है।

बौद्ध धर्म

प्राचीनतम साहित्य में एवं अशोक की प्रशस्तियों में हमें दो संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है—ब्राह्मण और श्रमण। ब्राह्मण धर्म का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। श्रमण सम्प्रदाय के अनुयायी वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे। न वे यज्ञ के क्रियाकाण्ड को मानते थे, और न वर्णाश्रम व्यवस्था को उसी रूप में ग्रहण करते थे। श्रमण मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों में विकृष्टि पर जोर देते थे, इन्द्रिय-निग्रह और परिग्रह-त्याग को आत्मिक शुद्धि के लिये आवश्यक समझते थे, एवं अहिंसा को धर्म का अनिवार्य अंग मानते थे। इन मौलिक सिद्धान्तों के भीतर श्रमण की चर्या में भी नाना भेद थे जिनका प्रचार भारत के पूर्व भाग मगध और विहार के प्रदेशों में विशेष रूप से था। कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम बुद्ध पर इन्हीं श्रमण मान्यताओं का प्रभाव पड़ा और वे संसार से उदासीन होकर त्यागी हो गये। उन्होंने कठोर संयम का पालन किया, तपस्या की, और उपवास धारण किये, जिस से उनका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया। एक लम्बे उपवास की दुर्बलता से मूर्च्छित होकर जब उनकी चेतना जागी तब वे विचार करने लगे कि क्या आत्मकल्याण के लिये यह सब कायक्लेश आवश्यक है? बस, इस प्रश्न का उन्हें जो उत्तर मिला वही उनका 'बोधि' या 'ज्ञान' था। उन्होंने देखा कि अपने शरीर को अनावश्यक क्लेश देना भी उतना ही बुरा है जितना दूसरों को क्लेश देना या इन्द्रिय-लोलुपता में आसक्त होना।

अंतएव उन्होंने इन दोनों कोटियों—इन्द्रियलिप्सा और कायकलेश—का परित्याग कर 'मध्यम पथ' का आविष्कार किया और वही बौद्ध धर्म कहलाया। महात्मा बुद्ध ने जो बनारस के समीप सारनाथ में अपना 'धर्मचक्र प्रवर्तन' किया उसका सार चार आर्यसत्त्यों और अष्टाङ्गिक मार्ग में अन्तर्निहित है। म. बुद्ध के चार आर्य सत्य हैं : दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा। अर्थात् जीवन दुःखमय है—जन्म, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दोर्मनस्य, उपायास तथा इष्टविद्योग और अनिष्टमंयोग एव रूप, वेदना, सजा, संस्कार व विज्ञान ये पांच स्कंध सब दुःखरूप हैं। इन समस्त सांसारिक दुःखों का कारण है, और वह है हमारी तृष्णा—कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभवतृष्णा। दुःखों से मुक्ति पाने के लिये इमी तृष्णा का निरोध करना आवश्यक है, और यह कार्य सम्यग् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यग् व्यायाम, सम्यग् स्मृति और सम्यक् समाधि—इन आठ सम्य-कृतियों द्वारा ही सम्पादन किया जा सकता है। अपने इस मुक्तिमार्ग के अनुपालन में महात्मा बुद्ध ने कोई वर्ण या जातिभेद नहीं माना। उनके उपदेश का जनता में खूब स्वागत हुआ, तथा उनके समय में ही राजाओं तथा धनी मानी लोगों ने भी उसे खूब अपनाया। बुद्धनिर्वाण के दो तीन शताब्दी पश्चात् मौर्य सम्राट-अशोक ने अपनी कलिग-विजय की हिमा के प्रायश्चित्त स्वरूप क्रमशः बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और उसका खूब प्रचार भी किया। धीरे धीरे यह धर्म भारत की सीमाओं को पार कर लका, व्याम, तिब्बत व चीन आदि देशों में भी फैल गया जहाँ कि वह आज तक सुप्रचलित है।

बौद्धधर्म के मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं, क्योंकि अनुमानतः वे पहले अलग अलग तीन पिटारियों में रखे जाते थे। पहले विनय पिटक में बौद्ध साधुओं के पालने योग्य नियमों का संकलन किया गया है। दूसरे सूत्रपिटक में बुद्ध भगवान और उनके प्रमुख शिष्यों के उपदेशों व आख्यानों का संग्रह किया गया है जो बीषनि-काय, मज्झिमनिकाय, अंगुत्तरनिकाय आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। इसी पिटक के अन्तर्गत खुट्कनिकाय में वे पात्र सौ से अधिक जातक कथाएं पाई जाती हैं जो ससार के कथासाहित्य में अपनी प्राचीनता, नैतिकता, चातुरी आदि गुणों के लिये सुप्रसिद्ध हैं। तीसरे अभिधम्म पिटक में बौद्धधर्म के सिद्धान्तों का संग्रह पाया जाता है। यह सब साहित्य पाली भाषा में है और उसका जो संस्करण हमें इस समय उपलब्ध है वह लंका द्वीप से आया है। यह बौद्धधर्म के 'हीनयान' सम्प्रदाय का साहित्य माना जाता है। 'महायान' सम्प्रदाय उत्तर में काश्मीर, तिब्बत तथा मध्यएशिया की ओर फैला और उसने अपना साहित्य संस्कृत में तैयार किया। किन्तु इस में पूरा त्रिपिटक नहीं मिलता। अनेक बौद्ध ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनके तिब्बती व चीनी अनुवाद मिलते हैं, किन्तु उनकी भारतीय मूल रचनाओं का

पता नहीं चलता । वसुबन्धुकृत अभिधर्मकोश जैसे सुविख्यात ग्रंथका भी उसके लिख्यताय अनुबाध परसे उद्धार करना पड़ा है ।

जैनधर्म के तीर्थंकर

बौद्धधर्म से भी अति प्राचीन एक श्रमण सम्प्रदाय जैनधर्म है । जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है । मागवत पुराण में तो उन्हें स्वयंभू मनु की सन्तान की पांचवी पीढ़ी में उत्पन्न हुए माना गया है, और उनकी तपस्या तथा केल्य प्राप्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है । जैन मान्यतानुसार ऋषभनाथ के पश्चात् तेईस तीर्थंकर और हुए जिन्होंने अपने अपने समय में जैनधर्म का उपदेश और प्रचार किया । बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई थे । उन्होंने अपने विवाह के समय यादव वंशियों के भोजनार्थ संहार किये जानेवाले पशुमूह को देखकर वैराग्य धारण किया और सुराष्ट्र देशके गिरनार पर्वतपर तपस्या की । यह पर्वत अभीतक उनके नाम से पूज्य माना जाता है । तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वनागम के राजवंश में हुआ था । उन्होंने जैनधर्म को इतना सुसंघटित बनाया कि आजतक पर प्रायः उसी रूपमें पाया जाता है । अधिकांश जैन मन्दिरों में पार्श्वनाथ की ही पूजा होती है और सामान्यतः जैनी पार्श्वनाथ के ही उपासक माने जाते हैं । पार्श्वनाथ में अष्टाईसौ वर्ष पश्चात् अन्तिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए । इनका जन्म विहार प्रदेश के कुण्डनपुर के राजा मिद्धार्थ के यहा रानी त्रिशला की कृषि में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ । यह दिन आज भी जैनियों द्वारा पवित्र माना जाता है, और उस दिन देशभर में 'महावीर जयन्ती' मनाई जाती है । महावीर ने अपने कुमार काल के तीस वर्ष राजभवन में मुख में शीर्ष और विश्वाध्ययन में वृत्तीत कर तपस्या धारण कर ली । बारह वर्ष के कठोर तपश्चरण और आत्मचिन्तन द्वारा उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया, और फिर तीस वर्ष तक देश के विभिन्न भागों में परिभ्रमण करने हुए धर्म का प्रचार किया । इस प्रकार बहत्तर वर्ष की आयु पूर्ण कर कार्तिक कृष्णा १४ के दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया । इसी दिन निर्वाणोत्सव दीपावली के रूप में आजतक धूमधाम में मनाया जाता है । प्रचलित मान्यतानुसार भगवान महावीर का निर्वाण विक्रम संवत् में ४७० वर्ष पूर्व शक संवत् में ६०५ वर्ष पूर्व, एव ईस्वी संवत् से ५२७ वर्ष पूर्व हुआ । तदनुसार महावीर निर्वाण संवत् की स्थापना हुई जिसका इस समय २४७८ वा वर्ष प्रचलित है ।

भगवान् महावीर की माता त्रिशला की छोटी बहिन चेलना का विवाह उस समय के चक्रवर्ती मगध-नरेश बिम्बसार उपनाम श्रेणिक से हुआ था । रानी चेलना के प्रयत्न से श्रेणिक महावीर के परम उपासक बन गये, और उन्हींके प्रश्नों के उत्तर में जैन शास्त्रों और पुराणों का बहुभाग प्रतिपादन किया गया माना जाता है ।

जैनागम

भगवान् महावीर के उपदेशों का संग्रह उनके शिष्यों द्वारा बारह श्रुतांगों में किया गया जिनके परम्परागत नाम और विषय निम्न प्रकार हैं—

१. आचाराङ्ग में मुनियों के चरित्र संबंधी नियमों का वर्णन है।
२. सूत्रकृताङ्ग में मुनियों के आचरण संबंधी और भी विशेष आदेश पाये जाते हैं। इसमें अनेक दूसरे दर्शनों का भी वर्णन है।
३. स्थानाङ्ग में तत्त्वों के भेद प्रभेदों का उनकी संख्या के क्रम से निरूपण है। जैसे चैतन्य की अपेक्षा जीव एक है। ज्ञान और दर्शन के भेद से वह दो प्रकार का है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य के भेद से वह तीन प्रकार का है। देव, मनुष्यादि चार गतियों में परिभ्रमण करने की अपेक्षा वह चार प्रकार का है। इत्यादि।
४. समवायाङ्ग में तत्त्वों का निरूपण उनके समवाय अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की अपेक्षा समानता के अनुसार किया गया है। जैसे—द्रव्यसमवाय की अपेक्षा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव के प्रदेश समान हैं। क्षेत्रसमवाय की अपेक्षा प्रथम नरक के प्रथम पटल का सीमन्तक नामक बिल, अट्टाई द्वीप प्रमाण मनुष्यक्षेत्र, प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल का ऋजु नामक विमान और सिद्धक्षेत्र समान हैं। इत्यादि।
५. व्याख्याप्रज्ञप्ति में प्रश्नोत्तर क्रम से जीवादि पदार्थों का व्याख्यान पाया जाता है।
६. ज्ञातृधर्मकथा में धर्मोपदेश और बहुविध कथाएँ वर्णित हैं।
७. उपासकाध्ययन में गृहस्थों के पालन करने योग्य धर्म का विधान है।
८. अन्तकृद्दशा में ऐसे दश मुनियों का चरित्र वर्णित है जिन्होंने अनेक उपसर्ग सहन करके संसार का अन्त किया और मोक्ष पाया।
९. अनुत्तरौपपातिक में ऐसे दश मुनियों का चरित्र वर्णित है जो घोर उपसर्ग सहन कर विजय आदि अनुत्तर विमानों में देव उत्पन्न हुए।
१०. प्रश्नव्याकरण में अपने धर्म की पुष्टि एवं परधर्म का खंडन करने वाले वर्णन व कथानक हैं।
११. विपाकसूत्र में पुण्य और पाप के फलों का वर्णन है।
१२. दृष्टिवाद के परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग पूर्वगत और चूलिका, इस प्रकार पांच खंड थे। परिकर्म में चन्द्र, सूर्य, जम्बूद्वीप, द्वीपसागरों का विवरण तथा द्रव्यों का विशेष निरूपण किया गया था। सूत्र में प्राचीन काल में प्रचलित ३६३ मतों का विवेचन किया गया था। प्रथमानुयोग में राजाओं और ऋषियों के वंशानुक्रम का पुराण वर्णित था। पूर्वगत के भीतर इन चौदह पूर्व अर्थात् प्राचीन परम्परागत मतों व वादों का विवरण था—(१) आग्रायणी (२) उत्पाद

(३) वीर्यानुप्रवाद (४) अस्ति-नास्ति प्रवाद (५) ज्ञान प्रवाद (६) सत्यप्रवाद (७) आत्मप्रवाद (८) कर्मप्रवाद (९) प्रत्याख्यानवाद (१०) विद्यानुवाद (११) कल्याणवाद (१२) प्राणवाद (१३) क्रियाविशाल, और (१४) लोक-बिन्दु सार। चूलिका में जल, स्थल, माया, रूप और आकाश गत नाना मंत्रों मंत्रों का विवरण था।

यह द्वादशांग आगम श्रुतज्ञान के रूप में गुरुशिष्य परम्परा से प्रचलित हुआ। किन्तु उस प्रकार वह चिरकाल तक सुरक्षित न रह सका। महावीर भगवान् के निर्वाण मे १६५ वर्ष पश्चात् श्रुतकेवली भद्रबाहु तक तो पूरा श्रुत-ज्ञान बना रहा, किन्तु उसके पश्चात् बारहवें अंग दृष्टिवाद केज्ञान का ह्याम हुआ और फिर उसी क्रम से शेष अंगों का भी ज्ञान व्युच्छिन्न और ऋटित हो गया। यहां तक कि निर्वाण मे ६८३ वर्ष पश्चात् कुछ थोड़े से आचार्यों को ही इस श्रुतांग का खण्डशः ज्ञान अवशेष रहा। इन खण्डशः श्रुतांग धारियों को परम्परा में आचार्य धरसेन हुए जिन्होंने सौराष्ट्र देश के गिरिनगर की चन्द्रगुफा मे रहते हुए अपनी आयु के अन्त मे वह ज्ञान आचार्य पुष्पदन्त और भूतबलि को प्रदान किया। इन आचार्यों ने उसी श्रुतज्ञान को कर्मप्राभृत अपरनाम षट्खंडागमसूत्र के रूप मे भाषा-निबद्ध किया। यह ग्रंथ-रचना ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को पूर्ण हुई थी। इसी कारण जैनी उस दिन अभी तक श्रुत पंचमी मनाते और श्रुत की पूजा करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे श्रुतज्ञानी आचार्य गुणधर ने कषाय-प्राभृत ग्रंथ की रचना की। नवमी शताब्दी में आचार्य वीरसेन ने षट्खंडागम सूत्रों पर धवल नामक टीका लिखी और कषाय-प्राभृत पर वीरसेन और उनके शिष्य जिनसेन ने 'जयधवल' नामक टीका लिखी। ये टीकाएँ 'मणिप्रवालन्याय' से अष्टिकांश प्राकृत मे और कही कही संस्कृत मे रची गई हैं। ये ही ग्रंथ दिगम्बर जैन साम्प्रदाय मे धवल सिद्धान्त और जयधवल सिद्धान्त के नाम से प्रख्यात हैं और सर्वोपरि प्रमाण माने जाते हैं। षट्खंडागम का छठा खंड भूतबलि आचार्य कृत 'महाबन्ध' है और यही रचना महाधवल के नाम से विख्यात है। इन ग्रंथों—मूल व टीकाओ-की प्राकृत भाषा ' जैन गौरसेनी ' कही जाती है।

यह है दिगम्बर परम्परा का संक्षिप्त विवरण। श्वेताम्बर परम्परानुसार द्वादशांग आगम का सर्वथा लोप नहीं हुआ। निर्वाण के पश्चात् अनेक बार आगम को सुव्यवस्थित करने के लिये मुनिसंघ की बैठके हुई। अन्तिम बार निर्वाण से ९८० वर्ष पश्चात् विक्रम सं. ५१० मे वलभी (गुजरात) मे देवधिगणी क्षमाधमण की अध्यक्षता में मुनिसंघ की बैठक हुई जिसमें संकलित ग्रंथों की नामावली देवधिगणि कृत नन्दीसूत्र में पाई जाती है। वर्तमान मे उपलब्ध ४५ ग्रंथरूप आगम उससे भी अनेक बातों मे भिन्न है। इनमे पूर्वोक्त प्रथम ग्यारह अंगों के अतिरिक्त १२ उपांग, १० प्रकीर्णक, ६ छेदसूत्र, ४ मूलसूत्र और २ चूलिका सूत्र हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—

१. ग्यारह अंग (ऊपर निर्दिष्ट)

२. बारह उपांग—(१) औपपातिक सूत्र (२) राघवसेणी (३) जीवाभि-
गम (४) पणवणा (५) सूर्यप्रज्ञप्ति (६) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति (७) चन्द्रप्रज्ञप्ति
(८) निरयावली (९) कल्पावतंसिका (१०) पुष्पिका (११) पुष्प चूलिक
(१२) वृष्णिदशा ।

३. दश प्रकीर्णक—(१) चतुःशरण (२) आतुर प्रत्याख्यान (३) भक्त
परिज्ञा (४) संस्तार (५) तन्दुल वैचारिक (६) चन्द्रकवेध्यक (७) देवेन्द्रस्तव
(८) गणिविद्या (९) महाप्रत्याख्यान (१०) वीरस्तव ।

४. छह छेदसूत्र—(१) निशीथ (२) महानिशीथ (३) व्यवहार (४)
आचार दशा (५) कल्प (६) पंचकल्प (या जीतकल्प)

५. चार मूलसूत्र—(१) उत्तराध्ययन (२) आवश्यक (३) दशवैकालिक
(४) पिंडनिर्युक्ति ।

६. दो चूलिकासूत्र—(१) नन्दीसूत्र (२) अनुयोगद्वार ।

इस आगम को दिगम्बर सम्प्रदाय प्रामाणिक नहीं मानता । ग्यारह अंग स्वयं
उन्हीं में दिये हुए वर्णन के अनुसार विषय व विस्तार दोनों दृष्टियों से उस रूप में
तो नहीं है जिस रूप में द्वादशांग श्रुत की प्रथम बार रचना हुई थी । विशेषतः ठानांग,
समवायांग और नन्दीसूत्र में पाये जाने वाले वर्णन वर्तमान आगम से व परस्पर भी
एक रूप नहीं है । वर्गीकरण के विषय में भी मतभेद पाया जाता है, जैसे छेद
सूत्रों में पंचकल्प के स्थान पर कही जीतकल्प का नाम भी पाया जाता है । इस
प्रकार विकल्प से आये हुए ग्रंथों को सम्मिलित करने से कुल आगम ग्रंथों की
संख्या ५० तक भी पहुँच जाती है । कितने ही ग्रंथों के कर्ताओं के नाम भी मिलते
हैं । जैसे—चतुर्थ उपांग प्रज्ञापना के कर्ता श्यामाचार्य, जीतकल्प के कर्ता जिनभद्र,
पंचम छेदसूत्र कल्प के कर्ता भद्रबाहु, तृतीय मूलसूत्र दशवैकालिक के कर्ता
सेज्जम्भव या स्वयंभव, एवं नन्दीसूत्र के कर्ता स्वयं देवधिगणी । भाषा व शैली
की दृष्टि से भी ये रचनायें भिन्न भिन्न काल की सिद्ध होती हैं । जैसे, आचारांग
विषय, भाषा व शैली आदि सभी दृष्टियों से अन्य रचनाओं की अपेक्षा अधिक
प्राचीन सिद्ध होता है । उत्तराध्ययन में भी अधिक प्राचीन रचनाओं का समावेश
पाया जाता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि इन आगम रचनाओं में प्राचीन अंश भी
हैं, तथा उन में स्वयं देवधिगणी के समय तक की रचनायें भी समाविष्ट हैं ।

आगमों की भाषा व अन्य प्राकृत

इन ग्रंथों की भाषा 'आष' या 'अर्धमागधी' कहलाती है । आर्य परिवार
की भारतीय भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा वेदों में पाई जाती है । वेदों की
भाषा का संस्कार होकर संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ । और बोलचाल में प्रचलित
लोकभाषा 'प्राकृत' कहलाई जिसके देशभेदानुसार अनेक प्रभेद हो गये । मगध
देश में प्रचलित भाषा मागधी कहलाई । शूरसेन अर्थात् मथुरा के आसपास के
प्रदेश में प्रचलित प्राकृत का नाम पड़ा शौरसेनी । और महाराष्ट्र में प्रचलित

प्राकृत कहलाई महाराष्ट्र। इन भाषाओं में परस्पर उच्चारण आदि सन्नधि केवल थोड़े से भेद थे, जैसा कि एक ही भाषा की भिन्न देशीय व भिन्न कालीन बोलियों में पाये जाते हैं। मगध और शूरसेन के सीमा प्रदेश में प्रचलित भाषा का नाम अर्धमागधी था, क्योंकि, जैसा कि सीमाप्रदेशों में हुआ करता है, उक्त भाषा में दोनों प्रदेशों की बोलियों की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता था। कहा जाता है कि महावीर भगवान् का उपदेश भी अर्धमागधी भाषा में होता था जिसे दोनों प्रदेशों के लोग भलीभांति समझ लेते थे। मागधी भाषा के विशेष तीन लक्षण थे—(१) 'र' के स्थान पर सर्वत्र 'ल' का उच्चारण। (२) श, ष और स के स्थान पर सर्वत्र 'ण' का उच्चारण। (३) अकारान्त संज्ञाओं के कर्ताकारक एक वचन का प्रत्यय 'ए' जैसे संस्कृत का 'नरः' मागधी में होगा 'णले'। 'पुरुषः' का मागधी रूप होगा 'पुलिशे'। इत्यादि। शौरसेनी प्राकृत में 'र' का उच्चारण 'र' ही होता है। श, ष और स के स्थान पर सर्वत्र 'स' आता है, तथा कर्ताकारक एकवचन में 'ए' न होकर 'ओ' होता है। जैसे 'णरो' 'पुरिसो' आदि। इन लक्षणों में से आगमों की भाषा में शौरसेनी का 'स' और मागधी का 'ए' भी पाया जाता है और शौरसेनी का 'ओ' भी; तथा 'र' का 'ल' क्वचित् दृष्टिगोचर होता है।

क्रमशः कुछ आगमों पर 'निर्युक्ति' 'चूणि' 'टीका' व 'भाष्य' नामक विवरण ग्रंथ रचे गये जो भिन्न भिन्न समय के हैं और भाषा व साहित्य तथा इतिहास व संस्कृति की दृष्टि से रोचक और महत्वपूर्ण हैं। आगमों पर संस्कृत टीकाएं लगभग आठवीं शताब्दी से पूर्व की नहीं पाई जाती। हरिभद्रसूरि की टीकाएं संस्कृत में सबसे प्राचीन मानी जाती हैं।

सैद्धान्तिक साहित्य

सिद्धान्त की दृष्टि से प्राकृत भाषा के प्रकाशित साहित्य में श्वेताम्बर सम्प्रदाय के भीतर विशेषतः जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण कृत विशेषावश्यक भाष्य एवं चन्द्रपि महत्तर तथा अन्य आचार्यों कृत छह कर्मग्रंथ बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसी प्रकार आचार की दृष्टि से मुनि आचार के लिये कल्पसूत्र, व श्रावकाचार के लिये हरिभद्रकृत श्रावक-प्रज्ञप्ति उल्लेखनीय हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय में उपर्युक्त कर्मप्राभृत व कषायप्राभृत और उनकी टीकाओं के अतिरिक्त नेमिचन्द्र आचार्यकृत गोष्मिहसार (जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड) लब्धिसार, क्षपणासार व द्रव्यसंग्रह ग्रंथ जैन सिद्धान्त का सुव्यवस्थित प्रतिपादन करने के लिये सुविख्यात हैं। उसी प्रकार शैलोवय के स्वरूप का वर्णन यतिवृषभ कृत तिलोषपण्णति व नेमिचन्द्र कृत श्रिलोकसार में परिपूर्णता से पाया जाता है। मुनि आचार के लिये शिष्यार्थकृत भववृत्ती आराधना और बट्टकेर कृत भूलाचार, तथा श्रावकाचार के लिये वसुमिन्द्र कृत श्रावकाचार सुप्रसिद्ध हैं। जैन स्यादुवाद व नयवाद के लिये, देवसेनकृत नयचक्र उल्लेखनीय है। इन के अतिरिक्त कुन्दकुन्दाचार्य रचित समयसार, प्रबचनसार, मिश्रससार, भारत अनुवेचना और अष्ट पाहुड ग्रंथ तथा स्वामी कार्तिकेय कृत अनुप्रेक्षा विशेषतः जैन अध्यात्म के प्रतिपादन के लिये सुप्रसिद्ध हैं। यह समस्त प्राकृत साहित्य प्रायः विक्रम की प्रथम सहस्राब्दि के भीतर का रचा हुआ है।

श्रावक और मुनि का आचार

धार्मिक सिद्धान्त के भीतर प्रायः आचार और दर्शन इन दो शास्त्रों का समावेश किया जाता है। जैन आचार की मूलभूति है 'अहिंसा'। इसी कारण यहां अहिंसा का अति सूक्ष्म विवेचन किया गया है। हिंसा केवल किसी जीव का घात करने या उसे चोट पहुंचाने से ही नहीं होती, किन्तु किसी प्रकार व किसी भी अल्पाश्लेष मात्रा में उसे हानि पहुंचाने या उसका विचार मात्र करने से भी होती है। यह अहिंसक भावना केवल मनुष्य के प्रति ही नहीं, किन्तु छोटे से छोटे जीव के प्रति भी रखने योग्य बतलाई गई है। मन से, वचन से व काय से कृत, कारित व अनुमोदित हिंसा पाप रूप है। जैन शास्त्रों में धार्मिक जीवन की यही एक सर्वोपरि कसौटी मानी गई है। सभ्य पुरुष वही है जिस के हृदय में प्राणिमात्र के प्रति हिंसा का भाव न हो। यह तो है अहिंसा का निषेधात्मक रूप। उस का विधानात्मक स्वरूप पाया जाता है प्राणिमात्र के प्रति मैत्री व परोपकार भाव रखने में। 'परोपकारः पुण्याय, पापाय परीडनम्' व 'अहिंसापरमो धर्मः' जैन आचार के मूल मंत्र है।

इस अहिंसात्मक वृत्ति को जीवन में उतारने के लिये पांच व्रतों का विधान किया गया है—अहिंसा, अमृषा, अचीर्यं, अमैथुन और अपरिग्रह। यदि हम समाज के संघर्ष व सभ्य संसार के दण्ड-विधान का विश्लेषण करके देखें तो हम पायेंगे कि मनुष्य-कृत समस्त अपराधों का मूल या तो किसी जीव को चोट पहुंचाना है, या किसी दूसरे की वस्तु को छीन लेना, या किसी स्वार्थवश कुछ बोलना या दुराचार करना अथवा अमर्यादित धन सचय करने की प्रवृत्ति में है। उपर्युक्त पांच व्रतों का प्रतिपादन इन्हीं समाजगत मूल दोषों को दृष्टि में रखकर किया गया है। गृहस्थ श्रावक इनका पालन स्थूल रूप से ही कर सकता है, इसलिये उक्त पांचों व्रतों का विधान श्रावकाचार में 'अणुव्रतों' के रूप में पाया जाता है। शेष गुणव्रतों व शिक्षाव्रतों का उपदेश इन्हीं मूल व्रतों के परिपालन योग्य मनोवृत्ति तैयार करने व त्याग वृत्ति बढ़ाने के हेतु किया गया है। यह कार्य क्रमशः ही हाँकर जीवन का स्थायी अंग बन सकता है। इसीलिये श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं व सीद्धियों का प्रतिपादन किया गया है।

श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का विधिवत् अभ्यास हो जाने पर ही अनगर वृत्ति अर्थात् मुनि आचार का ग्रहण हो सकता है। जब तक लेशमात्र भी परिग्रह है—संसार की सचित्त व अचित्त सृष्टि में आसक्ति है—तब तक मुनिवृत्ति का पालन होना अशक्य है। मुनि-धर्म, में पूर्वोक्त पांच व्रतों को 'महाव्रत' के रूप में पालन करना पड़ता है। यहां साधक की अहिंसात्मक वृत्ति एवं स्व-पर कल्याण बुद्धि उसकी परम सीमा पर पहुंच जाती है। वह धर्मसाधन के योग्य अपने शरीर को बनाये रखने के लिये समाज से शुद्ध आहार मात्र की भिक्षा लेता है, और अपना सारा समय व शक्ति आत्मकल्याण और विश्व-हित के चिन्तन, परिश्रम और प्रवर्तन में लगाता है। मुनि के समस्त मूल और उत्तर गुणों का अभिप्राय उसे क्लृप्तः पूर्णतः अनासक्त बीतराग और ज्ञानी बनाना है। यही उसकी मुक्ति और सिद्धि है।

जैन दर्शन

यह आचार जिस दर्शन शास्त्र के ऊपर अवलम्बित है वह जैन धर्म के सात तत्त्वों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इन तत्त्वों का सार इस प्रकार है :— संसार के मूल द्रव्य दो हैं—जीव और अजीव। स्व और पर का बोध अर्थात् चेतना और ज्ञान, अथवा दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का होना जीव का मुख्य लक्षण है। व्यवहार में जहां स्पर्शादि इन्द्रियां, मन, वचन व काय की प्रवृत्तियां, ईवासीच्छवास तथा आयु अर्थात् जीवन-काल की मर्यादा पाई जाती है वहां जीव का सद्भाव मानना योग्य है। ऐसे जीव संसार में अनन्त हैं। अजीव द्रव्य मूर्तिक व अमूर्तिक रूप से दो प्रकार का है। मूर्तिक द्रव्य को पुद्गल कहते हैं जिसमें नाना प्रकार के वर्ण, रस, गन्ध, व स्पर्श रूप गुण पाये जाते हैं। पुद्गल का छोटे से छोटा रूप परमाणु है और बड़े से बड़ा महास्कंध रूप पृथ्वी आदि। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सब इसी पुद्गल द्रव्य के पर्याय है। अमूर्त जीवों के शरीर भी पुद्गल परमाणुओं से ही बनते हैं। अमूर्तिक अजीव द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल है। आकाश को हम सब जानते हैं। यही वह द्रव्य है जो शेष सब द्रव्यों को रहने के लिये अवकाश प्रदान करता है। यह आकाश भी अनन्त है। किन्तु इसका वह भाग परिमित है जिसमें जीव व पुद्गलादि द्रव्य निवास करते हैं और जिसे 'लोकाकाश' कहते हैं। जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों से रहित अनन्त आकाश अलोकाकाश है। लोकाकाश अनन्त जीवों और पुद्गलों अर्थात् मूर्त द्रव्य से भरा हुआ तो है ही। साथ ही वह तीन अन्य द्रव्यों से व्याप्त है। जिस द्रव्य के कारण लोकाकाश में जीवों और पुद्गलों का गमनागमन सम्भव है वह द्रव्य कहलाता है 'धर्म' और जिस द्रव्य के कारण उनका स्थिर रहना सम्भव है वह द्रव्य कहलाता है 'अधर्म'। इन द्रव्य-वाचक धर्म और अधर्म शब्दों को कर्तव्य और अकर्तव्य बोधक शब्दों के अर्थ में समझने की भ्रान्ति नहीं करना चाहिये। सूर्य रश्मियां या विद्युत् लहरियां जिस द्रव्य के द्वारा प्रवाहित होती हैं वह 'ईथर' जैन तत्त्वज्ञान के अनुसार धर्म द्रव्य ही है। काल को हम सब जानते हैं। उस से पदार्थों की वर्तना को भी हम मापते हैं। इसे भी लोकाकाश भर में व्याप्त एक स्वतंत्र द्रव्य माना है जिसके प्रत्येक लोकाकाश प्रदेश पर एक एक अणु के विद्यमान होने से ही पदार्थों में विपरिवर्तन होता रहता है, और कोई पदार्थ लगातार एक रूप नहीं रहने पाता। बौद्ध दर्शन में जिसे पदार्थों का क्षणिकत्व कहा है वह जैन दर्शनानुसार इसी काल द्रव्य का कर्तव्य है।

हम ऊपर कह आये हैं कि पुद्गल द्रव्य का सूक्ष्मतरु रूप हमें परमाणु में दिखाई देता है। इन परमाणुओं की नाना प्रकार सूक्ष्म रचना होती है जिसे 'वर्गणा' कहते हैं। इन्हीं में एक कर्मण वर्गणा भी है। कर्मण वर्गणात्मक परमाणुओं के जीव-प्रदेशों के साथ सम्पर्क में आने को ही 'आस्रव' कहते हैं। उस समय यदि जीव के मन, वचन व काय में राग-द्वेषात्मक विकार रहा तो इस कर्मण वर्गणा का जीव-प्रदेशों के साथ 'बन्ध' हो जाता है जिसे प्रदेश-बन्ध कहते हैं। यही बन्ध भावों के अनुसार ज्ञानावरणीय आदि बाठ कर्मों के रूप में

परिवर्तित हो जाता है। इसे ही **प्रकृति-बंध** कहते हैं। भावों की तीव्रता और मन्दता के अनुसार उस बन्ध में तीव्र या मन्द रस देने की शक्ति पड़ जाती है। इसे **अनुभाग-बंध** कहते हैं। इसी के अनुसार उन कर्म-परमाणुओं के जीव के साथ संलग्न रहने की अधिक या कम काल-मर्यादा उत्पन्न हो जाती है जो **स्थिति-बंध** कहलाती है। यही कर्मबन्ध जीव को नाना गतियों, योनियों और अन्तर्भावों में ले जाता है। इस क्रिया में कोई ईश्वर या परमात्मा भाग नहीं लेता। स्वयं जीव के अपने शुद्ध और अशुद्ध भावों के अनुसार कर्मबन्ध में उत्कर्ष-अपकर्ष आदि क्रियाएँ होती रहती हैं।

जब जीव सतर्क होकर अपने भावों में राग-द्वेषात्मक विकारों को उत्पन्न नहीं होने देता तब पूर्वोक्त आस्रव व बन्ध की क्रिया का अवरोध हो जाता है जिसे 'संवर' कहते हैं। उपर्युक्त पांच व्रतों का व तदनुगामी अन्य नियमोपनियमों का परिपालन, उत्तम क्षमादि दश धर्मों का अभ्यास, अनित्यादि बारह भावनाओं का चिन्तन, क्षुधा-तृषादि परीषहों पर विजय तथा धर्म और शुक्ल ध्यान आदि धार्मिक अनुष्ठानों का हेतु आस्रव व बन्ध के अवरोध-रूप संवर को प्राप्त करना ही है। इसी के साथ उक्त सत्क्रियाओं द्वारा पूर्व के बंधे हुए कर्मों का क्षय भी होता है जिसे 'निर्जरा' कहते हैं। यों तो प्रत्येक कर्मबन्ध अपनी कालमर्यादा के भीतर अपना उचित फल देकर आत्मप्रदेशों से पृथक हो जाता है। किन्तु इस 'सपाक निर्जरा' में जीव का कल्याण नहीं होता, बस कि अपना स्वाभाविक फल देकर झड़ने में ही वह बन्ध जीव में ऐसे विकार उत्पन्न कर देता है जिससे और भी नया कर्म बन्ध उत्पन्न हो जाता है, और जीव आने दुःखानुभवों से मुक्ति नहीं पाता। किन्तु यदि पूर्वोक्त धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा आस्रव का निरोध और कर्मों का क्षय किया जाय तो 'अपाक निर्जरा' होती है जिससे जीव को कर्मों से छुटकारा मिलता है और आत्मा के स्वाभाविक दर्शन-ज्ञान रूप गुण प्रकट होते हैं।

जब 'संवर' द्वारा कर्मबन्ध की पूरी रोक हो जाती है और 'निर्जरा' द्वारा पूर्व संचित समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब जीव के स्वाभाविक गुण अनन्त-ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य अपनी परिपूर्ण अवस्था में प्रकट होते हैं। यही 'मोक्ष' है व जीव की परमात्मत्व-प्राप्ति है।

जैनधर्म के सातों तत्त्वों का निरूपण हो चुका। इसे संक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं—जीव एक द्रव्य है और अजीव दूसरा। इन दोनों का परस्पर सम्पर्क रूप आस्रव और मेल रूप बन्ध होता है जिससे जीव नानाप्रकार के सुख-दुःख का अनुभव करता है। यदि इस सम्पर्क का अवरोध अर्थात् संवर कर दिया जाय, और संचित कर्मों की भी धार्मिक क्रियाओं द्वारा निर्जरा कर दी जाय तो जीव का मोक्ष हो जाता है और उसे अनन्त चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है।

आध्यात्मिक उत्कर्ष की सीढ़ियाँ

कर्मबन्ध के घोरतम अन्धकार से निकलकर मोक्ष तक पहुँचने के लिये जिस आत्मोत्कर्ष की आवश्यकता होती है उसके चौदह दर्जे माने गये हैं जिन्हें

गुणस्थान कहते हैं। सबसे निम्न गुणस्थान उन अनन्त जीवों का है जिन्हें स्व-पर, आत्म-अनात्म एवं बुरे-भले का कोई विवेक नहीं। यह मिथ्यात्व गुणस्थान है। जिस समय जीव को तात्त्विक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तब उसका सम्यक्त्व नामक चौथा गुणस्थान हो जाता है। यदि यह सम्यक्त्व की प्राप्ति तात्त्विक दृष्टि को ढकने वाले कर्मों के क्षयसे अर्थात् भ्रायिक न होकर केवल उन कर्मों के तात्कालिक उपशम या क्षयोपशम मात्र से हुई तो उस जीव के सम्यक्त्व से पुनः पतित होने की संभावना होती है। सम्यक्त्व से पतित होकर मिथ्यात्व तक पहुँचने से पूर्व जीव की जो आध्यात्मिक अवस्था होती है उसे सासादन नामक दूसरा गुणस्थान कहा गया है। कभी कभी सम्यक्त्व के साथ कुछ मिथ्यात्व का अंश भी मिश्रित हो जाता है। यह सम्यग्मिथ्यात्व वा मिश्र नामक तीसरा गुणस्थान है। सम्यक्त्व हो जाने पर जब कुछ संयमभाव जागृत हो जाता है और जीव क्रमशः श्रावक के व्रतों का पालन करने लगता है तब उसका देशविरत या संयमासंयम नामक पाँचवाँ गुणस्थान होता है। महात्रनों के पालक छठे गुणस्थानवर्ती 'संयत' या प्रमत्तविरत होते हैं। जब संयम में से पन्द्रह प्रकार का प्रमाद भी दूर हो जाता है तब सातवाँ अप्रमत्त गुणस्थान होता है। इससे आगे यदि जीव अपनी घातक कर्मप्रकृतियों का उपशम करता हुआ आगे बढ़ता है तो वह अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मस्वाप्तराय इन आठवें, नौवें और दशवें गुणस्थानों में से बढ़ता हुआ ग्यारहवें गुणस्थान में 'उपशान्तमोह' रूप वीतराग होकर कुछ क्षणो पश्चात् अर्थात् अस्तमुहूर्त में ही पुनः नीचे आ गिरता है। यह उपशम भ्रंशी कहलाती है। किन्तु यदि जीव उक्त तीन गुणस्थानों में अपनी घातक प्रकृतियों का क्षय करता हुआ बढ़ता है तो वह ग्यारहवें गुणस्थान में न पहुँचकर बारहवें 'भ्रंशमोह' गुणस्थान में पहुँच जाता है जहाँ से वह केवलज्ञान प्राप्त कर 'सयोगकेवली' नामक तेरहवें और वहाँ से 'अयोगकेवली' नामक चौदहवें गुणस्थान में पहुँचकर अल्पकाल में ही शरीर को छोड़ सिद्ध, मुक्त, परमात्मा हो जाता है। जिस समय जीव तेरहवें सयोगकेवली गुणस्थान में होता है, तभी यदि उसने अपने पुण्य कर्मों द्वारा तीर्थंकर गोत्र का बन्ध किया हो तो, वह तीर्थंकर बनकर जीवों को मन्मार्ग का उपदेश देता है।

जीवजगत् का पर्यालोचन

जीवों की विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करने की चौदह दिशयें मानी गई हैं जिन्हें 'मार्गणास्थान' कहते हैं। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव ये चार भक्तियाँ हैं। इनमें जीवों की क्या दशाएं होती हैं और उनमें कितने गुणस्थान प्राप्त किए जा सकते हैं इसका विचार प्रथम गतिमार्गणा में होता है। कोई जीव जैसे पृथ्वी, अप, तेज वायु व वनस्पति कायिक स्पर्श इन्द्रियमात्र के विकसित होने से एकेंद्रिय होते हैं। किन्हीं के स्पर्श और जिह्वा ये दो इन्द्रियाँ होती हैं। किन्हीं के घ्राण और होने से वे त्रीन्द्रिय होते हैं। कोई चक्षु भी रखते हैं और चतुरेन्द्रिय होते हैं। तथा कोई जीव श्रोत्र सहित पंचेन्द्रिय होते हैं। इन

जीवों की दशाओं व योग्यताओं आदि का विचार द्वितीय इन्द्रियमार्गणा में किया जाता है। पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय जीवों का शरीर स्थावर और द्वीन्द्रिय आदि जीवों का शरीर त्रस कहलाता है। एकेन्द्रियों में भी वनस्पति के प्रत्येक व साधारण, तथा सप्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित आदि भेद होते हैं। इस सब का विचार कायमार्गणा नामक तृतीय मार्गणा में किया गया है। मन, वचन और काय की क्रिया का नाम योग है, और चौथी योगमार्गणा में जीव की इन्हीं क्रियाओं का विचार किया जाता है। कोई जीव पुरुष लिंगी होते हैं, कोई स्त्री लिंगी और कोई नपुंसक। इसके विचार के लिये पांचवीं वेद मार्गणा है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये जीव के चार कषाय रूप विकार हैं इन्हीं का विभक्त ज्ञान कराने वाली छठी कषाय मार्गणा है। मति, भुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल, ये ज्ञान के पांच भेद हैं। इनका ही सूक्ष्म विचार सातवीं ज्ञानमार्गणा में पाया जाता है। व्रतधारण, समिति-पालन, कषायों का निग्रह, मन, वचन, काय की अमत्प्रवृत्तियों का त्याग और इन्द्रियों का निग्रह, ये संयम के कार्य हैं और इनका विचार आठवीं संयम मार्गणा में होता है। ज्ञान में पूर्ण चेतना का जो पदार्थ के प्रति अवधान होता है उसे दर्शन कहते हैं। यह दर्शन चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल रूप से चार प्रकार का है जिसका विवरण नौवीं दर्शन मार्गणा का विषय है। क्रोध मानादि कषायों के उदय सहित अथवा बिना हृदय के जो मन वचन काय की प्रवृत्ति में तीव्रता व मंशता पाई जाती है वह लेश्या कहलाती है, क्योंकि इसीके द्वारा जीव पर कर्मों का लेप चढ़ता है। कषायों के चढाव उतार की अपेक्षा इसके छह भेद हैं: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इन्हींका विचार दशवीं लेश्या मार्गणा में किया गया है। कोई जीव तो सद्दृष्टि प्राप्त कर सिद्ध होने योग्य अर्थात् भव्य हैं और कोई अभव्य। जीवों का यही भेद ग्यारहवीं भव्यत्व मार्गणा का विषय है। जिस गुण की प्राप्ति से जीव मिथ्यात्व छोड़कर श्रद्धानी बनकर अपना व दूसरों का कल्याण करने लगता है उसे सम्यक्त्व कहते हैं। इसी के स्वरूप का अध्ययन करने के लिये बारहवीं सम्यक्त्व मार्गणा है। एकेन्द्रिय से लगाकर चतुर्दिन्द्रिय तक के समस्त जीव और पचेन्द्रियों में भी कुछ जीव ऐसी योग्यता नहीं रखते जिससे वे शिक्षा, क्रिया, आलाप व उपदेश का ग्रहण कर सकें। ये जीव असंजी हैं और जो शिक्षादि को ग्रहण कर सकते हैं वे संजी। यह विवेक तेरहवीं संज्ञा मार्गणा में किया गया है। नया शरीर धारण करने के लिये गमन आदि कुछ ही ऐसी अवस्थायें हैं जब जीव अपने आंगोपांगों के पीषण योग्य नोकर्म वर्णारूप पुद्गलद्रव्य का आहार या ग्रहण न करता हो। शेष अवस्थाओं में तो वह निरन्तर आहार करता ही रहता है। जीव की इन्हीं आहारक व अनाहारक अवस्थाओं का विचार चौदहवीं आहार मार्गणा में पाया जाता है। इस प्रकार प्राणि-वर्ग का अध्ययन इन चौदह मार्गणाओं में किया गया है।

विरोध में सामंजस्य

जो धर्म जीवमात्र से मैत्री भाव रखने और उत्तम क्षमा का अभ्यास करने का उपदेश देता है उसे अपने विचार-क्षेत्र में उदार और सामञ्जस्य दृष्टि का पोषक होना आवश्यक है। जैन धर्म की यह उदार और सामञ्जस्य दृष्टि उसके स्याद्वाद और नयवाद्द में पाई जाती है। पहले तो यह संसार ही बड़ा विचित्र और नानारूप एवं विषमशील है। दूसरे जितने जीव हैं वे सभी अपनी अपनी विभिन्न परिस्थितियों के वशीभूत होने से अपना अपना भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। तीसरे काल अपनी परिवर्तन-शीलता द्वारा किसी भी सजीव या असजीव पदार्थ को अधिक समय तक एकरूप नहीं रहने देता। और चौथे प्रत्येक वस्तु अपने अपने अनन्त गुण-धर्म रखती है और अनन्त पर्यायें बदल सकती है। ऐसी अवस्था में यदि किसी वस्तु के सम्बन्ध में देश-कालादि का विचार किये बिना कोई बात एकान्त बुद्धिसे कही जायगी तो वह सर्वथा सत्य न हो सकेगी। वह अर्धे के एकांग स्पर्श मात्र से प्राप्त किये हुए हाथी के ज्ञान के समान एकांगी होगी। तथापि हम वस्तु के समस्त धर्मों का एक माष विचार व कथन भी तो नहीं कर सकते। एक समय में किसी एक ही धर्म का विचार तो किया जा सकेगा। अतएव जब हम अन्य संभावनाओं का विचार छोड़कर वस्तु के स्वरूप-विशेष का कथन करते हैं तब वह एकान्त-द्रूपित होता है, और जब हम उन अन्य संभावनाओं का ध्यान रखकर कोई बात कहते हैं तब हम अनेकान्तवादी और सत्य हैं। इस दृष्टि में संसार की जितनी प्रवृत्तियाँ हैं वे सब अपनी अपनी विशेषता रखती हैं, और अपनी अपनी परिस्थिति में उनका औचित्य भी हो सकता है। किन्तु वे द्रूपित तब हो जाती हैं जब वे अपने देश, काल व मात्रा आदि की मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगती हैं। स्याद्वाद और अनेकान्त में वस्तुस्वरूप के कथन में इन्हीं विशेष दृष्टिकोणों पर जोर दिया गया है जिनके द्वारा हम विरुद्ध दिखाई देने वाली बातों में भी परस्पर सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। कोई किसी वस्तु को किसी विशेष गुण को लक्ष्य करके 'है' कहता है, और कोई उससे अन्य गुण को लक्ष्य करके कहता है 'नहीं'। यदि हम दोनों के लक्ष्यों को जान जायं, तो फिर हमें उन दोनों के 'है' और 'नहीं' में विरोध दिखाई नहीं देता, किन्तु सामंजस्य और परिपूरकता दृष्टिगोचर होगी। इसी कारण कहा गया है कि जैनी अपने अनेकान्त द्वारा समस्त मिथ्यामतों के समूह में ही पूर्णसत्य देखने का प्रयत्न करता है। यदि आज का विरोध और कषायग्रस्त संसार इस अनेकान्तात्मक विचारसरणि और अहिंसात्मक वृत्ति को अपना ले तो उसके समस्त दुःख दूर हो जायं और मनुष्य समाज में शांति, सुख और बन्धुत्व की स्थापना हो जाय।



मंगलाचरण



णमो अरिहंताणं ।
णमो सिद्धाणं ।
णमो आइरियाणं ।
णमो उवज्झायाणं ।
णमो लोए सव्व साहूणं ॥१॥

एसो पंच-णमोक्कारो सव्वपावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सव्वेसिं पटमं होइ मंगलं ॥ २ ॥

चत्तारि मंगलं ।
अरिहंता मंगलं ।
सिद्धा मंगलं ।
साहू मंगलं ।
केवलि-पणत्तो धम्मो मंगलं ॥ ३ ॥

चत्तारि लोगुत्तमा ।

अरिहंता लोगुत्तमा ।

सिद्धा लोगुत्तमा ।

साहू लोगुत्तमा ।

केवल्लि-पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो ॥ ४ ॥

चत्तारि सरणं पव्वज्जामि ।

अरिहंते सरणं पव्वज्जामि ।

सिद्धे सरणं पव्वज्जामि ।

साहू सरणं पव्वज्जामि ।

केवल्लि-पणत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि ॥ ५ ॥



लोक-स्वरूप

भवजगणंदयरं वोच्छामि अहं तिलोय-पण्णात्तिं ।
 णिब्भर भत्ति-पसादिद-वर-गुरु-चलणाणभावेणं ॥ १ ॥ १-८७
 जगसेदि-घणपमाणो लोयायासो सपंचदव्वरिदी ।
 एस अणंताणंतालोयायासस्स बह्मज्जे ॥ २ ॥ १-९१
 आदि-णिहणेण हीणो पगदि-सरूवेण एस संजादो ।
 जीवाजीव-समिद्धो सब्बण्हावलोइओ लोओ ॥ ३ ॥ १-१३३
 धम्माधम्म-णिब्बद्धा गदिरगदी जीव पोग्गलाणं च ।
 जत्तिय-मेत्तायासे लोयाआसो स णादव्वो ॥ ४ ॥ १-१३४

लोक-३

हेट्ठिमलोयायारो वेत्तासणसण्णिहो सहावेण ।
 मज्झिम-लोयायारो उब्भियमुरअद्दसारिच्छो ॥ ५ ॥ १-१३७
 उवरिम-लोयायारो उब्भियमुरवेण होइ सरिसत्तो ।
 संटाणो एदाणं लोयाणं एण्हि साहेमि ॥ ६ ॥ १-१३८
 हेट्ठिम-मज्झिम-उवरिम-लोउच्छेहो कमेण रज्जूवो ।
 सत्त य जोयणलक्खं जोयणलक्खणसगरज्जू ॥ ७ ॥ १-१५१

नरक-७

इह रयण-सक्करा-वाल्लु-पंक-धूम-तम-महातमादिपहा ।
 मुरवद्धम्मि महाओ सत्त च्चिय रज्जु अंतरिया ॥ ८ ॥ १-१५२
 घम्मा-वंसा-मेषा-अंजणरिद्धाण उब्भमव्वीओ ।
 मावविया इय ताणं पुटवीणं गोत्तणामाणि ॥ ९ ॥ १-१५३
 चुलसीदी लक्खाणं णिरयबिला होंति सब्ब-पुटवीसुं ।
 पुटविं पडि पत्तेक्कं ताण पमाणं परूवेमो ॥ १० ॥ २-२६

नीसं पणवीसं च य पण्णरसं दस तिण्णि होंति लक्खाणि ।
 पणरहिदेक्कं लक्खं पंच य रयणाइपुट्टवीणं ॥ ११ ॥ २-२७
 मज्जं पिबंता पिसिदं लसंता जीवे हणंते मिगयाण तत्ता ।
 णिमेस भेत्तेण सुहेण पावं पावंति दृक्खं णिरए अणंतं ॥ १२ ॥ २-३६२
 लोह-ओह-भय-मोह-त्रलेणं जे वदंति वयणं पि असक्कं ।
 ते णिरंतरभये उरुदुक्खे दारुणम्मि णिरयम्मि पडंते ॥ १३ ॥ २-३६३

ज्योतिषी देव-५

चंदा दिवायरा गह-णक्खत्ताणि पइण्णताराओ ।
 पंचविहा जोदिगणा लोयंतघणोवहि पुट्टा ॥ १४ ॥ ७-७
 एक्येक्क-संसंकाणं अट्टावीसा हुवंति णक्खत्ता ।
 एदाणं णामाइं कमजुत्तीए पख्वेमो ॥ १५ ॥ ७-२५

नक्षत्र-२७

क्वित्तिय-रोहिणि-मिगसिर-अदाओ पुणव्वसु तहा पुम्मो ।
 असिलेसादी मघओ पुव्वाओ उत्तराओ हत्थो य ॥ १६ ॥ ७-२६
 चित्ताओ सादीओ होंति विसाहाणुमह-जेट्ठाओ ।
 मूलं पुव्वासादा तत्तो वि य उत्तरासादा ॥ १७ ॥ ७-२७
 अभिजी-सवण-धनिट्टा सदभिस-णामाओ पुव्वभदपदा ।
 उत्तरभदपदा रेवदाओ तह अस्सिणी भरणी ॥ १८ ॥ ७-२८

स्वर्ग-१२

बारस कप्पा केई केई सोलस वदंति आइरिया ।
 तिविहाणि भासिदाणि कप्पातीदाणि पडलाणि ॥ १९ ॥ ८-११५
 सोहम्मीसाण-सणक्कुमार-माहिंद-बम्ह-लंतवया ।
 महसुक्क-सहस्सारा आणद-पाणदय-आरणच्चुदया ॥ २० ॥ ८-१२०

स्वर्ग-१६

सोहम्मो ईसाणो सणक्कुमारो तहेव माहिंदो ।
 बम्हो बम्हत्तरयं लंतव-कापिट्ट-सुक्क-महसुक्का ॥ २१ ॥ ८-१२७

सदर-सहस्साराणद-पाणद-आरणय-अचुदा णामा ।

इय सोलस कप्पाणि मण्णंते केइ आइरिया ॥ २२ ॥ ८-१२८

प्रेवेयक-९

एवं बारस कप्पा कप्पातीदेसु णव य गेवेजा ।

हेट्ठिम-हेट्ठिम णामो हेट्ठिम-मज्झिळ्ळु हेट्ठिमोवरिमो ॥ २३ ॥ ८-१२९

मज्झिम-हेट्ठिम णामो मज्झिम-मज्झिम मज्झिमोवरिमो ।

उवरिम-हेट्ठिम णामो उवरिम-मज्झिम य उवरिमोवरिमो ॥ २४ ॥ ८-१२२

विजयंत-वइजयंतं-जयंत-अपराजिदं च णामाणि ।

सव्वट्ठसिद्धिणामे पुव्वावर-दक्खिणुत्तर-दिसाए ॥ २५ ॥ ८-१२५

माणुस-लोय-पमाणे संठिय-तणुवाद् उवरिमे भागे ।

सरिससिरा सव्वाणं हेट्ठिमभागम्मि विसरिसा केइ ॥ २६ ॥ ९-१५

जावद्धं गंदब्बं तावं गंतूण लोयसिहरम्मि ।

चेट्ठन्ति सव्व सिद्धा पुह पुइ गयमित्थ-भूस-गव्वमणिहा ॥ २७ ॥ ९-१६

अदिसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं ।

अव्वुच्छिण्णं च मुदं सुद्धुवजोगं तु सिद्धाणं ॥ २८ ॥ ९-५९

जम्बूदीप

माणुस-जग बहुमञ्जे विकवादो होदि जंबुदीओ त्ति ।

एक्कञ्जोयणलक्ख-व्विकवंबंभजुदो सरिसवट्ठो ॥ २९ ॥ ४-११

तरिंसं जंबूदीवे सत्तविहा होंति जणपदा पवरा ।

एदाणं विच्चाले लक्खुलसेला विरायंते ॥ ३० ॥ ४-९०

क्षेत्र-७

दक्खिण-दिसाए भरहो हेमवदो हरि-विदेहरम्माणि ।

हेरणवदेरावद्-वरिसा कुल-पव्वदंतरिदा ॥ ३१ ॥ ४-९१

पर्वत-६

हिमवंतं महाहिमवंतं-णिसिध-णीलदि-रुम्मि-सिहरिगिरी ।

मूलोवरिसमवासा पुव्वावर-जलधीहिं संलग्गा ॥ ३२ ॥ ४-९४

भरत क्षेत्र

भरह-खिदीब्रहुमज्जे विजयद्धो णाम भूधरो तुंगो ।
रजदमओ चेट्ठेदि हु णाणावररयण-रमणिज्जो ॥ ३३ ॥ ४-१०७

गंगा

हिमवंताचलमज्जे पउमदहो पुव्व-पच्छिमायामो । ४-१९५
तस्सि पुव्वदिसाए णिग्गच्छदि णिम्मगा गंगा ॥ ३४ ॥ ४-१९६

सिन्धु

पउमदहादो पच्छिमदारेणं णिस्सरेदि सिन्धुणदी । ४-२५२
चोदह-सहस्ससरिया परिवारा पविसण उवहिं ॥ ३५ ॥ ४-२६४

खंड-६

गंगा-सिन्धुणईहिं वेयड्ढ-णगेण भरहखेत्तम्मि ।
छक्खंडं संजादं ताण विभागं पख्वेमो ॥ ३६ ॥ ४-२६६
उत्तर-दक्खिण भरहे खंडाणि तिण्णि होति पत्तेक्कं ।
दक्खिण-तिय-खंडेमु अज्जाखंडो त्ति मज्झिमो ॥ ३७ ॥ ४-२६७
भरहक्खेत्तम्मि इमे अज्जाखंडम्मि कालपरिभागा ।
अवसाप्पिणि-उस्सपिणि पज्जाया दोण्णि होति पुट्ठ ॥ ३८ ॥ ४-३१२

काल-६

दोण्णि वि मिलिदे कम्पं छब्भेदा होति तत्थ एक्केक्कं ।
सुसुमसुसुमं च सुसुमं तइज्जयं सुसुमदुस्समयं ॥ ३९ ॥ ४-३१६
दुस्समसुसुमं दुस्सममदिदुस्समयं च तेसु पढम्मि । ४-३१७
परदारदी-परधणचोरी णं णत्थि णियमेणं ॥ ४० ॥ ४-३३३
कालम्मि सुसुमणामे तियकोडाकोडिउवहिउवम्मि ।
पढमादो हायंते उच्छेहाऊ-बलद्धि-तेजाई ॥ ४१ ॥ ४-४०२
उच्छेह-पहु दिखीणे पविसेदि हु सुसुमदुस्समो कालो । ४-४०३
अच्छरसरिसा णारी अमरसमाणो णरो होदि ॥ ४२ ॥ ४-४०५

कुलकर-१४

एदे चउदस मणुओ पदिसुदपहुदी हु णाहिरायंता । *
 पुव्वभवम्मि विदेहे राजकुमारा महाकुले जादा ॥४३॥ ४-५०४
 कुलधारणाद् सव्वे कुलधरणामेण भुवणविक्रवादा ।
 कुलकरणम्मि य कुसला कुलकरणामेण सुपसिद्धा ॥४४॥ ४-५०९
 एत्तो सलायपुरिसा तेसट्ठी सयलभुवण-विक्रवादा ।
 जायंति भरहखेत्ते णरसीहा पुण्णपाकेण ॥४५॥ ४-५१०
 तित्थयर-चक्क-बल-हरि-पडिसत्तू णाम विस्सुदा कमसो ।
 विउणियवारसँ-वारसँ-पयत्थं-णिधिं-रधं-संखाए ॥४६॥ ४-५११

तीर्थकर-२४

उमहमजियं च संभवमहिणंदण-सुमइ णामधेयं च ।
 पउमप्पहं सुपासं चंदप्पह-पुप्फयंत-सीयलए ॥४७॥ ४-५१२
 सेयंस-वासुपुज्जे विमलाणंते य धम्म-संती य ।
 कुंथु-अर-मल्लि-सुव्वय-गमि-णेमी-पास-वड्ढमाणा य ॥४८॥४-५१३
 पणमहु चउवीस जिणे तित्थयेरे तत्थ भरहखेत्तम्मि ।
 भव्वाणं भवरुक्खं छिंदंते णाण-परसूहिं ॥४९॥ ४-५१४

चक्रवर्ती-१२

भरहो सगरो मघवा सणंकुमारो य संति वृंथु अरा ।
 तह य सुभोमो पउमो हरि-जयसेणा य बग्घदत्तो य ॥५०॥४-५१५
 लक्खड-पुट्टविमंडल-पसाहणा कित्ति-भारिय-भुवणयला ।
 एदे बारस जादा चक्कहरा भरह-खेत्ताम्मि ॥५१॥ ४-५१६

* सुषम-दुषमा काल के अन्तिम भाग में क्रमशः चौदह कुलकर होते हैं जो अपने अपने काल की परिस्थित के अनुसार युगधर्म का उपदेश देते हैं। उन १४ कुलकरों के नाम इस प्रकार हैं—प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंकर, सीमंकर, सीमंकर, विमलवाहन, चक्षुष्मान्, यशस्वी, आभिचन्द्र, चन्द्राभि, मरुदेव, प्रसेनजित्, नाभिराय ।

बलदेव-९

विजयो अचल सुधम्मो सुप्पहणामो सुदंसणो णंदी ।
तह णंदिमिस्स रामो पउमो णव होंति बलदेवा ॥५२॥ ४-५१७

नारायण-९

तह य तिविद्ध-दुविद्धा सयंभु पुरिमुत्तमो पुरिससीहो ।
पुंडरिय-दत्त-णारायणा य किण्हो हुवंति णव विण्हू ॥५३॥ ४-५१८

प्रतिनारायण-९

अस्सग्गीवो तारय-मेरग-मधुकीडभा तह णिसुंभो ।
बालि-पहरण-रावणओ जरसंधो य णवय पडिसत्तू ॥५४॥ ४-५१९

रुद्र-११

भीमावलि-जियसत्तू रुद्रो वइसाणलो य सुपइट्ठो ।
तह अचल पुंडरीओ अजियंधर अजियणाभि-रेडाला ॥५५॥ ४-५२०
सच्चइसुदो य एंए एक्कारस होंति तिण्थयरकाले ।
रुद्रा रउदइकम्मा अहम्म-वावार-संलग्गा ॥५६॥ ४-५२१

महावीर

सिद्धत्थराय पियेकारिणीहिं णयरम्मि कुंडले वीरो ।
उत्तरफग्गुणि रिक्खे चित्तसिया तेरसीए उप्पण्णो ॥५७॥ ४-५४९
अट्टुत्तर अधियाए वेसदपरिमाणवास-अदिरित्ते ।
पासजिणुप्पत्तीदो उप्पत्ती वड्ढमाणस्स ॥५८॥ ४-५७७
मग्गसिर-बहुल-दसमी-अवरणहे उत्तरासु णाधवणे ।
तदियंरखणम्मि गहिदं महव्वदं वड्ढमाणेण ॥५९॥ ४-६६७
णंमो मल्ली वीरो कुमारकालम्मि वासुपुज्जो य ।
पासो ि य गहिदतवा सेसजिणा रज्जचरमम्मि ॥६०॥ ४-६७०
वइसाह-सुद्ध-दसमी माघा-रिक्खम्मि वीरणाहस्स ।
रिजुकूलणदीतीरे अवरणहे केवलं णाणं ॥६१॥ ४-७०१

कत्तियकिण्डे चोदसि पञ्चूसे सादिणामणक्खत्ते ।

पात्राए णयरीए एक्को वीरेसरो सिद्धो ॥ ६२ ॥ ४-१२०८

तिय वासा अढ मासं पक्खं तह तदिपकालअवसेसे ।

सिद्धो रिसहजिणिदो वीरो तुरिमस्स तेत्तिए सेसे ॥ ६३ ॥ ४-१२३९

णिब्बाणे वीरजिणे वासतये अट्टमास पक्खेसुं ।

गल्लिदेसुं पंचमओ दुस्समकालो समल्लियदि ॥ ६४ ॥ ४-१४७४

केवली ३

जादो सिद्धो वीरो तद्विसे गोदमो परमणाणी ।

जादो तस्सिं सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादो ॥ ६५ ॥ ४-१४७६

तम्मि कदकम्मणासे जंबूसामि त्ति केवली जादो ।

सत्थ त्रि सिद्धिपवण्णे केवल्लिणो णत्थि अणुवद्धा ॥ ६६ ॥ ४-१४७७

शकराज

वीरजिणे सिद्धिगदे चउसदइगिसट्ठि वासपरिमाणे ।

कालम्मि अदिक्कंते उष्पण्णो णत्थ सगराओ ॥ ६७ ॥ ४-१४९६

णिब्बाणे वीरजिणे लब्बाससदेसु पंचवरिसेसु ।

पण मासेसु गदेसुं संजादो सगणिओ अहवा ॥ ६८ ॥ ४-१४९९

णिब्बाणगदे वीरे चउसदइगिसट्ठि वासविच्छेदे ।

जादो य सगणरिदो रज्जं वंसस्स दुसयवादाला ॥ ६९ ॥ ४-१५०३

दोण्णि सदा पणवण्णा गुत्ताणं चउमुहस्स वादालं ।

वस्सं होदि सहस्सं केई एवं पक्खंति ॥ ७० ॥ ४-१५०४

जक्काले वीरजिणो णिस्सेयससंपयं समावण्णो ।

तक्काले अभिसित्तो पालयणामो अवंतिमुदो ॥ ७१ ॥ ४-१५०५

पालकरज्जं सट्ठिं इगिसयपणवण्ण विजयवंसभवा ।

चालं मुरुदयवंसा तीसं वस्सा सुपुस्समित्तम्मि ॥ ७२ ॥ ४-१५०६

वसुमित्त-अग्गिमित्ता सट्ठी गंधव्वया वि सयमेक्कं ।

णरवाहणा य चालं तत्तो भत्थट्ठणा जादा ॥ ७३ ॥ ४-१५०७

भयट्टणाण कालो दोणिण सयाइं हवंति बादाला ।

तत्तो गुत्ता ताणं रज्जे दोणिण य सयाणि इगितीसा ॥७४॥ ४-१५०८

तत्तो कक्की जादो इंदसुदो तस्स चउमुहो णामो ।

सत्तग्गि वरिसा आऊ त्रिगुणिय इगिवीस रउजंतो ॥७५॥ ४-१५०९

अह माहिऊण कक्की णियजोगे जणपदे पयत्तेण ।

सुक्कं जाचदि लुद्धो पिंडग्गं जाव ताव ममणाओ ॥७६॥ ४-१५१०

अह को त्रि अमुग्देवो ओवीदो मुणिगणाण उवसग्गं ।

णादृणं तं कक्कि मारेदि ह्व धम्मदोहि त्ति ॥ ७७ ॥ ४-१५१३

कक्किमुदो अजिदंजयणामो रक्ख त्ति णमदि तच्चरणे ।

तं रक्खदि अमुग्देओ धम्मे रज्जं करेउज त्ति ॥ ७८ ॥ ४-१५१४

तत्तो दोवे वामा मम्मदुधम्मो पयइदि जणाण ।

कमसो दिवसे दिवसे कालमहप्पेण हाण्ढे ॥ ७९ ॥ ४-१५१५

[यतिवृषभकृत तिलोयपण्णत्ति

: २ :

गृहस्थ-धर्म [१]

अहते वंदित्ता सावगधम्म दृक्खलसविहं पि ।
वोच्छामि समासेणं गुक्खवणमाणुमारणं ॥ १ ॥
सपत्तदंसणाई पइदियहं जइजणा सुणेई य ।
सामायरि परमं जो खलु तं सावगं विति ॥ २ ॥
पंचेव अणुव्वयाइं गुणव्वयाइं च हुंति तिन्नेव ।
सिक्खवावयाइं चउगे सावगधम्मो दृवाळमहा ॥ ३ ॥ ६

अहिंसा

पंच उ अणुव्वयाइं थूलगपाणिवहविरमणाईणि ।
तथ पटम इम खलु पन्नत्तं वीयगगेहि ॥ ४ ॥ १०६
थूलगपाणिवहस्माविरईं दृविहो अ सो वहो होइ ।
संकप्पारंभेहि य वज्जइ सकप्पओ विहिणा ॥ ५ ॥ १०७
उच्चात्थियम्मि पाए इरियासमियस्स संकमट्टाए ।
वावत्थिज्ज कुल्लिगी मग्गिज्ज तं जोगमासज्ज ॥ ६ ॥ २२३
न य तस्म तन्निमित्तो बंधो मुट्टमो वि दांसिओ समए ।
जम्हा मो अपमत्तो सा उ पमाउ त्ति निदिट्ठा ॥ ७ ॥ २२४
पडिवत्थिज्जुण य वयं तस्सइयारे जहाविहिं नाउं ।
संपुण्णपालणट्ठा परिहरियव्वा पयत्तेणं ॥ ८ ॥ २५७
बध-वह-लुविचिच्छेए अइभारे भत्त-पाणवुच्छेए ।
कोहाइदूसियमणो गोमणुयाईण नो कुज्जा ॥९॥ २५८
परिसुद्धजलगहणं दारुयधन्नाइयाण तह चेव ।
गहियाण वि परिभोगो विहीइ तस्सक्खणट्ठाए ॥१०॥ २५९

सत्य

थूलमुसावायस्स उ विरई दुच्चं स पंचहा होइ ।
 कन्ना-गो-भूआलिय-नासहरण-कूडसक्खिजे ॥११॥ २६०
 पडिवज्जिऊण य वयं तस्सइयारे जहाविहिं नाउं ।
 संपुण्णपालणट्ठा परिहरियव्वा पयत्तेणं ॥१२॥ २६२
 सहसा अब्भक्खाणं रहसा य सदारमंतभेयं च ।
 मोसोवएसयं कूडलेहकरणं च वज्जिज्जा ॥१३॥ २६३
 बुद्धीए निएऊणं भासिज्जा उभयलोगपरिमुद्धं ।
 सपरोभयाणं जं खलु न सव्वहा पीडजणं तु ॥१४॥ २६४

अचौर्यं

थूलमइत्तादाणे विरई तच्चं दुहा य तं भणियं ।
 सच्चित्ताचित्तगयं समासओ वीयगगेहिं ॥१४॥ २६५
 वज्जिज्जा तेनाहड-नक्करजोगं विरुद्धरज्जं च ।
 कूडतुल-कूडमाणं तप्पडिम्बं च ववहारं ॥१५॥ २६८

ब्रह्मचर्यं

परदारपरिच्चाओ सदारमतोममो वि य चउत्थं ।
 दुविहं परदारं खलु उरालवेउव्विभेणं ॥१६॥ २७०
 इत्तरिय-परिगगहियापरिगहियागमणणंगकीडं च ।
 परवीवाहकरणं कामे तिक्खाभिलासं च ॥१७॥ २७३
 वज्जिज्जा मोहकरं परजुवइदंसणाइ सव्वियारं ।
 एए खु मयणवाणा चरित्तपाणे विणासंति ॥१८॥ २७४

अपरिग्रह

सच्चित्ताचित्तेसुं इच्छापरिणाममो य पंचमयं ।
 भणियं अणुव्वयं खलु समासओ णंतनाणीहिं ॥१९॥ २७५
 वित्ताइ हिरणाई धणाए दुपयाइ कुवियगस्स तथा ।
 सम्मं विसुद्धचित्तो न पमाणाइक्कमं कुज्जा ॥२०॥ २७८

भाविज्ज य संतोसं गहियमियाणि अजाणमाणेणं ।

थोवं पुणो ण एवं गिण्हिस्सामो त्ति चिंतिज्जा ॥२१॥ २७९

दिग्घ्नत

उड्ढमहे तिरियं पि य दिसामु परिमाणकरणमिह पढमं ।

भणियं गुणव्वयं खलु सावगधम्ममि वीरेण ॥२२॥ २८०

भोगोपभोग-परिमाण

उवभोग-परीभोग वीयं परिमाणकरणमो नेयं ।

अणियमियवाविदोसा न भवंति कयम्मि गुणभाघो ॥२३॥ २८४

सच्चित्ताहारं खलु तप्पडिबद्धं च वज्जणं सम्मं ।

अपोलिय-दुप्पोलिय-तुच्छोसहि-भक्खणं चेव ॥२४॥ २८६

अनर्थदण्ड व्रत

इंगालीवणमाडी-भाडी-फोडीसु वज्जणं कम्मं ।

वाणिज्जं चेव दंतलक्खरम-केस-विस-विसयं ॥२५॥ २८७

एवं खु जंतपीलणकम्मं निल्लंछणं च दवदाणं ।

सर-दह-तलायसोमं असर्भपोसं च वज्जिज्जा ॥२६॥ २८८

विरेइ अणत्थदंढे तच्चं स चउव्विहो अवज्जाणो ।

पमायायगियहिंसपपयाणपावोवणसे य ॥२७॥ २८९

अट्टेण तं न बंधइ जमणट्टेणं तु थेव-बहुभावा ।

अट्टे कालाईया नियामगा न उ अणट्टाए ॥२९॥ २९०

कंदपपं कुक्कुडयं मोहरियं संजुयाहिगरणं च ।

उवभोगपरीभोगाइरेयगयं चित्थ वज्जेइ ॥२९॥ २९१

सामायिक

सिक्खापयं च पढमं सामाइयमेव तं तु नायव्वं ।

साक्खजोयरजोगाण वज्जणासेवणारूवं ॥३०॥ २९२

सामइयम्मि उ कए समणो इव सावओ हवइ जम्हा ।

एएण कारणेणं बहुसो सामाइयं कुज्जा ॥३१॥ २९९

देशवकासिक

दिसि वयगहियस्स दिसापग्माणस्सेइ पइदिणं जं तु ।
 पग्माणकरणमय वीयं सिक्खावयं भणिय ॥३२॥ ३१८
 देसावगामियं नाम सपविसनायओऽपमायाओ ।
 आसयसुदूधीइ हियं पात्थेयव्वं पयत्तेण ॥३३॥ ३१९

प्रोपधोपवास

आहार-पोसहो ग्वलु सर्गारसक्कारपोसहो चेव ।
 वंभवावारसु य तइयं सिक्खावयं नाम ॥३४॥ ३२१
 अप्पडि-दुपडिलेहिय-मिज्जा-मंथारयं विवज्जिजा ।
 अपमज्जिय-दुपमज्जिय तह उच्चारइ भूमि च ॥ ३५ ॥ ३२३
 तह चेव य उच्चुत्तो विहीइ इह पोसहम्मि वज्जिजा ।
 सम्मं च अणणुपाळणमाद्धारइमु सव्वेमु ॥ ३६ ॥ ३२४
 नायागयाण अन्नाइयाण तह चेव कापणिज्जाणं ।
 देमद्दसद्द-सक्कारकमजुयं परममर्त्ताण ॥ ३७ ॥ ३२५

अतिथि-मंविभाग

आयाणुग्गहबुद्धीइ सजयाण जमित्थ दाण तु ।
 एयं जिणेहि भणियं गिहीण सिक्खावययं चरिमं ॥ ३८ ॥ ३२६
 इत्थ उ समणोवामगधम्मं अणुवय-गुणव्वयाइं च ।
 आव कहियाइ सिक्खावयाइं पुण इत्तराइं ति ॥ ३९ ॥ ३२८
 कुमुमे हि वासियाणं तिलाण तिल्लं पि जायइ सुयंघ ।
 एदोवमा हु बोही पन्नता वीयरगेहि ॥ ४० ॥ ३८७

[हरिभद्रसूरिकृत श्रावकप्रज्ञप्ति]

गृहस्थ-धर्म [२]

सायारो अणयारो भवियाणं जेण देसिओ धम्मो ।
 णमिऊण तं जिणिदं सावयधम्म पख्वेमो ॥ १ ॥
 दमण - य-मामाडय-पोसह-मचित्त-राइभुत्ती य ।
 वम्हारंभपरिग्गह-अणुमदमुद्धिद्व देसकिरदम्हि ॥ २ ॥ ४
 ण्यारम टाणाइ सम्भत्तविवज्जियस्म जीवस्म ।
 जम्हा ण संति तम्हा सम्भत्तं मुणहु वोच्छामि ॥ ३ ॥ ५
 अत्तागमतच्चाणं ज म्हाण मुणिम्मल ह्योदि ।
 संकाइ-दोसरहिय त सम्भत्त मुण्यव्व ॥ ४ ॥ ६ ॥
 णिस्संका णिक्कंवा णिव्विदिगिह्ठा अमृदद्विटी य ।
 उवग्गूहण ठिट्ठियरणं वच्छल्ल पहावणा चैव ॥ ५ ॥ ४८
 मंवेओ^१ णिव्वेओ^२ णिदा^३ गरहा^४ य उवममो^५ भत्ती^६ ।
 वच्छल्ले^७ अणुक्कापा^८ अट्ट गुणा वृत्ति सम्भत्ते ॥ ६ ॥ ४९.
 णिसि-गुण-अट्ट-जुयं सम्भत्तं जो धरेइ दिट्ठचित्तो ।
 सो हवइ सम्भदिट्ठी मइहमाणो पयत्थे य ॥ ७ ॥ ५६

१-दर्शन

पंचुवरमहियांडं सत्त वि विमणांडं जो विवज्जेइ ।
 सम्भत्त-विमुद्धमई सो दंसणसावओ भणिओ ॥ ८ ॥ ५७
 उंवर-वड-पीपल-पिय-पायर-संधाणतरु-पसूणाइं ।
 णिच्चं तमसंसिद्धांडं तांडं परिवज्जियव्वाइं ॥ ९ ॥ ५८
 जुयं मज्जं मंसं वेसा पारद्धि चौर परयारं ।
 दुग्गइ-गमणस्सेटाणि हेउभूदाणि पावाणि ॥ १० ॥ ५९.

२-व्रत

पंचेव अणुत्रयाइं गुणव्रयाइं च ह्येति पुण तिणिण ।
 मिक्खावयाणि चत्तारि जाइए विदियम्मि ठाणम्मि ॥ ११ ॥ २०६
 पाणाइवायविरई सच्चमदत्तस्स वज्जणं चेव ।
 थूलयडक्खमहचेरं इच्छाए गंधपरिमाणं ॥ १२ ॥ २०७
 पुव्वुत्तर-इक्खिण-पच्छिमासु काऊण जोयणपमाणं ।
 परदो गमणणियत्ती दिसि णाम गुणव्वयं पट्टमं ॥ १३ ॥ २१३
 वयभंगकारणं होइ जम्मि देसम्मि तथ्य णियमेण ।
 कीरइ गमणणियत्ती तं जाण गुणव्वयं विदियं ॥ १४ ॥ २१४
 अयदंड-पासविक्रय-कूडतुला-माण-कूरमत्ताणं ।
 जं संगहो ण कीरइ तं जाण गुणव्वयं तिदियं ॥ १५ ॥ २१५
 जं परिमाणं कीरइ मंडण-तंबोल-गंध-पुष्पाणं ।
 तं भोयविरइ भणियं पट्टमं सिक्खावयं सुत्ते ॥ १६ ॥ २१६
 मगमत्तीए महिला-वत्थाइरणण जं तु परिमाणं ।
 तं परिभोयणिवुत्ती विदियं मिक्खावयं जाण ॥ १७ ॥ २१७
 अतिहिम्म सविभागो तिदियं सिक्खावयं मुणेयव्वं ।
 मगिहे जिणालये वा तिविहाहारस्स वोसरणं ॥ १८ ॥ २७१
 जं कुणइ गुरुपासम्मि य सम्ममालोइऊण तिविहेण ।
 सल्लेखणं चउत्थं सुत्ते सिक्खावयं भणियं ॥ १९ ॥ २७२

३-सामायिक

होऊण मुई चेइयगिहम्मि सगिहे व चेइयाहिमुहो ।
 अण्णत्त सुइपएसे पुव्वमुहो उत्तरमुहो वा ॥ २० ॥ २७४
 काउस्सग्गम्मि ठिओ लाहालाहं च सत्तुमित्तं च ।
 जो पस्सइ समभावं मणम्मि धरिऊण पंच णवकारं ॥ २१ ॥ २७६
 सिद्धसरूवं ज्ञायइ अहवा ज्ञाणुत्तमं ससंवेयं ।
 खणमेवामविचलंगो उत्तमसामाइयं तस्स ॥ २२ ॥ २७८

४-प्रोषधोपवास

उत्तम-मज्ज-जहणं तिविहं पोसहविहाणमुद्धिं ।
 सगसत्ति एयमासग्मि चउम्पु पव्वेसु कायव्वं ॥ २३ ॥ २८०
 जह उक्कस्स तहा मज्जमवि पोसहविहाणमुद्धिं ।
 णवर विसेसो सलिलं छंडित्ता वज्जण सेसं ॥ २४ ॥ २९०
 मुणिकुण गुरु व कउजं सावउजं वज्जिकुण गिरारभं ।
 जं कीरइ तं णेयं जहणणयं पोसहविहाणं ॥ २५ ॥ २९१

५-सचित्तत्याग

जं वज्जिजं हरियं तु य पत्त-पवाल-कंद-फल वीयं ।
 अप्पासुगं च सलिलं सचित्त-विणिवित्ति तं ठाणं ॥ २६ ॥ २९५

६-दिवा ब्रह्मचर्यं व निशि भोजन

मण-वयण-कायकय-कारियाणुमोण्हिं मेहुण णवधा ।
 दिवसग्मि जो विवज्जइ गुणग्मि सो सावओ छट्ठो ॥ २७ ॥ २९६
 एयादमेसु पट्टमं वि जदो णिसिभोयण कुणंतस्म ।
 ठाण ण ठाइ तम्हा णिसिमुत्तं परिहरं णियमा ॥ २८ ॥ ३१४
 चम्मट्टि-कीड-उंदुरु-भुयग-केमाइं असणमज्जग्मि ।
 पडियं ण किं पि पम्सइ भुजइ मव्व पि णिसिसमण ॥ २९ ॥ ३१५
 एवं बहुप्पयारं दोसं णिसिभोयणग्मि णाऊण ।
 तिविहेण राइभुत्ती परिहरियिक्वा हवे तम्हा ॥ ३० ॥ ३१८

७-ब्रह्मचर्यं

पुवुत्त णवविहाणं पि मेहुण सव्वदा विवज्जंतो ।
 इत्थिकहाइ णिवित्तो सत्तमगुणवंधयारी सो ॥ ३१ ॥ २९७

८-आरंभत्याग

जं किं चि गिहारंभं बहु थोगं वा समा विवज्जेई ।
 आरंभणियट्टिमईं सो अट्ठम सावओ भणिओ ॥ ३२ ॥ २९८

❀ अन्य भावकाचार ग्रंथों में छठवीं प्रतिमा निशिभोजन त्याग की ही मानी गई है, किन्तु प्रस्तुत ग्रंथ के कर्ता ने इस त्याग को प्रथम प्रतिमा से ही अनिवार्य बतलाया है ।

९-परिग्रहत्याग

मोक्षेण वत्थमत्तं परिग्रहं जो विवज्जए सेसं ।

तत्थ वि मुच्छं ण करइ जाणइ सो सावओ णवमो ॥ ३३ ॥ २०९

१०-अनुमत्तित्याग

पुट्ठो वि य णिययेहि य परेहि लोयेहिं सगिहकज्जम्मि ।

अणुमणणं जो ण कुणइ वियाण सो सावओ दसमो ॥ ३४ ॥ ३००

११-उद्दिष्टत्याग

एयारसम्मि टाणे उक्किट्ठो सावओ हवे दुविहो ।

वत्थेक्कधरो पटमो कोवीणपरिग्रहो विदिओ ॥ ३५ ॥ ३०१

धम्मिल्लणं चयणं करेइ कत्तरि छुरेण वा पटमो ।

टाणाइमु पडिल्लेहइ उवयरणेण पयडप्पा ॥ ३६ ॥ ३०२

भुंजइ पाणिपत्तम्मि भायणे वा सुई समुवइट्ठो ।

उववासं पुणं णियमा चउव्विहं कुणइ पव्वेसु ॥ ३७ ॥ ३०३

एवं वीओ होई णवर विसेसो कुणिज्ज णियमेण ।

लोचं धरिज्ज पिच्छं भुंजिज्जो पाणिपत्तम्मि ॥ ३८ ॥ ३११

[वसुनन्दिकृत श्रावकाचार]

मुनि-धर्म [१]

संजमे सुद्वियप्पाणं विप्पमुक्काण ताइणं ।
तेसिमेयमणाइण्णं निग्गंथाण महेसिणं ॥ १ ॥
उदेसियं कीयगडं नियागं अभिहडाणि य ।
राइभत्ते सिणाणे य गंध-मल्ले य वीयणे ॥ २ ॥
सन्निही गिहिमत्ते य रायपिंडे किमिच्छए ।
संवाहणं दन्त-पहोयणा य संपुच्छण-देह-पक्खोयणा य ॥ ३ ॥
अट्टावए य नाली य छत्तस्स य धारणट्टाए ।
तेगिच्छं पाणहा पाए समारम्भं च जोइणो ॥ ४ ॥
सेज्जायर-पिंडं च आसन्दी पलियङ्कए ।
गिहन्तर-निसेज्जा य गायस्सुव्वट्टणाणि य ॥ ५ ॥
गिहिणो वेयाघडियं जा य आजीव-वत्तिया ।
तत्तानिव्वुड-भोइत्तं आउ-स्सरणाणि य ॥ ६ ॥
मूलए सिमवेरे य उच्छुखंडे अनिव्वुडे ।
कन्दे मूले य सच्चित्ते फले वीए य आमए ॥ ७ ॥
सोवच्चले सिधवे लोणे रोमा-लोणे य आमए ।
सामुदे पंसुखारे य कालालोणे य आमए ॥ ८ ॥
धूवणे त्ति वमणे य वन्थीकम्म विरेयणे ।
अंजणे दंतवणे य गायामंगविभूसणे ॥ ९ ॥
सव्वमेयमणाइण्णं निग्गंथाण महेसिण ।
संजमम्मि य जुत्ताणं लहुभयविहाणि ॥ १० ॥
पंचासव-परिन्नाया ति-गुत्ता हसु संजया ।
पंच-निग्गहणा धीरा निग्गंथा उज्जु-दंसिणो ॥ ११ ॥

आयावयन्ति गिम्हेसु हेमन्तेसु अत्राउडा ।
 वासाम् पडिसंलीणा संजया सुसमाहिया ॥ १२ ॥
 परीसह-रिऊ दन्ता धुयमोहा जिइन्दिया ।
 सव्वदुक्कवप्पहीणट्टा पक्कमन्ति मंहंसिणो ॥ १३ ॥
 दुक्कराईं करेत्ताणं दुस्सहाईं सेहेत्तु य ।
 के एत्थ देवल्लोगेसु केईं सिज्झन्ति नीरया ॥ १४ ॥
 खवित्ता पुव्व-क्कम्माईं संजमेण तवेण यं ।
 सिद्धि-मग्गमणुप्पत्ता ताडणो परिनिव्वुडा ॥ १५ ॥

[दशवैकालिक सूत्र-३]

मुनि-धर्म [२]

मूलगुणेषु विसुद्धे वंदित्ता सव्वसंजटे सिरसा ।
इह-परलोगहिदत्थे मूलगुणे कित्तइस्सामि ॥ १ ॥
पंच य महव्वयाइं समिदीओ पंच जिणवरोद्धिटा ।
पंचेविदियरोहा छप्पि य आवासया लोचो ॥ २ ॥
अच्चेलकमण्हाणं खिदिसयणमदंतघस्सणं चेव ।
ठिदिभोयणेयभत्तं मूलगुणा अट्टवीसा दु ॥ ३ ॥
हिंसाविरदी सच्चं अदत्तपरिवज्जणं च बंभं च ।
संगविमुत्ती य तथा महव्वया पंच पण्णत्ता ॥ ४ ॥

महाव्रत-५. १-अहिंसा

कार्येदिय-गुण-मग्गण-कुत्ताउजोणीसु सव्वजीवाणं ।
णाऊण य टाणादिसु हिंसादिविवज्जणमहिंसा ॥ ५ ॥

२-सत्य

रागादीहिं असच्चं चत्ता परतावसच्चवयणोत्तिं ।
मुत्तत्थाण वि कहणे अयधावयणुज्जणं सच्चं ॥ ६ ॥

३-अचौर्य

गामादिसु पडिदाइं अप्पप्पद्धिदिं परेण संगहिदं ।
णादाणं परदव्वं अदत्तपरिवज्जणं तं तु ॥ ७ ॥

४-ब्रह्मचर्य

मादु-सुदा-भगिणी विय दट्ठूणित्थित्थियं च पडिरूवं ।
इत्थिकहादिणियत्ती तिलोयपुज्जं हवे बंभं ॥ ८ ॥

५-अपरिग्रह

जीवणिबद्धा बद्धा परिगहा जीवसंभवा चेव ।
तेसिं सक्कच्चाओ इयरग्धि य णिम्ममो ऽ संगो ॥ ९ ॥

समिति-५. १-ईर्या

इरिया भामा एसण णिक्खेवादाणमेव समिदीओ ।
 पडिठावणिया य तथा उच्चारादीण पंचविहा ॥ १० ॥
 फासुयमग्गेण दिवा जुवंतरप्पेहणा सकज्जेण ।
 जंतूण परिहरंती इरियासमिदी हवे गमणं ॥ ११ ॥

२-भाषा

पेसुण्ण-हास-कक्कम-परणिदाणप्पसंसविकहादी ।
 वडिजत्ता सपरहिंदं भासासमिदी हवे कहणं ॥ १२ ॥

३-एषणा

छादालदोससुद्धं कारणजुत्तं विसुद्धणवकोडी ।
 सीदादी सममुत्ती परिसुद्धा एसणा समिदी ॥ १३ ॥

४-आदान-निक्षेप

णाणुवहिं संजमुत्रहिं सौचुवहिं अण्णमप्पमुवहिं वा ।
 पयदं गहणिक्खेवो समिदी आदाणणिक्खेवा ॥ १४ ॥

५-प्रतिस्थापन

एगंते अच्चित्ते दूरे गूढे विसालमविरोहे ।
 उच्चारादिच्चओ पदिठावणिया हवे समिदी ॥ १५ ॥

इंद्रियनिग्रह-५

चक्कवू सोदं घ्राणं जिब्भा फासं च इंदिया पंच ।
 सग-सग-विसएहिंतो णिरोहियव्वा सया मुणिणा ॥ १६ ॥

१-चक्षुनि०

सच्चित्ताचित्ताणं किरिया-संठाण-वण्णभेएसु ।
 रागादिसंगहरणं चक्खुणिरोहो हवे मुणिणो ॥ १७ ॥

२-भोत्रनि०

सज्जादिजीवसहे वीणादिअजीवसंभवे सहे ।
 रागादीण णिमित्ते तदकरणं सोदरोधो दु ॥ १८ ॥

३-घ्राणनि०

पयडीवासणगंधे जीवाजीवप्पगे सुहे असुहे ।
रागद्देसाकरणं घ्राणणिरोहो मुणिवरस्स ॥ १९ ॥

४-जिह्वानि०

असणादिचदुवियप्पे पंचरसे फासुगग्ग्हि गिरवज्जे ।
इट्टाणिट्टाहारे दत्ते जिब्भाजओ ऽगिद्धी ॥ २० ॥

५-स्पर्शनि०

जीवाजीवसमुत्थे कक्कडमउगादिअट्टभेदजुदे ।
फासे सुहे य असुहे फासणिरोहो असंमोहो ॥ २१ ॥

आवश्यक-६

समदा थओ य वंदण पाडिक्कमणं तहे व णादब्बं ।
पच्चक्खाण विसग्गो करणीयावासया छप्पि ॥ २२ ॥

१-समता

जीविद-मरणे लाहालाहे संजोय-विप्पओगे य ।
बंधुरि-सुह-दुक्खादिसु समदा सामायियं णाम ॥ २३ ॥

२-स्तव

उसहादिजिणवराणं णामणिरुत्तिं गुणाणुकित्तिं च ।
काऊण अच्चिदूण य तिसुद्धपणमो थओ णेओ ॥ २४ ॥

३-वंदन

अरहंत-सिद्धपडिमा-तव-सुद-गुणगुरुगुरूण रादीणं ।
किदिक्कम्मेणिदरेण य तियरणसंकोचणं पणमो ॥ २५ ॥

४-प्रतिक्रमण

इब्बे खेत्ते काले भावे य किदावराह-सोहणयं ।
णिंदण-गरहणजुत्तो मण-वच-कायेण पडिक्कमणं ॥ २६ ॥

५-प्रत्याख्यान

णामादीणं छण्णं अजोग्गपरिवज्जणं तिकरणेण ।
पच्चक्खाणं णेयं अणागयं चागमे काले ॥ २७ ॥

६-विसर्ग

देवस्त्रियणियमादिसु जहुत्तमाणेण उत्तकालम्हि ।
जिणगुणचित्तणजुत्तो काओसग्गो तणुविसग्गो ॥ २८

१-लौच

विय-तिय-चउक्कमासे लोचो उक्कस्स-मज्झिम-जहण्णो ।
सपडिक्कमणे दिवसे उववासेणेव कायव्वो ॥ २९ ॥

२-अचेलकत्व

वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्तादिणा असंवरणं ।
णिग्गमसण णिग्गंयं अच्चेअक्कं जगदि पुज्जं ॥ ३० ॥

३-अस्नान

ण्हाणादि-वउज्जणेण य विलित्तजल्लमल्लमेदसव्वंगं ।
अण्हाणं घोरगुणं संजयदुग्गपालयं मुण्णिणो ॥ ३१ ॥

४-क्षितिशयन

प्तामुयभूमिपण्णे अप्पममंथारिदिम्हि पच्छण्णे ।
दंडंघणुव्व सेज्जं खिदिसयणं ण्यपासेण ॥ ३२ ॥

५-अदंतधावन

अंगुलिणहावलेहणिकलीहिं पासाणञ्जल्लियादीहिं ।
दंतमत्तासोहणयं संजमगुत्ती अदंतमणं ॥ ३३ ॥

६-स्थिति-भोजन

अंजलिपुडेण ठिच्चा कुड्ढादिविवज्जणेण समपायं ।
पडिसुद्धे भूमितिण्णं असणं ठिदिभोयणं णाम ॥ ३४ ॥

७-एकभक्त

उदयत्थमणे काले णालीतियवज्जियम्हि मज्झम्हि ।
एकम्हि दुअ तिण्णं वा मुहुत्तकालेयमत्तं तु ॥ ३५ ॥
एवं विहाणजुत्ते मूल्लगुणे पालिऊण तिविहेण ।
होऊण जगदि पुज्जो अक्खयसोक्खं लहइ मोक्खं ॥ ३६ ॥

: ६ :

धर्मांग

उत्तमखम-महवज्जव-सच्च-सउच्चं च संजमं चेव ।
तव-तागमकिंचण्हं बम्हा इदि दसविहो धम्मो ॥ १ ॥ ७०
कोट्टुप्पत्तिस्स पुणो बहिरंगं जदि हवेदि सक्खादं ।
ण कुणदि किंचि वि कोहं तस्स खमा होदि धम्मो त्ति ॥ २ ॥
कुल-रूव-जादि-बुद्धिसु तव-सुद-सालेसु गारवं किंचि ।
जो ण वि कुव्वदि समणो महवधम्मं हवे तस्स ॥ ३ ॥
मोत्तूण कुडिलभावं णिम्मलहिदयेण चरदि जो समणो ।
अज्जवधम्मं तइयो तस्स दु संभवदि णियमेण ॥ ४ ॥
परसंतावयकारणवयणं मोत्तूण सपरहिदवयणं ।
जो वददि भिक्खु तुइयो तस्स दु धम्मो हवे सच्चं ॥ ५ ॥
कंखा भावणिवित्ति किंच्चा वेग्गभावणाजुत्तो ।
जो वददि परमणुणी तस्स दु धम्मा हवे सौचं ॥ ६ ॥
वद-समिदि-पालणाए दंडच्चाएण इंदियजएण ।
परिणममाणस्स पुणो संजमधम्मो हवे णियमा ॥ ७ ॥
विसयकसायविणिग्गहभावं काऊण ज्ञाणसिज्जीए ।
जो भावइ अप्पाणं तस्स तवं होदि णियमेण ॥ ८ ॥
णिव्वेगतियं भावइ मोहं चइऊण सव्वदव्वेसु ।
जो तस्स हवे च्चागो इदि भणिदं जिणवरिंदेहिं ॥ ९ ॥
होऊण य णिस्संगो णियभावं णिग्गिहित्तु सुहदुहदं ।
णिहंदेण दु वइदि अणयारो तस्स किंचण्हं ॥ १० ॥
सव्वंगं पेच्छंतो इत्थीणं तासु मुयदि दुब्भावम् ।
सो बम्हचेरभावं सुक्कदि खलु दुद्धरं धरदि ॥ ११ ॥ ८०

कुन्दकुन्दकृत वारस अनुवेक्खा

भा व ना

तिहुवणतिल्यं देवं वंदित्ता तिहुअणिदपरिपुज्जं ।
 वोच्छं अणुपेहाओ भवियजणाणंदजणणीओ ॥ १ ॥
 अद्भुव असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुइत्तं ।
 आसव संवर णामा णिज्जर लोयाणुपेहाओ ॥ २ ॥
 इय जाणिऊण भावह दृल्लह धम्माणुभावणा णिच्चं ।
 मण-वयण-कायसुद्धी पदा उद्देसदो भणिया ॥ ३ ॥

१ अधुव

जं किं पि वि उप्पण्णं तस्स विणासो हवेइ णियमेण ।
 परिणामसरूवेण वि ण य किं पि वि सासयं अत्थि ॥ ४ ॥
 जम्मं मरणेण ममं संपज्जइ जुव्वणं जरासहियं ।
 लच्छी विणाससहिया इय सव्वं भंगुरं मुणह ॥ ५ ॥
 अथिरं परियण-सयणं पुत्तकळत्तं सुमित्त लावण्णं ।
 गिह-गोहणाइ सव्वं णवणविदेण सारिच्चं ॥ ६ ॥
 सुरधणुतडि व्व चवला इंदियविसया सुमिच्चवग्गा य ।
 दिट्ठणट्टा सव्वे तुरय-गय-रहवरादीया ॥ ७ ॥
 चइऊण महामोहं विसये सुणिऊण भंगुरे सव्वे ।
 णिव्विसयं कुणह मणं जेण सुहं उत्तमं लहइ ॥ ८ ॥ २२

२ अशरण

तत्थ भवे किं सरणं जत्थ सुरिंदाण दीसए विलओ ।
 हरि-हर-ब्रंभादीया कालेण कवल्लिया जत्थ ॥ ९ ॥ २३
 सीहस्स कमे पडिदं सारंगं जह ण रक्खदे को वि ।
 तह मिच्चुणा य गहियं जीवं पि ण रक्खदे को वि ॥ १० ॥ २४

अप्पाणं पि य सरणं खमदि-भावेहि परिणदं होदि ।
तिव्वकसायाविट्ठो अप्पाणं हणदि अप्पेण ॥ ११ ॥ ३१

३ संसार

एकं चजति सरीरं अण्णं गिण्हदि णवणवं जीवो ।
पुणु पुणु अण्णं अण्णं गिण्हदि मुंचेदि वहुवारं ॥ १२ ॥ ३२
एकं जं संसरणं णाणादेहेसु हविदि जीवस्स ।
सो संसारो भण्णदि मिच्छकसायेहिं जुत्तस्स ॥ १३ ॥ ३३
इष संसारं जाणिय मोहं सव्वायरेण चइऊण ।
तं ज्ञायह ससहावं संसरणं जेण णासेइ ॥ १४ ॥ ७३

४ एकत्व

इक्को जीवो जायदि इक्को गब्भम्मि गिण्हदे देहं ।
इक्को बाल-जुवाणो इक्को बुड्ढो जरागहिओ ॥ १५ ॥ ७४
इक्को रोई सोई इक्को तप्पेइ माणसे दुवखे ।
इक्को मरदि वराओ णरयदुहं सहदि इक्को वि ॥ १६ ॥ ७५
सव्वायरेण जाणह इक्कं जीवं सरीरदो भिण्णं ।
जम्हि दु मुणिदे जीवे होइ असेसं खणे हेयं ॥ १७ ॥ ७९

५ अन्यत्व

अण्णं देहं गिण्हदि जणणी अण्णा य होदि कम्मादो ।
अण्णं होदि कलत्तं अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ १८ ॥ ८०
एवं बाहिरदव्वं जाणदि रूवा हु अप्पणो भिण्णं ।
जाणंतो वि हु जीवो तत्थेव य रच्चदे मूट्ठो ॥ १९ ॥ ८१
जो जाणिऊण देहं जीवसरूपादु तच्चदो भिण्णं ।
अप्पाणं पि य सेवदि कउजकरं तस्स अण्णत्तं ॥ २० ॥ ८२

६ अशुचित्व

सयलकुहियाण पिंडं किमिकुलकलियं अउव्वदुग्गंधं ।
मलमुत्ताणं गेहं देहं जाणेह असुइमयं ॥ २१ ॥ ८३

सुट्ठु पवित्तं दब्बं सरससुगंधं मणोहरं जं पि ।
 देहणिहित्तं जायदि घिणावणं सुट्ठु दुग्गंधं ॥ २२ ॥ ८४
 जो परदेहविरत्तो णियदेहे ण य करेदि अणुरायं ।
 अप्पसरूवि सुरत्तो असुइत्ते भावणा तस्स ॥ २३ ॥ ८७

७ आश्रव

मण-वयण-कायजोया जीवपयेसाण फंदणविसेसा ।
 मोहोदण्ण जुत्ता विजुदा वि य आसवा होंति ॥ २४ ॥ ८८
 कम्मं पुण्णं पावं हेउं तेसिं च होंति सच्छिदरा ।
 मंदकसाया मच्छा तिब्बकमाया असच्छा हु ॥ २५ ॥ ९०
 सव्वत्थ वि पियवयणं दुब्बयणे दुज्जणे वि खमकरणं ।
 सव्वेसिं गुणगहणं मंदकसायाण दिट्ठंता ॥ २६ ॥ ९१
 अप्पपसंसणकरणं पुज्जेसु वि दोसगहणसीलत्तं ।
 वेरधरणं च सुइरं तिब्बकमायाण लिंगाणि ॥ २७ ॥ ९२
 एदे मोहजभावा जो परिवज्जेइ उवसमे लीणो ।
 हेयमिदि मण्णमाणो आसव-अणुपेहण तस्म ॥ २८ ॥ ९४

८ संवर

सम्मत्तं देसवयं महव्वयं तह जओ कसायाणं ।
 एदे संवरणामा जोगाभावो तह च्चेव ॥ २९ ॥ ९५
 गुत्ती समिदी धम्मो अणुवेक्खा तह परीसजओ ।
 उक्किट्ठं चारित्तं संवरहेदू विसेसेण ॥ ३० ॥ ९६
 एदे संवरहेदू विरारमाणो वि जो ण आयरइ ।
 सो भमइ च्चिरं कालं संसारे दुक्ख-संतत्तो ॥ ३१ ॥ १००
 जो पुण विसयविरत्तो अप्पाणं सव्वदा वि संवरइ ।
 मणहरविसयेहितो तस्स फुडं संवरो होदि ॥ ३२ ॥ १०१

९ निर्जरा

वारसविहेण तवसा णियाणरहियस्स णिउजरा होदि ।
 वेरग्गभावणादो निरहंकारस्स णाणिस्स ॥ ३३ ॥ १०२

सर्वोसिं कम्माणं सत्तिविवाओ हवेइ अणुभाओ ।
 नदणंतरं तु सडणं कम्माणं णिज्जरा जाण ॥ ३४ ॥ १०३
 सा पुण दुविहा णेया सकालपत्ता तवेण कयमाणा ।
 चादुगदीणं पढमा वयजुत्ताणं हवे विदिया ॥ ३५ ॥ १०४
 जो समसुक्खणिलीणो वारं वारं सरेइ अप्पाणं ।
 इंदिय-कमायविजई तस्स हवे णिज्जरा परमा ॥ ३६ ॥ ११४

१० लोक

मव्वायासमणंते तस्म य बहुमज्झि संटियो लोओ ।
 सो केण वि णेय कओ ण य धरिओ हरिहरादीहिं ॥ ३७ ॥ ११५
 दंसंति जय्य अथा जीवादीया स भण्णदे लोओ ।
 तस्स सिहरम्मि सिद्धा अंतविहीणा विरायंति ॥ ३८ ॥ १२१
 परिणामसहावादो पडिसमयं परिणमंति दव्वाणि ।
 तेसिं परिणामादो लोयस्स वि मुणह परिणामं ॥ ३९ ॥ ११७
 एवं लोयसहावं जो ज्ञायदि उवसमेक्कसब्भावो ।
 सो खविय कम्मपुंजे तस्सेव सिहामणी होदि ॥ ४० ॥ २८३

११ बोधदुर्लभ

जीवो अणंतकालं वसइ णिगोएसु आइपरिहीणो ।
 तत्तो णासरीऊणं पुढवीकायावियो होदि ॥ ४१ ॥ २८४
 रयणु व्व जलहिपडियं मणुयत्तं तं पि होइ अइदुलहं ।
 मणुअगईए ज्ञाणं मणुअगईए वि णिव्वाणं ॥ ४२ ॥ २९७।२०९.
 इय सर्वदुलहदुलहं दंसण-णाणं तहा चरित्तं च ।
 मुणिऊण य संसारे महायरं कुणह तिण्हं वि ॥ ४३ ॥ ३०१

१२ धर्म

जो जाणदि पच्चक्खं तियालगुण-पज्जणहिं मंजुत्त ।
 लोयालोयं सयलं सो सब्बणू हवे देओ ॥ ४४ ॥ ३०२
 तेणुवइट्ठो धम्मो संग्गासत्ताण तह असंग्गाणं ।
 पढमो बारहभेओ दसभेओ भासिओ विदिओ ॥ ४५ ॥ ३०४

जिणवयणभावणट्ठं सामिकुमारेण परमसद्दाए ।

रइया अणुपेक्खाओ चंचलमणरुंभणट्ठं च ॥ ४६ ॥ ४८७

वारस अणुपेक्खाओ भणिया हु जिणागमाणुसारेण ।

जो पटइ सुणइ भावइ सो पावइ उत्तमं सोक्खं ॥ ४७ ॥ ४८८

[स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

: ८ :

प री ष ह



परीसहाणं पविभक्ती कासवेणं पवेइया ।
तं मे उदाहरिस्सामि आणुपुण्वि सुणेह मे ॥ १ ॥

१ क्षुधा

दिगिच्छापरिगए देहे तवस्सी भिक्खू धामवं ।
न छिंदे न छिंदावए न पए न पयावए ॥ २ ॥
कालीपव्वंग-संकासे किसे धमणिसंतए ।
मागन्ने असण-पाणस्स अदीण-मणसो चरे ॥ ३ ॥

२ तृषा

तओ पुट्ठो पिवासाए दोगुंछी लज्जसंजए ।
मीओदगं न मेविज्जा वियडस्सेसणं चरे ॥ ४ ॥
छिन्नावएसु पन्थेसु आउरे सुपिवासिए ।
परिसुक्खमुहादीणे तं तितिक्खे परीसहं ॥ ५ ॥

३ शीत

चरंतं विरयं व्हं सीयं फुसइ एगया ।
नाइवेळं मुणी गच्छे सोच्चाणं जिणसासणं ॥ ६ ॥
न मे निवारणं अत्थि छवित्ताणं न विज्जई ।
अहे तु अग्गि सेवामि इइ भिक्खू न चितए ॥ ७ ॥

४ उष्ण

उसिणं परियावेणं परिदाहेण तज्जिए ।
धिसु वा परियावेणं सायं नो परिदेवए ॥ ८ ॥
उण्हाहितत्ते मेहावी सिणाणं नो वि पत्थए ।
गायं नो परिसिंचेज्जा न वीएज्जा य अप्पयं ॥ ९ ॥

५ दंशमशक

पुट्ठो य दंसमसएहिं समरे व महामुणी ।
 नागो भंगामसीसे वा सूरो अभिहणे परं ॥ १० ॥
 न संतसे न वारेज्जा मणं पि न पऊसए ।
 उवेहे न हणे पाणे भुंजन्ते मंससोणियं ॥ ११ ॥

६ अचैल

परिजुण्णेहि वत्येहिं होक्खायि त्ति अचेलए ।
 अदु वा सचेले होक्खामि इइ भिक्खु न चिन्तए ॥ १२ ॥
 एगयाचेलए होइ सचेले आवि एगया ।
 एयं धम्महियं नच्चा नाणी नो परिदेवए ॥ १३ ॥

७ अरति

गामाणुगामं रीयन्तं अणगारं अक्किचणं ।
 अरई अणुप्पवेसेज्जा तं तित्तिक्खे परीसहं ॥ १४ ॥
 अरइं पिट्ठओ किच्चा विरए आयरक्खिए ।
 धम्मारामे निरारम्भे उवसन्ते मुणी चरे ॥ १५ ॥

८ स्त्री

संगो एस मणूसाणं जाओ लोगम्मि इत्थिओ ।
 जस्स एया परिन्नाया सुकड तस्स सामण्णं ॥ १६ ॥
 एयमादाय मेहावी पंकभूया उ इत्थिओ ।
 नो ताहिं विणिहम्मजेज्जा चरेज्जत्तगवेसए ॥ १७ ॥

९ चर्या

एग एव चरे लाढे अभिभूय परीसहे ।
 गामे वा नगरे वा वि निगमे वा रायहाणिए ॥ १८ ॥
 असमाणे चरे भिक्खू नेव कुञ्जा परिगहं ।
 असंसत्ते गिहत्थेहिं अणिएओ परिव्वए ॥ १९ ॥

१० निषया

सुसाणे सुन्नगारे वा रुक्खमूले व एगओ ।
 अकुक्कुओ निसीएज्जा न य वित्तासए परं ॥ २० ॥

तथ्य से चिट्टमाणस्स उक्कसग्गाभिचारण ।
संकाभीओ न गच्छेज्जा उट्ठित्ता अन्नमासणं ॥ २१ ॥

११ शय्या

उच्चावयाहिं सेज्जाहिं तवस्सी भिक्खु धामवं ।
नाइवेलं विहम्मसेज्जा पावदिट्ठी विहम्मई ॥ २२ ॥
पडरिक्कुवस्सयं लद्धं कल्लाणमदु वा पावयं ।
किमेगराइं करिस्सइ एवं तथ्य ऽ हियासए ॥ २३ ॥

१२ आक्रोश

अक्कोसेज्जा परे भिक्खुं न तेसि पडिसंजले ।
सरिसो होइ बालाणं तम्हा भिक्खू न संजले ॥ २४ ॥
सोच्चाणं फरुसा भासा दारुणा गामकंटगा ।
तुसिणीओ उवेहेज्जा न ताओ मणसीकरे ॥ २५ ॥

१३ बध

हओ न संजले भिक्खू मणं पि न पओसए ।
तितिक्खं परमं नच्चा भिक्खू धम्मं समायरे ॥ २६ ॥
समणं संजयं दन्तं हणेज्जा कोइ कत्थई ।
नत्थि जीवस्स नासु त्ति एवं पेहेज्ज संजए ॥ २७ ॥

१४ याचना

दुक्करं खल्ल भो निच्चं अणगारस्स भिक्खुणो ।
सव्वं से जाइयं होइ नत्थि किंचि अजाइयं ॥ २८ ॥
गोयरग्ग-पविट्ठस्स पाणी नो सुप्पसारए ।
सेओ अगारवासु त्ति इइ भिक्खू न चिन्तए ॥ २९ ॥

१५ अलाभ

परेसु घासमेसेज्जा भोयणे परिणिट्ठिए ।
लद्धे पिंडे अलद्धे वा नाणुतप्पेज्ज पंडिए ॥ ३० ॥
अज्जेवाहं न लब्भामि अवि लाभो सुवे सिया ।
जो एवं पडिसंचिक्खे अलाभो तं न तग्जए ॥ ३१ ॥

१६ रोग

नच्चा उप्पइयं दुक्खं वेयणाए दुहट्टिए ।
 अदीणो भावए पन्नं पुट्ठो तत्थहियासए ॥ ३२ ॥
 तेइच्छं नाभिनन्देज्जा संचिक्खत्तगवेसए ।
 एवं खु तस्स सामणं जं न कुज्जा न कारवे ॥ ३३ ॥

१७ तृणस्पर्श

अचेलागस्स ल्हहस्स मंजयस्स तवस्सिणो ।
 तणेषु सयमाणस्स हुज्जा गायविराहणा ॥ ३४ ॥
 आयवस्स निवाएण अउला इवइ वेयणा ।
 एवं नच्चा न सेवन्ति तन्तुजं तण-तज्जिया ॥ ३५ ॥

१८ मल

किलिन्नगाए मेहावी पकेण व रएण वा ।
 धिसु वा परियावेण सायं नो परिदेवए ॥ ३६ ॥
 वेण्ज्ज निज्जरापेही आरियं धम्मणुत्तरं ।
 जाव सरीरभेउ त्ति जल्लं काएण धारए ॥ ३७ ॥

१९ सत्कार-पुरस्कार

अभिवायणमच्चुट्टाणं सामी कुज्जा निमन्तणं ।
 जे ताइं पडिसेवन्ति न तेसिं पीहए मुणी ॥ ३८ ॥
 अणुक्कसाई अप्पिच्छे अन्नाएसी अलोलुए ।
 रसेसु नाणुगिज्जेज्जा नाणुतप्पेज्ज पन्नवं ॥ ३९ ॥

२० प्रज्ञा

से नूणं मए पुब्बं कम्माणाणफला कडा ।
 जेणाहं नाभिजाणामि पुट्ठो केणइ कण्हुई ॥ ४० ॥
 अह पच्छा उइज्जन्ति कम्माणाणफला कडा !
 एवमस्सासि अप्पाणं नच्चा कम्मवि गयं ॥ ४१ ॥

२१ अज्ञान

निरट्ठगम्मि बिरओ मेहुणाओ सुसंबुडो ।
 जो सक्खं नाभिजाणामि धम्मं कल्लाण-पावगं ॥ ४२ ॥

तवोवहाणमादाय पडिमं पडिवज्जओ ।
 एवं पि विहरओ मे छउमं न नियइई ॥ ४३ ॥
 नत्थि नूणं परे लोए इड्ढी वा वि तवस्सिणो ।
 अट्ठु वा वंचिओ मि ति इइ भिक्खू न चिन्तए ॥ ४४ ॥

२२ अदर्शन

अभू जिणा अत्थि जिणा अट्ठु वा वि भविस्सई ।
 मुसं ते एवमाहंसु इइ भिक्खू न चिन्तए ॥ ४५ ॥
 एए परीसहा सब्बे कासवेण निवेइया ।
 जे भिक्खू न विहम्मज्जा पुट्ठो केणइ कण्हुई ॥ ४६ ॥

[उत्तराध्ययनसूत्र-२]

: ९ :

छह द्रव्य : सात तत्त्व : नव पदार्थ

जीवमजीवं द्रव्यं जिणवरवसहेण जेण णिद्धिदं ।
देविदविदवंदं वंदे तं सव्वदा सिरसा १ ॥

१ जीव

जीवो उवओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो ।
भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोड्ढगई ॥ २ ॥
तिक्काले चदु पाणा इंदिय बलमाउ आणपाणो य ।
ववहारा सो जीवो णिच्चयणयदो दृ चेदणा जस्स ॥ ३ ॥
उवओगो द्रुवियप्पो दंसण णाणं च दंसणं चदुधा ।
चक्खु अचक्खू ओही दंसणमध केवलं णेयं ॥ ४ ॥
णाणं अट्ठ-वियप्पं मदि-सुद-ओही अणाण-णाणाणि ।
मणपउजय-केवलमवि पच्चक्ख-परोक्खभेयं च ॥ ५ ॥
अट्ठ-चदु णाण-दंसण सामणं जीवलक्खणं भणियं ।
ववहारा सुद्धणया सुद्धं पुण दंसणं णाणं ॥ ६ ॥
वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ णिच्चया जीवे ।
णे संति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति बंधादो ॥ ७ ॥
पुग्गलक्कम्मादीणं कत्ता ववहारदो दृ णिच्चयदो ।
चेदणक्कम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥ ८ ॥
पुट्ठवि-जल-तेउ-वाऊ-वणप्फदी विविहथावरेइंदी ।
विग-तिग-चदु-पंचक्खा तसजीवा होंति संखादी ॥ ९ ॥ ११

२ अजीव

अज्जीवो पुण णेओ पुग्गल धम्मो अधम्म आयासं ।
कालो पुग्गल मुत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति सेसा दृ ॥ १० ॥ ११

पुद्गल

सदो बंधो सुहृमो थूलो संठाणभेदतमछाया ।

उज्जोदादावसहिया पुग्गलद्वस्स पज्जाया ॥ ११ ॥ १६

धर्म

गइपरिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहकारी ।

ब्रौयं जह मच्छाणं अच्छंता णेव सो णेई ॥ १२ ॥ १७

अधर्म

ठाणजुदाण अधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी ।

छाया जह पहियाणं गच्छंता णेव सो धरई ॥ १३ ॥ १८

आकाश

अवगासदाणजोगं जीवादीणं वियाण आयासं ।

जेणं लोगागासं अल्लोगागासमिदि दुविहं ॥ १४ ॥ १९

धम्माधम्मा कालो पुग्गलजीवा य संति जावदिये ।

आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो ॥ १५ ॥ २०

काल

दव्वपरिवट्ठुवो जो सो कालो हवेड ववहारो ।

परिणामादीलक्खो बहणलक्खो य परमट्ठो ॥ १६ ॥ २१

लोयायासपदेसे इक्केक्के जे ट्टिया हु इक्केक्का ।

रयणाणं रासीमिव ते कालाणू असंखदव्वाणि ॥ १७ ॥ २२

संति जदो तेणेदे अत्थीति भणंति जिणवरा जम्हा ।

काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया य ॥ १८ ॥ २४

होंति असंखा जीवे धम्माधम्मे अणंत आयासे ।

मुत्ते तिविह पदेसा कालस्सेगो ण तेण सो काओ ॥ १९ ॥ २५

ण्यपदेसो वि अणू णाणाखंधपदेसदो होदि ।

बहुदेसो उवयारा तेण य काओ भणंति सब्बण्ह ॥ २० ॥ २६

आसव-बंधण-संवर-णिज्जर-मोक्खा सपुण्ण-पावा जे ।

जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण पभणामो ॥ २१ ॥ २८

३ आश्रव

आसवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेओ ।

भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणं परो होदि ॥ २२ ॥ २९

मिच्छत्ताविरदि-पमाद-जोग-कोहादओऽ थ विण्णेया ।

पण पण पणदह तिय च्दु कमसो भेदा दु पुव्वस्स ॥ २३ ॥ ३०

णाणावरणादीणं जोगं जं पुग्गलं समासवदि ।

दव्वासवो स णेओ अणेयेभेओ जिणक्खादो ॥ २४ ॥ ३१

४ बंध

बञ्जदि कम्मं जे ण दु चेदण भावेण भावबंधो सो ।

कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं इदरो ॥ २५ ॥ ३२

पयडि-ट्टिदि-अणुभागपदेसभेदा दु च्दुविधो बंधो ।

जोगा पयडि पदेसा ठिदि-अणुभागा कसायदो होंति ॥ २६ ॥ ३३

५ संवर

चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेऊ ।

सो भावसंवरो खल्ल दव्वासवरोहणे अण्णो ॥ २७ ॥ ३४

वद-समिदी-गुत्तीओ धम्माणुपिहा परीसहजओ य ।

चारित्तं बहुभेयं णायव्वा भावसंवरविसेसा ॥ २८ ॥ ३५

६ निर्जरा

जहकालेण तवेण य भुत्तरसं कम्मपुग्गलं जेण ।

भावेण सडदि णेया तस्सडणं चेदि णिउज्जरा दुविहा ॥ २९ ॥ ३४

७ मोक्ष

सव्वस्स कम्मणो जो खयहेदू अण्णो ह्णु परिणामो ।

णेओ स भावमोक्खो दव्वविमोक्खो य कम्म-पुग्गभावो ॥ ३० ॥ ३७

पुण्य पाप

सुह-असुहभावजुत्ता पुण्णं पावं हवति खल्ल जीवा ।

सादं सुहाउ णामं गोदं पुण्णं पराणि पावं च ॥ ३१ ॥ ३८

सम्मदंसण णाणं चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे ।
 ववहारा णिच्चयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा ॥ ३२ ॥ ३९
 रयणत्तयं ण वट्टइ अप्पाणं मुयतु अण्णदवियम्हि ।
 तम्हा तत्तिय मइओ होदि हु मोक्खस्स कारणं आदा ॥ ३३ ॥ ४०
 जीवादीसइहणं सम्मत्तं रूवमण्णो तं तु ।
 दुरभिणिवेसविमुक्कं णाणं सम्मं खु होदि सदि जम्हि ॥ ३४ ॥ ४१
 संसय-विमोह-विब्भमविवज्जियं अप्प-परसक्खस्स ।
 गहणं सम्मं णाणं सायारणेयभेयं च ॥ ३५ ॥ ४२
 असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं ।
 वद-समिदि-गुत्तिरूवं ववहारणया दु ज्जिणभणियं ॥ ३६ ॥ ४५

[नेमिचंद्रकृत दण्वसंगहं]

: १० :

कर्म-प्रकृति

अद् कम्माइं वोच्छामि आणुपुब्बि जहाकमं ।
जेहिं बद्धो अयं जीवा संसारे परिवट्ठी ॥ १ ॥
णाणस्सावरणिज्जं^१ च दंसणावरणं^२ तथा ।
वेयणिज्जं^३ तथा मोहं^४ आउकम्मं^५ तहेव च ॥ २ ॥
नाम कम्मं^६ च गोयं^७ च अंतरायं^८ तहे व य ।
एवमेयाइ कम्माइं अट्ठेव उ समासओ ॥ ३ ॥

१ ज्ञानावरण-५

णाणावरणं पंचविहं सुयं आहिणिवोहियं ।
ओहिणाणं च तइयं मणनाणं च केवलं ॥ ४ ॥
निदा तहेव पयला निदानिदा पयलपयला य ।
ततो य थीणागिद्धी उ पंचमा होइ नायव्वा ॥ ५ ॥

२ दर्शनावरण-९

चक्खुमचक्खू ओहिस्स दंसणे केवले य आवरणे ।
एवं तु नवयिगणं नायव्यं दंसणावरणं ॥ ६ ॥

३ वेदनीय-२

वेयणीयं पि य दुविहं सायमसायं च आहियं ।
सायस्स उ बहू भेया एमेव असायस्स वि ॥ ७ ॥

४ मोहनीय-२५

मोहणिज्जं वि दुविहं दंसणे चरणे तथा ।
दंसणे तिविहं वुत्तं चरणे दुविहं भवे ॥ ८ ॥
सम्मत्तं चैव मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तमेव य ।
एयाओ तिण्णि पयडीओ मोहणिज्जस्स दंसणे ॥ ९ ॥

चारित्तमोहणं कम्मं दुविहं तं वियाहिअं ।
 कसायमोहणिज्जं तु नोकसायं तहेव य ॥ १० ॥
 सोल्लसविहिभेएणं कम्मं तु कसायजं ।
 सत्तविहं नवविहं वा कम्मं च नोकमायजं ॥ ११ ॥

५ आयु-४

नेरइय-तिरिक्खाउं मणुस्साउं तहेव य ।
 देवाउयं चउत्तं तु आउं कम्मं चउव्विहं ॥ १२ ॥

६ नाम

नामं कम्मं तु दुविहं सुहमसुहं च आहियं ।
 सुमस्स उ बहू भेया एमेव असुहस्स वि ॥ १३ ॥

७ गोत्र-२

गोयं कम्मं दुविहं उच्चं नीयं य आहियं ।
 उच्चं अट्ठविहं होइ एवं नीयं वि आहियं ॥ १४ ॥

८ अंतराय-५

दाणे लाभे य भोगे य उवभोगे वीरिणं तहा ।
 पंचविहमंतरायं समामेण वियाहियं ॥ १५ ॥
 एयाओ मूलपयडीओ उत्तराओ य आहिया ।
 एसगं खेत्तकात्ते य भावं उत्तरं सुण ॥ १६ ॥
 सव्वेसिं चेव कम्माणं पणसग्गमणंतगं ।
 गण्ठियसत्ताईयं अंतो सिद्धाण आहियं ॥ १७ ॥
 सव्वजीवाण कम्मं तु संगहे छद्दिसागयं ।
 सव्वेसु वि पणसेसु सव्वं सव्वेण बद्धगं ॥ १८ ॥
 उदहीसरिसनामाण तीसई कोडिकोडिओ ।
 उक्कोसिया ठिई होइ अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥ १९ ॥
 आबरणिज्जाण दुण्हं वि वेयणिज्जे तहेव य ।
 अंतराए य कम्मम्मि ठिई एसा वियाहिया ॥ २० ॥
 उदहीसरिसनामाण सत्तारिं कोडिकोडिओ ।
 मोहणिज्जस्स उक्कोसा अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥ २१ ॥

तेत्तीससागरोवमा उक्कोसेण वियाहिया ।
 ठिई उ आउकम्मस्स अंतोमुहुत्त जहणिया ॥ २२ ॥
 उदहीसरिसनामाण वीसई कोडिकोडिओ ।
 नाम-गोत्ताणं उक्कोसा अट्ठ मुहुत्ता जहणिया ॥ २३ ॥
 सिद्धाणणन्तभागो य अणुभागा हवंति उ ।
 सव्वेसु वि पएसगं सव्वजीवे अइच्छियं ॥ २४ ॥
 तम्हा एएसि कम्माणं अणुभागा वियाणिया ।
 एएसि संवरे चेव खवणे य जण बुहो ॥ २५ ॥

[उत्तराध्ययनसूत्र ३]

गुणस्थान

जहिं दु लम्बिज्जंते उदयादिसु संभवेहिं भावेहिं ।
 जीवा ते गुणसण्णा णिद्धिट्ठा सव्वदरसीहिं ॥ १ ॥ ८
 मिच्छो^१ सासण^२ मिस्सो^३ अविरदसम्मो^४ य देसविरदो^५ य ।
 विरदा पमत्तं^६ इदरो^७ अपुव्वं^८ अगियट्ठं^९ सुहमो^{१०} य ॥ २ ॥ ९
 उवसंतं^१ खीणमोहो^२ सजोगकेवल्लिज्जिणो^३ अजोगी^४ य ।
 चउदम जीवसमासा कमेण सिद्धा य णादव्वा ॥ ३ ॥ १०

१ मिथ्यात्व

मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसद्दहणं तु तच्च-अत्याणं ।
 प्यंतं विवरीयं विणयं संमयिदमण्णाणं ॥ ४ ॥ १५
 मिच्छंतं वेयंतो जीवा विवरीयदंसणो होदि ।
 ण य धम्मं रोचेदि ह्व मद्धरं खु रसं जहा जरिदो ॥ ५ ॥ १७

२ सासादन

मम्मत्तरयणपव्वयसिहरादो मिच्छभूमिसमभिमुहो ।
 णासियसम्मत्तो सो सासणणामो मुणेयव्वो ॥ ६ ॥ २०

३ सम्यग्मिथ्यात्व

मम्मामिच्छुदयेण य जत्तंतर-सव्वघादिकउजेण ।
 ण य सम्मं मिच्छं पि य सम्मिस्सो होदि परिणामो ॥ ७ ॥ २१
 दहिगुडमिव वामिस्सं पुहभावं णेव कारिदुं सक्कं ।
 एवं मिस्सयभावो सम्मामिच्छो त्ति णादव्वो ॥ ८ ॥ २२
 सो संजमं ण गिण्हदि देसजमं वा ण बंधदे आउं ।
 सम्मं वा मिच्छं वा पडिवज्जिय मरदि णियमेण ॥ ९ ॥ २३

४ अविरत-सम्यक्त्व

मम्मत्तदेसघादिस्सुदयादो वेदगं हवे सम्मं ।

चल-मलिनमगाटं तं णिच्चं कम्मक्खवणहेदू ॥ १० ॥ २५

सत्तण्हं उवसमदो उवसमसम्मो खयादु खइयो य ।

विदियकसायुदयादो असंजदो होदि सम्मो य ॥ ११ ॥ २६

सम्माइट्ठी जीवो उवइट्ठं पवयणं तु सइहदि ।

सइहदि असब्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ १२ ॥ २७

णो इंदियेसु विरदो णो जीवे थावरे तसे वापि ।

जो सइहदि जिणुत्तं सम्माइट्ठी अविरदो सो ॥ १३ ॥ २९

५ देशविरत

जो तसब्रहाउ विरदो अविरदओ तह य थावरवहादो ।

एक्कसमयहि जीवो विरदाविरदो जिणेक्कमई ॥ १४ ॥ ३१

६ प्रमत्त-विरत

संजलण-णोकसायाणुदयादो संजमो हवे जम्हा ।

मलजणणपमादो वि य तम्हा हु पमत्ताविरदो सो ॥ १५ ॥ ३२

विकहा तहा कसाया इंदिय णिहा तहेव पणयो य ।

चदु चदु पणमेगेगं होति पमादा हु पणरस ॥ १६ ॥ ३४

७ अप्रमत्त

णट्टासेसपमादो वयगुणसीलोल्लिमंडिओ णाणी ।

अणुवसमओ अखवओ ज्ञाणणिलीणो हु अप्रमत्तो ॥ १७ ॥ ४६

८ अपूर्व-करण

अंतोमुहुत्तकालं गभिऊण अधापवत्ताकरणं तं ।

पडिसमयं सुज्झंतो अपुव्वकरणं समल्लियइ ॥ १८ ॥ ५०

एदमिह गुणट्ठाणे विसरिससमयट्ठियेहि जीवेहि ।

पुव्वमपत्ता जम्हा होति अपुव्वा हु परिणामा ॥ १९ ॥ ५१

९ अनिवृत्ति-करण

एकमिह कालसमये संठाणादीहिं जह णिवट्ठंति ।

ण णिवट्ठंति बहा वि य परिणामोहिं मिहो जेहिं ॥ २० ॥ ५६

होति अणियट्टिणो ते पडिसमयं जेस्सिमेक्क-परिणामा ।
विमलयर-ज्ञाणहुयवहसिहाहिं णिह्ण्डुड-कम्मवणा ॥ २१ ॥ ५७

१० सूक्ष्म-साम्पराय

धुदकोसुंभयवत्थं होदि जहा सुहमरायसंजुत्तं ।
एवं सुहमकसाओ सुहमसरागो त्ति णादब्बो ॥ २२ ॥ ५९
अणुलोहं वेदंतो जीवो उवसामगो व खवगो वा ।
सो सुहमसंपराओ जहखादेणूणओ किंचि ॥ २३ ॥ ६०

११ उपशांतमोह

कदक-फल-जुदजलं वा सरए सरवाणियं व णिम्मलयं ।
सयल्लोवसंतमोहो उवसंतकसायओ होदि ॥ २४ ॥ ६१

१२ क्षीणमोह

णिस्सेसखाणमोहो फलिहामलभायणुदयसमचित्तो ।
खीणकसाओ भण्णदि णिग्गंधो वीयरायेहिं ॥ २५ ॥ ६२

१३ सयोग-केवली

केवलणाणदिवायर-किरणकलावप्पणासियण्णाणो ।
णवकेवललब्धुग्गम-सुजणिय-परमप्पववएसो ॥ २६ ॥ ६३
असहायणाण-दंसणसहिओ इदि केवली हु जोगेण ।
जुत्तो त्ति सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥ २७ ॥ ६४

१४ अयोग-केवली

सील्लेसिं संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसआसवो जीवो ।
कम्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केवली होदि ॥ २८ ॥ ६५

सिद्ध

अट्ठविहकम्मवियला सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा ।
अट्ठगुणा किदकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ २९ ॥ ६८

: १२ :

मार्गणा-स्थान

जाहि व जामु व जीवा मग्गिज्जंते जहा तहा दिट्ठा ।
ताओ चोदस जाणे सुयणणे मग्गणा होंति ॥ १ ॥ १४०
गइ' इंदिएसु' काये' जोगे' वेदे' कसार्य' णाणे' य ।
संजमं' दंसणं' लेस्सां' भवियां' सम्मत्तं' सण्णि' आहारे' ॥ २ ॥
१४१

१ गति

गइउदयजपज्जाया चउगइगमणस्सहेउ वा हु गइ ।
णारय-तिरिक्ख-माणुस-देवगइ ति य हवे चदुधा ॥ ३ ॥ १४५

२ इंद्रिय

मदिआवरणखओवसमुत्थविसुद्धी हु तज्जवोहो वा ।
भाविदियं तु दव्वं देहुदयजदेहचिण्हं तु ॥ ४ ॥ १६४
फासरसगंधरूवे सहे णाणं च चिण्हयं जेसिं ।
इगिब्रित्तिचदुपंचिदिय जीवा णियभेयमिण्णाओ ॥ ५ ॥ १६५

३ काय

जाई अविणाभावी तसथावरउदयजो हवे काओ ।
सो जिणमदमिह भणिओ पुटवीकायादि छम्मेयो ॥ ६ ॥ १८०
पुटवी-आऊ-तेऊ-वाऊ-कम्मोदयेण तत्येव ।
णियवण्णचउक्कजुदो ताणं देहो हवे णियमा ॥ ७ ॥ १८१
विहि तिहि चदुहिं पंचहिं सहिया जे इंदिएहि लोयमिह ।
ते तसकाया जीवा णेयां वीरोवदेसेण ॥ ८ ॥ १९७

४ योग

पुग्गलविवाइदेहोदयेण मण-वयण-कायजुत्तास्स ।
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥ ९ ॥ २१५

मण-वयणाण पउत्ती सच्चासच्चुभय-अणुभयत्थेसु ।
तण्णामं होदि तदा तेहि दु जोगा हु तज्जोगा ॥ १० ॥ २१६
मव्भावमणो मच्चा जो जोगो तेण सच्चमणजोगो ।
तत्त्विवरीओ मोसो जाणुभयं सच्चमोसो ति ॥ ११ ॥ २१७
ण य सच्चमोसजुत्तो जो दु मणो सो असच्चमोसमणो ।
जो जोगो तेण हवे असच्चमोसो दु मणजोगो ॥ १२ ॥ २१८
दसविहसच्चे वयणे जो जोगो सो दु सच्चवच्चिजोगो ।
तत्त्विवरीओ मोसो जाणुभयं सच्चमोसो ति ॥ १३ ॥ २१९
जो णेव सच्चमोसो सो जाण असच्चमोसवच्चिजोगो ।
अमणाणं जा भासा सण्णीणामंतणी आदी ॥ १४ ॥ २२०
जणवर्द-सम्मदि^२-ठवणा^३ णामे^४ रूवे^५ पडुच्च^६ ववहारे ।
संभावणे^७ य भावे^८ उवमाणे^९ दसविहं सच्च ॥ १५ ॥ २२१
मत्तं देवी^१ चंद्रपहपडिमा^३ तह य होदि जिणदत्तो^४ ।
सेदो^५ दिग्घो^६ रज्जदि कूरो^७ ति य जं हवे षयणं ॥ १६ ॥ २२२
सक्को जंबूदीपं पल्लट्टदि^१ पाववज्जवयणं^२ च ।
पल्लोवमं^३ च कमसो जणवदसच्चादि दिट्ठंता ॥ १७ ॥ २२३
आमंतणी आणवणी याचणिया पुच्छणी य पणवणी ।
पच्चक्खाणी संसयवयणी इच्छाणुलोमा य ॥ १८ ॥ २२४
णवमी अणक्खरगदा असच्चमोसा हवंति भासाओ ।
सोदारारणं जम्हा वचावत्तंसंसजणया ॥ १९ ॥ २२५
ओरालिय-वेगुव्विय-आहारय-तेजणामकम्मदये ।
चउ णोकम्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्मइयं ॥ २० ॥ २४३

५ वेव

पुरिसित्थिसंदवेदोदयेण पुरिसित्थिसंदओ भावे ।
णामोदयेण दव्वे पाएण समा कहिं विसमा ॥ २१ ॥ २७०

६ कषाय

सुहृदुक्खसुबहुसस्सं कम्मक्खेत्तं कसेदि जीवस्स ।
 संसारदूरमेरं तेण कसाओ त्ति णं वेति ॥ २२ ॥ २८१
 सिल-पुढविभेद-धूली-जलराइसमाणओ हवे कोहो ।
 णारय-तिरिय-णरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥ २३ ॥ २८३
 सेलट्ठि-कट्ठ-वेत्ते णियभेएणणुहरंतओ माणो ।
 णारय-तिरिय-णरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥ २४ ॥ २८४
 वेणुवमूलोरब्भयसिगे गोमुत्तए य खोरप्पे ।
 सरिसी माया णारय तिरिय-णरामरगईसु खिवदि जियं ॥ २५ ॥ २८५
 किमिराय-चक्क-तणुमल-हरिद्धराएण सरिसओ लोहो ।
 णारय-तिरिक्ख-माणुस-देवेसुप्पायओ कमसो ॥ २६ ॥ २८६
 णारय-तिरिक्ख-णर-सुरगईसु उप्पण्णपट्टमकालम्हि ।
 कोहो माया माणो लोह्हुदओ अणियमो वापि ॥ २७ ॥ २८७

७ ज्ञान

पंचे व होति णाणा मदि-सुद-ओही-मणं च केवल्यं ।
 ख्यउवसमिया चउरो केवलणाणं हवे खइयं ॥ २८ ॥ २९९
 अहिमुह-णियमियबोहणमाभिणिबोहियमणिदि-इंदियजं ।
 अवगह-ईहावाया धारणगा होति पत्तेयं ॥ २९ ॥ ३०५
 विसयाणं विसईणं संजोगाणंतरं हवे णियमा ।
 अवगहणाणं गहिदे विसेसकंखा हवे ईहा ॥ ३० ॥ ३०७
 ईहणकरणेण जद। सुणिण्णओ होदि सो अवाओ दु ।
 कालंतरे वि णिणिणदवत्थुसमरणस्स कारणं तुरियं ॥ ३१ ॥ ३०८
 अत्यादो अत्यंतरमुवलंभंतं भणंति सुदणाणं ।
 आभिणिबोहिय पुब्बं णियमेणिह सहजं पनुहं ॥ ३२ ॥ ३१४
 अवहीयदि त्ति ओही सीमाणाणे त्ति वणिणयं समये ।
 भवगुणपच्चय विहियं जमोहिणाणेति णं वेति ॥ ३३ ॥ ३६९
 चित्तियमच्चित्तियं वा अद्धंचित्तियमणेयभेयगयं ।

मणपज्जवं ति उच्चइ जं जाणइ तं खु णरलोए ॥ ३४ ॥ ४३७
संपुणं तु समगं केवलमसवत्त-सव्वभावगयं ।
लोयालोयवितिमिरं केवलाणं मुणेदव्वं ॥ ३५ ॥ ४५९

८ संयम

वद-समिदि-कसायाणं दंडाण तहिंदियाण पंचण्हं ।
धारण-पालण-णिग्गह-चाग-जओ संजमो भणिओ ॥ ३६ ॥ ४६४

९ दर्शन

जं सामणं गहणं भावाणं णेव कटटुमायारं ।
अविसेसदूण अट्टे दंसणमिदि भण्णदे समये ॥ ३७ ॥ ४८१
चक्खूण जं पयासइ दिस्सइ त चक्खुदंसणं वेत्ति ।
सेसिंदियप्पयासो णायव्यो सो अचक्खू त्ति ॥ ३८ ॥ ४८३
परमाणु-आदियाइ अंतिमख्व त्ति मुत्तिदव्वाइ ।
तं ओहिदंसणं पुण जं पस्सइ ताइं पच्चक्खं ॥ ३९ ॥ ४८४
बहुविह-बहुप्पयारा उज्जोवा परिमियम्मि खेत्तम्मि ।
लोगालोगवितिमिरो जो केवलदंसणुज्जोओ ॥ ४० ॥ ४८५

१० लेइया

त्तिपइ अप्पीकीरइ एदीए णियअपुण्णपुण्णं च ।
जीवो त्ति होदि लेस्सा लेस्सागुणजाणयक्खादा ॥ ४१ ॥ ४८८
जोगपउत्ती लेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होइ ।
तत्तो दोणं कज्जं बंधचउक्कं समुद्धिट्ठं ॥ ४२ ॥ ४८९
किण्हा णीला काऊ तेऊ पम्मा य सुक्क लेस्सा य ।
लेस्साणं णिइसा छच्चेव हवंति णियमेण ॥ ४३ ॥ ४९२
तिव्वतमा तिव्वतरा तिव्वा असुहा सुहा तहा मंदा ।
मंदतरा मंदतमा छट्ठाणगया हु पत्तेयं ॥ ४४ ॥ ४९९
पहिया जे छप्पुरिसा परिभट्टा रणमज्जदेसम्हि ।
फलभरियरुक्खमेगं पेक्खित्ता ते विचित्तंति ॥ ४५ ॥ ५०६
णिम्भूल-खंध-साहुवसाहं छित्तुं चिणित्त पडिदाइं ।
खाउं फलाइं इदि जं मणेण वयणं हवे कम्मं ॥ ४६ ॥ ५०७

चंडो ण मुयइ वेरं भंडणसीलो य धम्म-दयरहिओ ।
 दुट्ठो ण य एदि वसं लक्खणमेयं तु किणहस्स ॥ ४७ ॥ ५०८
 मंदो बुद्धिविहीणो णिव्विण्णाणी य विसयलोलो य ।
 लक्खणमेयं भणियं समासदो णील्लेस्सस्स ॥ ४८ ॥ ५१०
 रूसइ णिंदइ अण्णे दूसइ बहुसो य सोयमयवहुलो ।
 ण गणइ कज्जाकज्जं लक्खणमेयं तु काउस्स ॥ ४९ ॥ ५१३
 जाणइ कज्जाकज्जं सेयमसेयं च सव्वसमपासी ।
 दय-दाणरदो य मिदू लक्खणमेयं तु तेउस्स ॥ ५० ॥ ५१४
 चागी भदो चोक्खो उज्जवक्कम्मो य खमदि बहुगं पि ।
 साहु-गुरुपूजणरदो लक्खणमेयं तु पम्मस्स ॥ ५१ ॥ ५१५
 ण य कुणइ पक्खवायं ण वि य णिदाणं समो य सव्वेसिं ।
 णत्थि य रायदांसा णेहो वि य सुक्कलेस्सस्स ॥ ५२ ॥ ५१६

११ भव्यत्व

भविया सिद्धी जेसिं जीवाणं ते हवंति भवसिद्धा ।
 तव्विकरीयाऽभव्वा संसारादो ण सिज्जंति ॥ ५३ ॥ ५५६

१२ सम्यक्त्व

छप्पंचणवविहाणं अत्याणं जिणवरोवइट्ठाणं ।
 आणाए अहिगमेण य सदहणं होइ सम्मत्तं ॥ ५४ ॥ ५६०
 खीणे दंसणमोहे जं सदहणं सुणिम्मलं होई ।
 तं खाइयसम्मत्तं णिच्चं कम्मखवणहेदू ॥ ५५ ॥ ६४५
 दंसणमोहुदयादो उप्पज्जइ जं पयत्थसदहणं ।
 चलमलिनमगाढं तं वेदयसम्मत्तामिदि जाणे ॥ ५६ ॥ ६४८
 दंसणमोहुवसमदो उप्पज्जइ जं पयत्थसदहणं ।
 उवसमसम्मत्तमिणं पसण्णमलपंकतोयसमं ॥ ५७ ॥ ६४९
 ण य मिच्छत्तं पत्तो सम्मत्तादो य जो य परिवाडिदो ।
 सो सासणो त्ति णेयो पंचमभावेण संजुत्तो ॥ ५८ ॥ ६५३
 सदहणासदहणं जस्स य जीवस्स होइ तच्चेसु ।
 विरयाविरयेण समो सम्मामिच्छो त्ति णायव्वो ॥ ५९ ॥ ६५४

मिच्छाइष्टी जीवो उवइष्टं पवयणं ण सदहदि ।

सदहदि असम्भावं उवइष्टं वा अणुवइष्टं ॥ ६० ॥ ६५५

१३ संज्ञा

णोइंदियआवरणखओवसमं तज्जबोहणं सण्णा ।

सा जस्स सो दु सण्णी इदरो सेसिंदिअवबोहो ॥ ६१ ॥ ६५९

सिक्खा-किरियुवेदसालावग्गाही मणोवलंबेण ।

जो जीवो सो सण्णी तव्विवरीओ असण्णी दु ॥ ६२ ॥ ६६०

मीमंसदि जो पुवं कज्जमकज्जं च तच्चमिदरं च ।

सिक्खदि णामेणेदि य समणो अमणो य विवरीदो ॥ ६३ ॥ ६६१

१४ आहार

उदयावण्णसरीरोदघेण तद्देहवयणचित्ताणं ।

णोकम्मवग्गणणं गहणं आहारयं णाम ॥ ६४ ॥ ६६३

विग्गह्गदिमावण्णा केवलिणो समुग्घदो अजोगी य ।

मिद्दा य अप्पाहारा सेमा आहारया जीवा ॥ ६५ ॥ ६६५

[नेमिचंद्राचार्यकृत जीवकांड]

: १३ :

ध्या न

जह कवचेण अभिज्जेण कवचिओ रणमुहम्मि सत्तूणं ।
जायइ अलंघणिज्जो कम्मसमत्थां य जिणदि य ते ॥ १ ॥ १६८१
एवं खवओ कवचेण कवचिओ तह परीस हरिऊणं ।
जायइ अलंघणिज्जो ज्ञाणममत्थो य जिणदि य ते ॥ २ ॥ ८२
जिदरागो जिददोसो जदिदिओ जिदमओ जिदकसाओ ।
रदि-अरदि-मोह-महणो ज्ञाणोवगओ सदा होइ ॥ ३ ॥ ९८
धम्मं चउप्पयारं सुक्कं च चदुव्विधं किलेसहरं ।
संसार-दुक्ख-भीओ दुण्णि वि ज्ञाणाणि सो ज्ञादि ॥ ४ ॥ ९९.

अशुभध्यान

ण परीसहेहिं संताविओ वि ज्ञाइ अट्ट-रुदाणि ।
सुट्ठुवहाणे मुद्धं पि अट्ट-रुदा विणासंति ॥ ५ ॥ १७००

१ आर्तध्यान

अट्टे चउप्पयारे रुद्धे य चउव्विधे य जे भेदा ।
ते सब्बे परियाणइ संथारगओ तओ खवओ ॥ ६ ॥ १
अमणुण्णसंपओगे इट्ठविओए परीसह-णिदाणे ।
अट्ठं कसाय-सहियं ज्ञाणं भणिय समासेण ॥ ७ ॥ २

२ रौद्रध्यान

तेणिक्क-मोस-सार-क्खणेसु तह चेव छव्विधारंभे ।
रूढं कसायसहियं ज्ञाणं भणियं समासेण ॥ ८ ॥ ३
अवहइ अट्ट-रुद्धे महाभए सुग्गदीए पच्चूहे ।
धम्मे सुक्के य सदा होदि समण्णागद-मदीओ ॥ ९ ॥ ४

शुभध्यान

इंदिय कसाय-जोग-णिरोधं इच्छं च णिञ्जरं विउलं ।
 चित्तास्स य वमियत्तं मग्गादु अविण्णाम च ॥ १० ॥ ५
 किं चि वि दिट्ठिमुपावत्ताइत्तु ज्ञाणे णिरुद्ध-दिट्ठीओ ।
 अप्पाणं हि मदि सद्धित्ता संसारमोक्खट्ठं ॥ ११ ॥ ६
 पच्चाहरित्तु विसण्हिं इंदियाइं मणं च तेहिंतो ।
 अप्पाणम्मि मणं तं जोगं पणिधाय धारेदि ॥ १२ ॥ ७

३ धर्मध्यान

एयग्गेण मणं रुंमिऊण धम्मं चउव्विहं ज्ञादि ।
 आणायाय-विवाग-विचयं संटाण-विचयं च ॥ १३ ॥ ८
 धम्मस्स लक्खणं से अज्जव लहुगत्ता-मद्दवोवसमो ।
 सुत्तास्सुवदेसेण णिसग्गओ अत्थरुचिगो से ॥ १४ ॥ ९
 आलंब्रणं च वायण-पुच्छण-परिवट्ठणाणुवेहाओ ।
 धम्मस्स तेण अविरुद्धाओ सव्वाणुपेहाओ ॥ १५ ॥ १०
 पंचेव अत्थिकाया उज्जीव-णिकाये दव्वमण्णो य ।
 आणागेज्जे भावे आणाविचयेण विचिणादि ॥ १६ ॥ ११
 कल्लाणपावगाणोपाण, विचिणादि जिणमदमुवेज्ज ।
 विचिणादि वा अवाए जीवाण सुभे य असुभे य ॥ १७ ॥ १२
 एयाणेय-भवगदं जीवाणं पुण्ण-पावकम्मफलं ।
 उद भोदीरण-संकम-बंधे मोक्खे य विचिणादि ॥ १८ ॥ १३
 अह तिरिय-उड्ढलोए विचिणादि सपज्जण संसंटाणे ।
 इत्थेव अणुगदाओ अणुपेहाओ वि विचिणादि ॥ १९ ॥ १४
 अद्ध्युवमसरणमेगत्तामण्णसंसार-लोयमसुत्तं ।
 आसव-संवर-णिञ्जर-धम्मं बोधिं च चित्तिञ्ज ॥ २० ॥ १५

४ शुकुध्यान

इच्चेवमदिक्कंतो धम्मज्झाणं जदा हवइ खवओ ।
 मुक्कज्झाण ज्ञायदि तत्तो सुविसुद्धलेसाओ । २१ ॥ १८७५

ज्ञाण पुथत्ता-सवियक्क-सवीचारं हवे पढमसुक्कं ।
 सवियक्केगत्तावीचारं ज्ञाणं विदियसुक्कं ॥ २२ ॥ ७६
 सुहुमकिरियं तु तदियं सुक्कञ्ज्ञाणं जिणेहि पण्णत्तं ।
 विति चउत्वं सुक्कं जिणा समुच्छिण्णकिरियं तु ॥ २३ ॥ ७७
 दव्वाणि अणेयाइं तीहि वि जोगेहि जेण ज्ञायन्ति ।
 उवसंत-मोहणिज्जा तेण पुथत्तं ति तं भणियं ॥ २४ ॥ ७८
 जम्हा सुदं वियक्कं जम्हा पुव्वगद-अत्यकुसलो य ।
 ज्ञायदि ज्ञाणं एदं सविदक्कं तेण तं ज्ञाणं ॥ २५ ॥ ७९
 अत्थाण वंजणाण य जोगाण य संकमो हु वीचारो ।
 तस्म य भावेण तयं सुत्ते उत्तं सर्वायारं ॥ २६ ॥ १८८०
 जेणेगमेव दव्वं जोगेणेण अण्णदरगेण ।
 ग्गीणकसाओ ज्ञायदि तेणेगत्तं तयं भणियं ॥ २७ ॥ ८१
 जम्हा सुदं वितक्कं जम्हा पुव्वगद-अत्यकुसलो य ।
 ज्ञायदि ज्ञाणं एयं सवितक्कं तेण तं ज्ञाणं ॥ २८ ॥ ८२
 अत्थाण वंजणाण य जोगाण य संकमो हु वीचारो ।
 तस्स अभावेण तयं ज्ञाणं अविचारमिदि वुत्तं ॥ २९ ॥ ८३
 अवितक्कमवीचारं सुहुमकिरियवंघणं तादियसुक्कं ।
 सुहुमम्मि कायजोगे भणिदं तं सव्वभावगदं ॥ ३० ॥ ८४
 अवितक्कमवीचारं अणियट्टिमकिरियं च सीलेसि ।
 ज्ञाणं णिरुद्धजोगं अपच्छिमं उत्तामं सुक्कं ॥ ३१ ॥ ८६
 तं पुण णिरुद्धजोगो सरीर-तिय-णासणं करेमाणो ।
 सव्वणहु अपडिवादि ज्ञायदि ज्ञाणं चरिमसुक्कं ॥ ३२ ॥ ८७
 एवं कसाय-जुद्धम्मि होइ खवयस्स आउहं ज्ञाणं ।
 ज्ञाणविहूणो खवओ रंगे व अणाउहो मल्लो ॥ ३३ ॥ ९०
 रणभूमीए कवचं व कसायरणे तह हवे कवयं ।
 जुद्धे व णिरावरणो ज्ञाणेण विणा हवे खवओ ॥ ३४ ॥ १८९१

: १४ :

स्या द्वाद

जीवादिद्व्यणिवहा जे भणिया विविहभावसंजुत्ता ।
ताण पयासणहेऊ पमाण-णयलक्खणं भणियं ॥ १ ॥
सव्वाण सहावाणं अत्थित्तं पुण सुपरमसव्भावं ।
अत्थिसहावा सव्वे अत्थित्तं सव्वभावगयं ॥ २ ॥
इदि तं पमाणविसयं सत्तारूवं खु जं हवे दव्वं ।
णयविसयं तस्संसं सियभणिदं तं पि पुव्वुत्तं ॥ ३ ॥
सामण्ण अह विसेसं दव्वे णाणं हवेइ अबिरोहो ।
माहइ तं सम्मत्तं ण ढु पुण तं तस्स विवरीयं ॥ ४ ॥
सियसावेक्खा सम्भा मिच्छारूवा ढु तेहि णिव्वेक्खा ।
तम्हा सियसदादो विसयं दोण्हं पि णायव्वं ॥ ५ ॥
अवरोप्पर सावेक्खं णयविमयं अह पमाणविसयं वा ।
तं सावेक्खं तत्तं णिरवेक्खं ताण विवरीयं ॥ ६ ॥
णियम-णिसेहणसीलो णिवाद्णादो य जो ढु खलु सिद्धो ।
सो सियमदो भणियो जो सावेक्खं पसाहेदि ॥ ७ ॥
सत्तेव हुंति भंगा पमाण-णय-दुणयभेदजुत्ता वि ।
सियसावेक्ख पमाणा णयेण णय दुणय णिरवेक्खा ॥ ८ ॥
अत्थि त्ति णत्थि दो वि य अब्वत्तव्वं सियेण संजुत्तं ।
अव्वत्तव्वा ते तह पमाणभंगीसु णायव्वा ॥ ९ ॥
अत्थिसहावं दव्वं सव्व्वादीसु गाहयणयेण ।
तं पि य णत्थिसहावं परदव्वादीहि गहिएण ॥ १० ॥
उहयं उहयणएणं अब्वत्तव्वं च जाण समुदाए ।
ते तिय अब्वत्तव्वा णियाणियणय अत्थसंजोए ॥ ११ ॥

अत्थि त्ति णत्थि उहयं अव्वत्तव्वं तहेव पुण तिदयं ।
 तह सिय णयणिरवेक्खं जाणदु दव्वे दुणयभंगी ॥ १२ ॥
 एक्कणिरुद्धे इयरो पडिवक्खो अणवरेइ सव्भावो ।
 सव्वोसिं च सहावै कायव्वा होइ तह भंगी ॥ १३ ॥
 धम्मी धम्मसहावो धम्मा पुण एक्कएक्क तण्णिट्ठा ।
 अवरोप्परं विभिण्णा णायव्वा गउण-मुक्खभावेण ॥ १४ ॥
 सियजुत्तो णयणिवहो दव्वसहावं भणेइ इह तत्थं ।
 सुणयपमाणा जुत्ती ण ह्नु जुत्तिविवज्जियं तच्चं ॥ १५ ॥
 तच्चं पि हेयमियरं हेयं खलु भणिय ताण परदव्वं ।
 णियदव्वं पि य जाणसु हेयादेयं च णयजोगे ॥ १६ ॥
 मिच्छा सरागभूयो हेयो आदा हवेइ णियमेण ।
 तव्विवरीयो ज्ञेओ णायव्वो सिद्धिकामेण ॥ १७ ॥
 जो सियभेदुवयारं धम्माणं कुणइ एगवत्थुस्स ।
 सो ववहारो भणियो विवरीओ णिच्छयो होदि ॥ १८ ॥
 एक्को वि ज्ञेयरूवो इयरो ववहारदो य तह भणियो ।
 णिच्छयणएण सिद्धो सम्मगुतिदयेण णिय अप्पा ॥ १९ ॥
 तिण्णि णया भूदत्था इयरा ववहारदो य तह भणिया ।
 दो चेव सुद्धरूवा एको गाही परमभावेण ॥ २० ॥
 जं जस्स भणिय भवं तं तस्स पहाणदो य तं दव्वं ।
 तम्हा ज्ञेयं भणियं जं विसयं परमगाहिस्स ॥ २१ ॥
 तच्चाणेसणकाले समयं बुज्झेहि जुत्तिमग्गेण ।
 णो आराहणसमये पच्चक्खो अणुहवो जम्हा ॥ २२ ॥
 एयंते णिरवेक्खे णो सिज्झइ विविहभावगं दव्वं ।
 तं तह व अणेयंता इदि बुज्झह सिय अणेयंतं ॥ २३ ॥

: १५ :

नय-वाद

वीरं विसयविरत्तं विगयमलं विमलणाणमंजुत्तं ।
पणविवि वीरजिणिदं पच्छा णय-लक्खणं वोच्छं ॥ १ ॥

नय-लक्षण

जं णाणीण वियपं सुयभेयं कथुयंससंगहणं ।
तं इह णयं पउत्तं णाणी पुण तेहि णाणेहिं ॥ २ ॥
जम्हा ण णण विणा होइ णरस्म सिववायपडिवत्ती ।
तम्हा सो बोहव्यो णअंतं हंतुक्कामण ॥ ३ ॥
धम्मविहीणो सोक्खं तण्हाण्येयं जलेण जह रहिदो ।
तह इह वंछइ मूढो णयरहिओ दव्वणिच्छिच्छी ॥ ४ ॥ ६
दो चेव मूळिमणया भणिया दव्वत्थ-पज्जयत्थ-गया ।
अण्णं असंखसंखा ते तव्वेया मुणेयव्वा ॥ ५ ॥ ११
नेगम संगह ववहार तह य रिउसुत्ता सइ अभिक्खटा ।
एवंभूयो णवविह णया वि तह उवणया तिण्णि ॥ ६ ॥ १२
दव्वत्थं दहभेयं छव्वेयं पज्जयत्थियं णय ।
तिविहं च णेगमं तह दुविहं पुण संगहं तत्थ ॥ ७ ॥ १३
ववहारं रिउसुत्तां दुवियपं सेसमाहु णक्केक्का ।
उत्ता इह णयमेया उपणयमेया वि पमणामो ॥ ८ ॥ १४
सब्भूयमसब्भूयं उवयरियं चेव दुविह सव्वभूयं ।
तिविहं पि असव्वभूयं उवयरियं जाण तिविहं पि ॥ ९ ॥ १५
दव्वत्थिए य दव्वं पज्जायं पज्जवत्थिए विसयं ।
सव्वभूयास व्वभूए उवयरिए च दु-णव-तियत्था ॥ १० ॥ १६
पज्जय गउणं किच्चा दव्वं पि य जो हु गिण्हए लोए ।
सो दव्वत्थो भणिओ विवरओ पज्जयत्थो दु ॥ ११ ॥ १७

द्रव्यार्थिक-१०

- कम्माणं मञ्जगयं जीवं जो गहइ सिद्धसंकासं ।
 १ भण्णइ सो सुद्धणओ खलु **कम्मोवाहिणिरवेक्खो** ॥ १२ ॥ १८
 उप्पाद-वयं गोणं किच्चा जो गहइ केवला सत्ता ।
 २ भण्णइ सो सुद्धणओ इह **सत्ताग्गाहओ** समए ॥ १३ ॥ १९
 गुण-गुणियाइचउक्के अत्थे जो णो करेइ खलु भेयं ।
 ३ सुद्धो सो दव्वत्थो **भद्वियप्पेण णिरवेक्खो** ॥ १४ ॥ २०
 भावेषु राययादी सव्वे जीवस्मि जो दु जंपेदि ।
 ४ सो हु असुद्धो उत्तो **कम्माणावाहिसावेक्खो** ॥ १५ ॥ २१
 ५ **उप्पाद-वयविमिस्सा** सत्ता गहिऊण भणइ तिदयत्तं ।
 दव्वस्स एयसमपे जो हु असुद्धो हवे विदिओ ॥ १६ ॥ २२
 भेदे सदि संबंधं गुण-गुणियाईण कुणइ जो दव्वे ।
 ६ सो वि असुद्धो दिट्ठो सहिओ सो **भेदकप्पेण** ॥ १७ ॥ २३
 णिस्सेससहावाणं अण्णयरूवेण दव्व दव्वेदि ।
 ७ दव्वठवणो हि जो सो **अण्णयदव्वत्थिओ** भणिओ ॥ १८ ॥ २४
 ८ **सहव्वादिचउक्के** संतं दव्वं खु गिण्हए जो हु ।
 ९ णिमदव्वादिमु गाही सो इयरो होइ **विवरीयो** ॥ १९ ॥ २५
 गिण्हइ दव्वसहावं असुद्ध-सुद्धोपचारपरिचत्तं ।
 १० सो **परमभावगाही** णायव्वो सिद्धिकामेण ॥ २० ॥ २६

पर्यायार्थिक-६

- अकट्टिया अणिहणा ससिसुराईण पज्जया गिण्हइ ।
 १ जो सो **अणाइ-णिच्चो** जिणभणिओ पज्जयत्तिणओ ॥ २१ ॥ २०
 कम्मक्खयादु पत्तो अविणासी जो हु कारणाभावे ।
 २ इदमेवमुच्चरंतो भण्णइ सो **साइणिच्च** णओ । २२ ॥ २८
 सत्ता अमुक्खरूवे उप्पादवयं हि गिण्हए जो हु ।
 ३ सो दु सहाव **अणिच्चो** भण्णइ खलु **सुद्धपज्जायो** ॥ २३ ॥ २९

जो गहइ एकसमए उप्पाय-वय-द्धुवत्तसंजुत्त ।

४ सो सव्भाव अणिच्चो असुद्धओ पज्जयत्थीओ ॥ २४ ॥ ३०
देहीणं पज्जाया सुद्धा सिद्धाण भणइ सारिच्छा ।

५ जो इह अणिच्चसुद्धो पज्जयगाही हवे स णओ ॥ २५ ॥ ३१
भणइ अणिच्चासुद्धा चउगइजीवाण पज्जया जो ह् ।

६ होइ विभात्र-अणिच्चो असुद्धओ पज्जयत्थिणओ ॥ २६ ॥ ३२

१ नैगम

णिव्वित्ता-दव्व-किरिया वट्टणकाले द्दु जं समाचरणं ।

तं भूयणइगमणयं जह अड णिव्वइदिणं वीरे ॥ २७ ॥ ३३
पारद्धा जा किरिया पयण-विहाणादि कहइ जो सिद्धा ।

लोए य पुच्छमाणे तं मण्णइ वट्टमाण-णयं ॥ २८ ॥ ३४
णिप्पणमिन्न पयंपदि भाविपयत्थ णरो अणिप्पणं ।

अप्पत्थे जह पत्थं मण्णइ सो भावि णइगमो त्ति णओ ॥ २९ ॥ ३५

२ संप्रह

अवरे परमविरोहे सव्वं अत्थि त्ति सुद्धमंगहणो ।

होइ तमेव अमुद्धो इगजाइविसेमगहणेण ॥ ३० ॥ ३६

३ व्यवहार

जं संगहेण गहियं भेयइ अत्थं अमुद्ध सुद्धं वा ।

सो ववहारो द्दुविहो असुद्ध-सुद्धत्थ भेयकरो ॥ ३१ ॥ ३७

४ ऋजमूत्र

जो एयसमयवट्ठी गिण्हइ दव्वे धुवत्तापज्जाओ ।

सो रिउसुत्तो सुद्धमो सव्वं पि सदं जहा खणियं ॥ ३२ ॥ ३८

मणुवाइयपज्जाओ मणुसुत्ति सगट्ठिदीसु वट्ठतो ।

जो भणइ तावकालं सो धूलो होइ रिउसुत्तो ॥ ३३ ॥ ३९

जो वट्ठणं च मण्णइ एयट्ठे मिण्णल्लिममाईणं ।

सो सहणओ भणिओ णेओ पुत्साइयाण जहा ॥ ३४ ॥ ४०

५ शब्द

अहवा सिद्धे सद्दे कीरइ जं किं पि अत्यववहरणं ।
तं खलु सद्दे विसयं देवो सद्देण जह देवो ॥ ३५ ॥ ४१

६ समभिरूढ

सद्दारूढो अत्यो अत्यारूढो तहेव पुण सद्दो ।
भणइ इह समभिरूढो जह इंद्र पुरंदरो सक्के ॥ ३६ ॥ ४२

७ एवंभूत

जं जं करेइ कम्मं देही मण-वयण-कायचिद्धाहिं ।
तं तं खु णामजुत्तो एवंभूओ हवे स णओ ॥ ३७ ॥ ४३
पढमतिया दब्बत्थी पज्जयगाही य इयर जे भणिया ।
ते च्चदु अत्यपहाणा सद्दपहाणा हु तिण्णियरा ॥ ३८ ॥ ४४

१ सद्भूत उपनय .

गुण-गुणि-पज्जय-दब्बे कारयसब्भावदो य दब्बेसु ।
सण्णार्इहि य मेयं कुण्णइ सद्भूयमुद्धियरो ॥ ३९ ॥ ४६

२ असद्भूत उपनय

अण्णेसि अत्तगुणा भणइ असद्भूय तिविहंभेदे वि ।
सज्जाइ-इयर-मिस्सो णायव्वो तिविहंभेदजुदो ॥ ४० ॥ ५०
दट्ठूणं पडिंविं भवदि हु तं चेव एस पज्जाओ ।
सज्जाइ-असद्भूओ उवयरिओ णिययजातिपज्जाओ ॥ ४१ ॥ ५६
एइंदियादिदेहा णिच्चत्ता जे वि पोगाले काये ।
ते जो भणेइ जीवो ववहारो सो विजातोओ ॥ ४२ ॥ ५३
णेयं जीवमजीवं तं पि य णाणं खु तस्स विसयादो ।
जो भणइ एरिसत्थं ववहारो सो असद्भूदो ॥ ४३ ॥ ५७

३ उपचरित-उपनय

उवयारा उवयारं सच्चासच्चेसु उहयअत्येसु ।
सज्जाइ-इयर-मिस्सो उवयरिओ कुणइ ववहारो ॥ ४४ ॥ ७१

पुत्ताइबंधुवगं अहं च मम संपयाइ जंपंतो ।

उवयारासब्भूओ सजाइदब्बेसु णायब्बो ॥ ४५ ॥ ७३

आहरण-हेम-रयणं वत्यादीया मम त्ति जंपंतो ।

उवयार-असब्भूओ विजादिदब्बेसु णायब्बो ॥ ४६ ॥ ७४

देसं च रज्ज-दुग्गं एवं जो चेव भणइ मम सव्वं ।

उहयत्थं उवयरिओ होइ अमब्भूयववहारो ॥ ४७ ॥ ७५

एयंते णिरवेक्खे णो सिज्झइ विविह-भावंगं दव्वं ।

तं तह वयणेयंते इदि वुज्झह सिय अणेयंतं ॥ ४८ ॥ ७६

जह ग्गमिद्धो वाई हेमं काऊण भुंजये भांगं ।

तह णयसिद्धो जोई अप्पा अणुहवउ अणवरयं ॥ ४९ ॥ ७७

[देवसेनकृत लघुनयचक्र

: १६ :

निक्षेप



जुत्तीसुजुत्तिमग्गे जं चउभेयेण होइ खलु ठवणं ।
कज्जे सदि णामादिसु तं णिक्खेवं हवे समये ॥ १ ॥
दव्वं विविहसहावं जेण सहावेण होइ जं ज्ञेयं ।
तस्म णिमित्तं कीरइ एक्कं वि य दव्व चउभेयं ॥ २ ॥
णाम द्रवणा दव्वं भावं तह जाण होइ णिक्खेवं ।
दव्वे सण्णा णामं दुविहं पि य तं पि विक्खायं ॥ ३ ॥

१ नाम

मोह-रज-अंतराये हणणगुणादो य णाम अरिहंतो ।
अरिहो पूजाए वा सेसा णामं हवे अण्णं ॥ ४ ॥

२ स्थापना

सायार इयर ठवणा कित्तिम इयरा द्दु विव्रजा पट्टमा ।
इयरा इयरा भणिया ठवणा अरिहो य णायव्वो ॥ ५ ॥

३ द्रव्य

दव्वं खु होइ दुविहं आगम-णोआगमेण जह भणियं ।
अरहंत-सत्थ-जाणो अणजुत्तो दव्व-अरिहंतो ॥ ६ ॥
णोआगमं पि तिविहं देहं णाणिस्स भावि कम्मं च ।
णाणिसरीरं तिविहं चुद चत्तं चाविदं चेति ॥ ७ ॥

४ भाव

आगम-णोआगमदो तहेव भावो वि होदि दव्वं वा ।
अरहंत-सत्थ-जाणो आगम-भावो दु अरहंतो ॥ ८ ॥
तग्गुणए य परिणदो णोआगम-भाव होइ अरहंतो ।
तग्गुणएई ज्ञादा केवलणाणी ह्दु परिणदो भणिओ ॥ ९ ॥

अह गुण-पञ्जयवंतं दब्बं भणियं खु अण्णमूर्गीहिं ।
 भावं तिण्हं तस्स य तेहिं पि य एग्गिं भणियं ॥ १० ॥
 णो इट्ठं भणियब्बं भिण्णं काऊण एसु णिक्खेवं ।
 तस्मेव दंसणट्ठं भणियं काऊणमिह सुत्तं ॥ ११ ॥
 मदेसु जाण णामं तहेव ठवणा हु थूलरिउमुत्ते ।
 दब्बं पि य उवयारे भावं पञ्जायमज्झगयं ॥ १२ ॥
 णिक्खेव-णय-पमाणं णादूणं भावयंति जे तच्चं ।
 ते तत्थतच्चमग्गे ल्हंति लग्गा हु तत्थयं तच्चं ॥ १३ ॥
 गुण-पञ्जयाण लक्खण सहाव णिक्खेव णय पमाणं वा ।
 जाणदि जदि सवियण्णं दब्ब-सहावं खु बुज्जेदि ॥ १४ ॥

[देवसेनकृत नयचक्र २६९-२८२]



तत्त्व-समुच्चय

[हिन्दी अनुवाद]

मंगलाचरण

—*—*—*—

अर्हन्तोंको नमस्कार ।

सिद्धोंको नमस्कार ।

आचार्योंको नमस्कार ।

उपाध्यायोंको नमस्कार ।

लोकमें सर्व साधुओंको नमस्कार ॥ १ ॥

यह पंचनमस्कार सर्व पापोंका प्रणाशक है,

और समस्त मंगलोंका प्रथम मंगल है ॥ २ ॥

चार मंगल हैं ।

अर्हन्त मंगल हैं ।

सिद्ध मंगल हैं ।

साधु मंगल हैं ।

केबलि-प्रणीत धर्म मंगल है ॥ ३ ॥

चार लोकोत्तम हैं ।

अर्हन्त लोकोत्तम हैं ।

सिद्ध लोकोत्तम हैं ।

साधु लोकोत्तम हैं ।

केबलि-प्रणीत धर्म लोकोत्तम है ॥ ४ ॥

चारकी शरण जाता हूँ ।

अईन्तोंकी शरण जाता हूँ ।

सिद्धोंकी शरण जाता हूँ ।

साधुओंकी शरण जाता हूँ ।

केवलि-प्रणीत धर्मकी शरण जाता हूँ । ॥ ५ ॥



: १ :

लोक-स्वरूप

भव्यजनोंको आनन्दित करनेवाले 'त्रिलोकप्रज्ञप्ति' शास्त्रको मैं आतिशय मन्त्रिसे प्रसन्न किये गये श्रेष्ठ गुरुके चरणोंके प्रभावसे कहता हूँ ॥१॥

अनन्तानन्त अलोकाकाशके ठीक मध्यमें यह लोकाकाश जीवादि पाँच द्रव्योंसे भरा हुआ और जगश्रेणिके घन-प्रमाण है ॥२॥

यह लोक आदि और अन्तसे रहित है, प्रकृतिसे ही उत्पन्न हुआ है, जीव एवं अजीव द्रव्योंसे समृद्ध है और इमे सर्वज्ञ भगवानने देखा है ॥३॥

जितने आकाशमें धर्म और अधर्म द्रव्यके निमित्तसे होनेवाली जीव और पुद्गलोंकी गति एवं स्थिति हो, उमे लोकाकाश समझना चाहिये ॥४॥

लोक-३

इनमेंसे अधोलोकका आकार स्वभावसे त्रैत्रासनके सदृश, और मध्यलोकका आकार खड़े किए हुए मृदंगके अर्ध-भागके समान है ॥५॥

ऊर्ध्वलोकका आकार खड़े किये हुए मृदंगके सदृश है। अब इन तीनों लोकोंके संस्थानको कहते हैं ॥६॥

अधोलोककी ऊँचाई क्रमसे सात राजू, मध्यलोककी ऊँचाई एक लाख योजन और उर्ध्वलोक की ऊँचाई एक लाख योजन कम सात राजू है ॥७॥

नरक-७

इन तीनों लोकोंमेंसे अर्धमृदंगाकार अधोलोकमें रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा और महातमःप्रभा, ये सात पृथिवियों एक एक राजूके अन्तरालसे हैं ॥ ८ ॥

धर्मा, वंशा, मेघा, अन्नना, अरिष्टा, मघवी और माघवी, ये उपर्युक्त पृथिवियोंके गोत्रनाम हैं । ॥ ९ ॥

सब पृथिवियोंमें नारकियों के बिल चौरासी लाख हैं। अब प्रत्येक पृथिवीका आश्रय करके उन त्रिलोकके प्रमाणका निरूपण करते हैं । ॥ १० ॥

गंगा

हिमवान् पर्वतके मध्यमें पूर्व-पश्चिम लंबा पद्मद्रह है। इसकी पूर्व दिशेसा गंगा नदी निकलती है ॥३४॥

सिंधु

पद्म-द्रहके पश्चिमद्वारसे सिंधु नदी निकलती है, और चौदह हजार नदियोंके परिवार सहित समुद्रमें प्रवेश करती है ॥३५॥

खण्ड-६

गंगा नदी सिंधु नदी, और विजयार्द्ध पर्वतमे भरतक्षेत्रके जो छह खण्ड हो गये हैं, उनके विभाग बतलाते हैं ॥३६॥

उत्तर और दक्षिण भरत क्षेत्रमेंसे प्रत्येकके तीन तीन खण्ड है। इनमेंसे दक्षिण भरतके तीन खण्डोंमें से मध्यका आर्यखण्ड है ॥३७॥

भरतक्षेत्रके आर्यखण्डमें कालके विभाग ये है— यहा पृथक् पृथक् अव-सर्पिणी और उत्सर्पिणीरूप दो प्रकारके काल परिवर्तन होते हैं ॥३८॥

काल-६

अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनोंको मिलाकर एक कल्पकाल होता है। तथा उनमेंसे प्रत्येकके छह भेद हैं—सुषमसुषमा, सुषमा, सुषमदुषमा, दुषम-सुषमा, दुषमा और अतिदुषमा। इनमेंसे प्रथम सुषम-सुषम कालमें नियमसे परस्परमण और परधन-हरण नहीं होता ॥३९-४०॥

तनि कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण सुषमा नामक कालमें पहिले कालकी अनेका उत्सेध (जँचाई), आयु, बल, श्रद्धा और तेज इत्यादिक उत्तरोत्तर हीन होते जाते हैं ॥४१॥

उत्सेधादिकके क्षीण होनेपर सुषमदुषमा काल प्रवेश करता है। उस कालमें नारियाँ अप्सराओंके समान और पुरुष देवोंके समान होते हैं ॥४२॥

कुलकर-१४

प्रतिश्रुतिको भादि लेकर नाभिरायपर्यंत अर्थात् प्रातिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंधर, सीमंकर, सीमंधर, विमलवाहन, चक्षुष्मान्, यशस्वी, आभिचन्द्र, चन्द्राभ, मरुदेव, प्रसेनजित् और नाभिराय, ये चौदह मनु पूर्वभधमें विदेह क्षेत्र के भीतर महाकुलों में राजकुमार थे ॥४३॥

ये सब कुलोंके धारण करनेसे 'कुलधर' नामसे और कुलोंके करनेमें कुशल होनेसे 'कुलकर' नामसे भी लोकमें-सुप्रसिद्ध हैं ॥४४॥

अब यहाँसे आगे (नाभिराय कुलकरके पश्चात्) पुण्योदयसे भरतक्षेत्रके मनुष्योंमें भेष और समस्त भुवन विख्यात तिरसठ शलाका-पुरुष उत्पन्न होने लगते हैं ॥४५॥

ये शलाका-पुरुष तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, हरि (नारायण) और प्रतिशत्रु, (प्रतिनारायण) इन नामोंसे प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे तीर्थकरोंकी बारह दुगुणे अर्थात् चौबीस, चक्रवर्तियोंकी बारह, बलभद्रोंकी नौ (पदार्थ), नारायणोंकी नौ (निधि) और प्रतिशत्रुओंकी भी नौ (रंघ) मंख्या है ॥४६॥

तीर्थकर-२४

उनमेंसे ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयास, वासपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्धु, अर, मालि, सुव्रत, नमि, नेमि, पार्श्व, वर्धमान, इन भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए चौबीस तीर्थकरोंको नमस्कार करो । ये ज्ञानरूपी परसेसे भव्य-जीवोंके संसार-रूपी वृक्ष को काटते हैं ॥४७-४९॥

चक्रवर्ती-१२

भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्ति, कुन्धु, अर, सुमौम, पद्म, हरि-वेण, जयसेन, और ब्रह्मदत्त, ये छह खण्डरूप पृथिवी मंडलको सिद्ध करनेवाले और क्रीर्तिसे भुवनतलको भरनेवाले बारह चक्रवर्ती भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए ॥५०-५१॥

बलदेव-९

विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ. सुदर्शन, नन्दी, नन्दीमित्र, राम और पद्म, ये नौ भरत क्षेत्रमें बलदेव हुए ॥५२॥

नारायण-९

उर्षा प्रकार त्रिपुष्ट, द्विपुष्ट, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, (पुरुष-) पुण्डरीक, (पुरुष-) दत्त, नारायण (लक्ष्मण) और कृष्ण, ये नौ विष्णु (नारायण) हुए ॥५३॥

प्रतिनारायण-९

अश्वघाव, तारक, मेरक, मधुकैटभ, निशुम्भ, बलि, प्रहरण, रावण और अरासंघ, ये नौ प्रतिशत्रु या प्रतिनारायण हुए ॥५४॥

रुद्र-११

भीमावलि, जितशत्रु, रुद्र, विश्वानल, सुप्रतिष्ठ, अचल, पुण्डरीक, अभितंधर, अजितनाभ, पठि और सात्यकिसुत, ये ग्यारह तीर्थकर कालमें रुद्र होते हैं जो अधर्मपूर्ण व्यापारमें संलग्न होकर रौद्र-कर्म करते हैं ॥५५-५६॥

महावीर

भगवान् महावीर कुण्डलनगरमें पिता सिद्धार्थ और माता प्रियकरिणीसे चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न हुए ॥५७॥

भगवान् पार्वनाथकी उत्पत्तिके पश्चात् दोसौ अठत्तर वर्षोंके बीत जाने पर वर्षमान् तीर्थकर अवतीर्ण हुए ॥५८॥

वर्षमान् भगवान्ने मगसिरकृष्णा दशमीके दिन अपराह्न कालमें उत्तरा नक्षत्रके रहते नाथवनमें तृतीय भक्तके साथ महाव्रतोंको ग्रहण किया ॥५९॥

भगवान् नेमिनाथ, मल्लिनाथ, महावीर, वासुपुत्र्य और पार्वनाथ, इन पांच तीर्थकरोंने कुमारकालमें, और शेष तीर्थकरोंने राज्यके अन्तमें तपको ग्रहण किया ॥६०॥

वीरनाथ भगवानको वैशाख शुक्ला दशमीके अपराह्न कालमें मघा नक्षत्रके रहते ऋजुकूला नदीके किनारे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥६१॥

भगवान् वीरेश्वर (महावीर) कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीको प्रत्युष कालमें स्वाति नामक नक्षत्रमें पावानगरीसे अकेले ही सिद्ध हुए ॥६२॥

तृतीय कालमें तीन वर्ष, आठ मास और एक पक्षके अवशिष्ट रहनेपर ऋषभ जिनेन्द्र, और इतना ही चतुर्थ काल में अवशेष रहनेपर वीरप्रभु सिद्ध पदको प्राप्त हुए ॥६३॥

वीर भगवानके निर्वाणसे तीन वर्ष, आठ मास और एक पक्षके व्यतीत हो जाने पर पाँचवाँ दुषमाकाल प्रवेश करता है ॥ ६४ ॥

केवली-३

जिस दिन भगवान् महावीर सिद्ध हुए उसी दिन गौतम गणधर परमज्जानी या केवली हुए । और गौतमके सिद्ध होने पर सुधर्मरत्नामी केवली हुए ॥६५॥

सुधर्मस्वामाके कर्मनाश करने पर या मुक्त होने पर जम्बूस्वामी केवली हुए और उनके भी सिद्ध हो जाने पर फिर कोई अनुवद्ध केवली नहीं हुआ ॥६६॥

शकराज

वीर जिनेन्द्रके मुक्तिप्राप्त होनेके चारसौ इकसठ वर्ष पश्चात् यहाँ शकराजा (विक्रमादित्य ?) उत्पन्न हुआ । अथवा, वीर भगवान्के निर्वाणके पश्चात् छह सौ पाँच वर्ष और पांच महीनों के चले जानेपर शकनृप उत्पन्न हुआ । वीर भगवान्के निर्वाणके पश्चात् चारसौ इकसठ वर्षोंके बीतनेपर शकनरेन्द्र उत्पन्न हुआ । इस वंशके राज्यकालका प्रमाण दो सौ ब्यालीस वर्ष है ॥६७६८-६९॥

गुप्तोंके राज्यकालका प्रमाण दो सौ पचपन वर्ष और चतुर्मुखके राज्यकालका प्रमाण ब्यालीस वर्ष है । इस सबको मिलानेपर (४६१+२४२+२५५+४२=) एक हजार वर्ष होते हैं, ऐसा कितने ही आचार्य निरूपण करते हैं ॥७०॥

जिस समय वीर भगवान्ने मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त किया उसी समय अवन्ति-सुत पालकका राज्याभिषेक हुआ ॥७१॥

साठ वर्ष पालकका, एकसौ पचपन वर्ष विजयवंशियोंका, चालीस वर्ष मुरुडवंशियोंका और तीस वर्ष पुष्यमित्रका राज्य रहा ॥७२॥

इसके पश्चात् साठ वर्ष वसुमित्र-अग्निमित्र, एक सौ वर्ष गन्धर्व, और चालीस वर्ष नरवाहन राज्य करते रहे । पश्चात् भृत्य-आध्र (आध्रभृत्य ?) उत्पन्न हुए ॥७३॥

इन भृत्य-आध्रोंका काल दो सौ ब्यालीस वर्ष है । इसके पश्चात् गुप्तवंशी हुए, जिनके राज्यकालका प्रमाण दो सौ इकतीस वर्ष है ॥७४॥

फिर इसके पश्चात् इन्द्रका सुत कल्कि उत्पन्न हुआ । इसका नाम चतुर्मुख, आयु सत्तर वर्ष, और राज्यकाल द्विगुणित इक्कीस अर्थात् ब्यालीस वर्ष रहा ॥७५॥

कल्कि प्रयत्नपूर्वक अपने योग्य जनपदोंको वशमें करके लोभी हुआ मुनियोंके आहारमेंसे भी अन्नपिण्डको शुल्क मागने लगा ॥७६॥

तब किसी असुरदेवने अवधिज्ञानसे मुनिगणोंके उपसर्गको जानकर और कल्किको धर्मका द्रोही मानकर मार डाला ॥७७॥

तब अजितेजय नामक उस कल्किके पुत्रने ' रक्षा करो ' इस प्रकार कहकर उस देवके चरणोंमें नमस्कार किया । अतः उस देवने ' धर्मपूर्वक राज्य करो ' इस प्रकार कहकर उसकी रक्षा की ॥७८॥

तबसे दो वर्ष तक लोगोंमें समीचीन धर्मकी प्रवृत्ति रही । फिर क्रमशः कालके माहात्म्यसे वह प्रतिदिन हीन होने लगी ॥७९॥

[यतिवृषभकृत त्रिलोकप्रसूति]

: २ :

गृहस्थ-धर्म [१]

अरहंतों की वन्दना करके बारह प्रकार के श्रावक-धर्म को गुरुपदेश के अनुसार संक्षेप में कहता हूँ ॥ १ ॥

सम्यग्दर्शनादि को प्राप्तकर जो कोई मुनियों के पाससे उत्तम समाचारी (सदाचरण) को सुनता है वह श्रावक कहलाता है ॥ २ ॥

पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इस प्रकार श्रावकधर्म बारह प्रकार का होता है ॥ ३ ॥

अहिंसा

स्थूलरूप से प्राणिहिंसा का न्याग आदि (अर्थात् झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का स्थूलरूप से परित्याग) पाँच अणुव्रत हैं । उनमें से प्रथम स्थूल अहिंसा का स्वरूप वीतराग भगवान् ने इस प्रकार कहा है । स्थूलरूपसे प्राणिवध दो प्रकारका होता है—एक संकल्पद्वारा और दूसरा आरंभ द्वारा । श्रावक संकल्प पूर्वक वधका परित्याग कर देता है ॥ ४-५ ॥

अब ईर्यासमिति सहित साधु यदि चलने के लिये अपना पैर उठावे और उसकी चपेटमें आकर कोई कुर्लिंगी (द्वीन्द्रियादि जीव) मर जाय, तो उस साधुको उस वधके निमित्तसे सूक्ष्म भी कर्मबंध शास्त्रमें नहीं बतलाया, क्योंकि वह साधु तो प्रमादरहित आचरण कर रहा है, और हिंसा तो प्रमादसे होती है; ऐसा कहा गया है ॥ ६-७ ॥

इस अहिंसाणुव्रतको धारण करके उसके पूर्णतः पालनके लिये तत्संबंधी अनीचारीको विधिवत् जानकर उनका प्रयत्नपूर्वक निवारण करना चाहिये ॥ ८ ॥

क्रोधादिके कारण दूषितमन होकर गौ व मनुष्य आदिको बांधकर न रखे, उनकी मार-पाट न करे, अंगोंको न छेदे, अधिक भार न लादे तथा उनको भूले-प्यासे न रखे ॥ ९ ॥

त्रसजीवोंकी रक्षाके लिये जलको परिशुद्ध करके पिये तथा लकड़ी, घान्य आदि को ग्रहण करके भी विधि पूर्वक उनका उपभोग करे ॥ १० ॥

सत्य

दूसरा मृषात्याग अणुव्रत पांच प्रकारका होता है : कन्यानृत, गौअनृत भूमिअनृत न्यासहरण और कूटसाक्षित्व । इनके त्यागके मतको ग्रहण करके उसके पूर्णतः पालनके लिये तत्संबंधी अतीचारोंको यथाविधि जानकर उनका प्रयत्नपूर्वक निवारण करना चाहिये ॥११-१२ ॥

सहसा अभ्याख्यान, रहस्य-अभ्याख्यान, स्वदारामंत्रभेद, मृषोपदेश व कूटलेखकरण इन अतीचारों से बचना चाहिये ॥१३ ॥

बुद्धिपूर्वक विचार करके ऐसे वचन बोलना चाहिये जो इस लोक और परलोकके अविरोध हों तथा अपने लिये, दूसरोंके लिये एवं दोनोंके लिये सर्वथा पीडाजनक न हों ॥१४॥

अचौर्य

तीसरे अदत्तादान-त्याग-अणुव्रतको सचित्त और अचित्तके संबंधसे वीतराग भगवान्ने दो प्रकारका कहा है । इसके अतीचार स्तेनाहत, तस्कर-प्रयोग विरुद्धराज्यातिक्रम, कूट नापतौल व नकली वस्तुके व्यवहारका निवारण करना चाहिये ॥१४-१५॥

ब्रह्मचर्य

चौथा अणुव्रत परदार-परित्याग व स्वदार-संतोष है । परदार औदारिक व वैक्रियिक शरीरके भेदसे दो प्रकारकी होती है । इत्वरिका-परिग्रहिता-गमन, अपरिग्रहितागमन, अनंगक्रीडा, परविवाहकरण, और काम तीव्रामिलाष, ये पांच ब्रह्मचर्य व्रतके अतीचार हैं । इनको तथा मोहोत्पादक विकार सहित पर-युवति दर्शनादिका निवारण करना चाहिये । ये मदनके बाण चारित्ररूपी प्राणका विनाश कर डालते हैं ॥१६-१८॥

अपरिग्रह

सचित्त और अचित्त सम्पत्तिमें इच्छाका परिमाण कर लेनेको अनन्त ज्ञानियोंने पाचर्या अपरिग्रह अणुव्रत कहा है । भले प्रकार शुद्धचित्त होकर क्षेत्रादि हिरण्यदि, धनादि, द्विपदादि तथा कुप्य (बर्तन भांडे आदि) के प्रमाणका अतिक्रम नहीं करना चाहिये । तथा संतोष भावना रखना चाहिये । एवं यह विचार करना चाहिये कि मैंने विना जाने इस थोड़ी सी वस्तुको तो ग्रहण कर ली, किन्तु पुनः मैं कभी इस प्रकार ग्रहण नहीं करूंगा ॥१९-२१॥

दिग्ब्रत

ऊर्ध्व, अधः और तिर्यग् दिशाओंमें (गमनागमनका) प्रमाण करना यह भगवान् महावीरने श्रावकधर्मका प्रथम गुणव्रत कहा है ॥२२॥

[ऊपर नीचे व तिरछी दिशाओंमें गृहीत प्रमाणका अतिक्रम, तथा क्षेत्र वृद्धि व विस्मरण ये इस व्रतके अतीचार हैं जिनसे बचना चाहिये ॥२८३॥]

भोगोपभोग परिमाण

उपभोग-परिभोगका परिमाण करना इसे दूसरा गुणव्रत जानना चाहिये । इस व्रतके कर लेनेसे नियमके अभावमें जो व्यापक दोष उत्पन्न होते हैं वे नहीं होते, यह इसका गुणभाव है ॥२३॥

सचित्ताहार, सचित्तप्रतिबद्धाहार तथा अपक्व, दुष्पक्व व तुच्छ औषधियोंका भक्षण, इन अतीचारोंका अच्छी तरह निवारण करना चाहिये ॥२४॥

अनर्थदण्डव्रत

अंगार, वन, शकट, भाड़ा व स्फोटन सम्बन्धी काम तथा दांत, लाख, रस, केश व विष सम्बन्धी व्यापार, एवं यंत्रपीडन, निर्लोचन, दावामि सम्बन्धी कर्म, सरोवर, द्रव व तालाबका शोषण व असतीपोषण, इन सबका निवारण करना चाहिये ॥२५-२६॥

तीसरा गुणव्रत अनर्थदण्डव्रत है, जो अपध्यान, प्रमादाचरित, हिंसाप्रदान और पापोपदेश रूपसे चार प्रकारका है ॥२७॥ जीव सप्रयोजन आचरणसे उतना कर्मबंध नहीं करता जितना अनर्थ आचरणसे करना है । सप्रयोजन क्रियासे थोड़ा और निष्प्रयोजन क्रियासे बहुत कर्म बंधता है, क्योंकि, सप्रयोजन कार्यमें कालादि नियामक होते हैं, किन्तु अनर्थ कार्यमें तो कुछ नियामकता है ही नहीं ॥२८॥ कंदर्प (रागोद्दीपक परिहास) कौत्कुच्य (विकारोत्पादक वचन और अंगचेष्टा), मौख्य (निरर्थक निर्लज्ज बकवाद), संयुक्ताधिकरण (हिंसाके उपकरणोंका संयोग) तथा उपभोग-परिभोगातिरेक (आवश्यकतासे अधिक विलासकी सामग्री एकत्र करना) ये अनर्थदण्डव्रतके अतीचार हैं जिनका निवारण करना चाहिये ॥२९॥

सामायिक

शिक्षाव्रतामें प्रथम व्रत सामायिक है जिसे पापक्रियाओं के परित्याग व निष्पाप योगके आसेवन रूप जानना चाहिये ॥३०॥ सामायिक करते समय भावक भ्रमणके ही समान हो जाता है, इसलिये सामायिक अनेक बार करने योग्य है ॥३१॥

देशावकाशिक

दिग्ब्रतमें जो दिशाओंमें गमनागमनका परिमाण ग्रहण किया है उसमें प्रतिदिन और भी अल्पप्रमाण निर्धारित करना दूसरा शिक्षाव्रत कहा गया है। इस व्रतका नाम देशावकाशिक है जिसे सर्प विष-न्यायके अनुसार हृदयकी शुद्धि सहित हितकारी जान प्रयत्नपूर्वक पालना चाहिये ॥३२-३३॥

[सर्प यदि अंगुली में काट खाये तो उसी अंगुलीको बांध देते हैं या काटकर अलग कर देते हैं जिससे उसका विष शेष शरीर में न फैले। इसी प्रकार असंयम की वृत्तिको सीमित कर अधिक कर्मबन्धन से बचना चाहिये। इसे सर्प-विष-न्याय कहते हैं।]

[आनयन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलक्षेप, ये देशावकाशिक व्रतके अतिचार हैं जिन्हें निवारण करना चाहिये ॥३२०]

प्रोषधोपवास

आहार प्रोषध, शरीरसत्कार प्रोषध, ब्रह्मचर्य प्रोषध और अध्यापार प्रोषध, ये प्रोषधोपवास नामक तीसरे गुणव्रतके प्रकार हैं ॥ ३४ ॥

अप्रत्यवेक्षित व दुष्प्रत्यवेक्षित शय्या और संस्तर तथा अप्रमार्जित व दुष्प्रमार्जित उच्चारभूमिका निवारण करना चाहिये। उसी प्रकार इस प्रोषधोपवास व्रतमें विधिपूर्वक उद्यत होकर समस्त आहागदि प्रोषधोंमें भले प्रकार पालनके अभाव अर्थात् अतिचारका बचाव करना चाहिये ॥ ३५-३६ ॥

अतिथि-संविभाग

न्यायोपाजित व कल्पनीय अन्न आदि का देश, काल, भ्रद्धा व सत्कार क्रम सहित परम भक्तिसे आशा व अनुग्रह बुद्धि पूर्वक संयतोंको दान देना, इसे जिन भगवान्ने गृहस्थोंका अन्तिम शिक्षाव्रत अतिथि संविभाग कहा है ॥३७-३८॥

इस प्रकार यहा भ्रमणोपासक अर्थात् गृहस्थधर्ममें अणुव्रत, गुणव्रत तथा शिक्षाव्रत तथा उनके आनुषंगिक अन्य व्रतोंका कथन किया ॥३९॥

पुष्पोसे वासित तिलोंका तैल भी सुगंधित होता है। वीतराग आर्हतोंने इसी उपमासहित बोधि अर्थात् ज्ञानका प्ररूपण किया है। (अर्थात् जैसे पुष्पोसे वासित तिलोंका तैल सुगंधित होता है, उसी प्रकार जैनधर्मके अम्याससे जीवोंमें उत्तम भाव उत्पन्न होते हैं, जिनके फल स्वरूप उन्हें सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥४०॥

[हरिभद्रसूरिकृत भावकप्रज्ञप्ति]

: ३ :

गृहस्थ-धर्म (२)

जिन्होंने भव्य-जनोको सागर और अनगर धर्मका उपदेश दिया है उन जिनेन्द्र भगवान्को नमस्कार करके हम श्रावक धर्मका प्ररूपण करते हैं ॥१॥

दर्शन, व्रत, सामागिक, प्रोषोषोपवास, सचित्त-त्याग, रात्रि-भोजन-त्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भ-त्याग, परिग्रह-त्याग, अनुमति-त्याग और उद्दिष्ट-आहार-त्याग, ये देशविरत श्रावककी ग्यारह प्रतिमाएँ अर्थात् दर्जे हैं। जिसको सम्यक्त्व नहीं है उसके ये ग्यारह प्रतिमा नहीं होती। इस कारण मैं सम्यक्त्वका वर्णन करता हूँ, तुम सुनो ॥२-३॥

आप्त, आगम और तत्त्वोंमें शंका आदिक दोष रहित निर्मल श्रद्धान होनेको सम्यक्त्व जानना चाहिये ॥४॥

निःशङ्का, निष्काशा, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक्त्वके आठ अंग हैं ॥५॥

सवेग, निर्वेग, निंदा, गर्हा, उपशाम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा, ये सम्यक्त्वके आठ गुण होते हैं ॥ ६ ॥

पदार्थोंमें श्रद्धान रखनेवाला जो कोई उपर्युक्त आठ गुणोंसे संयुक्त और दृढचित्त होकर सम्यक्त्वको अंगीकार करता है वह सम्यक्दृष्टि होता है ॥ ७ ॥

१. दर्शन

पाच उदंबरी और सात व्यसनो का जो कोई सम्यक्दृष्टि त्याग करता है उसको दर्शन श्रावक कहते हैं। अर्थात् वह पहली प्रतिमाका धारी होता है ॥८॥

गूलर, बड़, पीपल, पिलखन, और अंजीर, ये पाच फल तथा संधाणा, (आचार) और वृक्षोंके फूल, इन सबमें त्रसजीवोंकी निरंतर उत्पत्ति होती है। इसलिये ये सब त्यागने योग्य हैं ॥ ९ ॥

जूआ, शराब, मांस, वेद्या, शिकार, चोरी और परस्त्री, ये सात कुब्यसन दुर्गतिमें लेजानेवाले पाप हैं ॥ १० ॥

२. व्रत

पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रतोंको जो कोई पालता है वह दूसरी प्रतिमाका धारी है ॥११॥

जीवहिंसा, झूठ, चोरी, और अब्रह्मका स्थूलरूप त्याग और इच्छानुसार परिग्रहका परिमाण करना, ये पाँच अणुव्रत हैं ॥१२॥

पूर्व, उत्तर, दक्षिण, और पश्चिम दिशामें योजनका प्रमाण करके उससे बाहर जानेका त्याग करना प्रथम गुणव्रत अर्थात् दिग्व्रत है ॥१३॥

जिस देशमें व्रतके भंग होनेका कारण होता है उस देशमें जानेका नियमसे त्याग करना दूसरा गुणव्रत अर्थात् देशव्रत है ॥१४॥

लोहेका टुकड़ा, तलवार आदिक, लाठी, फास अर्थात् मेल आदिक, इनको न बेचना, और झूठी तराजू, झूठे बाट, तथा क्रूर जानवरोंको न रखना, तीसरा गुणव्रत अर्थात् अनर्थदंड त्याग व्रत है ॥१५॥

शरीरको शोभा देनेवाले पदार्थ, ताबूल, सुगंध और पुष्प आदि का परिमाण करना भोगविरति नामक पहला शिक्षाव्रत है ॥१६॥

अपनी शक्तिके अनुसार स्त्री, वस्त्र, आभरण आदिका परिमाण करना उपभोग निवृत्ति नामक दूसरा शिक्षाव्रत है ॥१७॥

आए हुए अतिथियोंको यथोचित रूपसे आहारादि दान देना अतिथि संविभाग नामक तीसरा शिक्षाव्रत है। अपने ही घरमें या जिनमंदिरमें रहकर और तीन प्रकारका आहार त्याग कर जो गुरुके पास भले प्रकार मन, बचन, कायसे आलोचना करना है वह सल्लेखना नामक चौथा शिक्षाव्रत कहा गया है ॥१८-१९॥

३. सामायिक

शुद्ध होकर, अर्थात् स्नान आदिक करके, अपने घरमें, या चैत्य के सम्मुख स्थानमें, पूर्व दिशाकी ओर या उत्तर दिशाकी ओर मुख करके, कायोत्तम मुद्रामें खड़े होकर जो कोई लाभ-हानि व शत्रु-मित्रको समता भाव से देखता है, तथा मनमें पंच नमोकार मंत्रका जाप करता हुआ सिद्धोंके स्वरूपका ध्यान करता है, अथवा संभे (वैराग्य भाव) सहित धर्मध्यान या शुक्रध्यान करता है और इस अवस्थामें निश्चलाग होकर क्षणमात्र भी रहता है, वह उत्तम सामायिक व्रतका धारक है ॥२०-२२॥

४. प्रोषधोपवास

उत्तम, मध्यम और जघन्य, तीन प्रकारका प्रोषध उपवास कहा गया है। एक महीने के चारों पर्वमें (अर्थात् दोनों पक्षोंकी अष्टमी चतुर्दशीको) अपनी शक्तिके अनुसार उपवास करना चाहिये, यह उत्तम प्रोषधोपवास है।

उत्कृष्ट प्रोषधोपवासकी जो विधि है वही मध्यम प्रोषधोपवासकी सभझनी चाहिये । केवल भेद इतना है कि मध्यम उपवासमें पानीके सिवाय शेष सब वस्तुका त्याग होता है ॥२३-२४ ॥

बड़े आवश्यक कार्यको जानकर, पापका निवारण करता हुआ, अनारंभ मावसे जो अपना कार्य भी करता है और उपवासभी धारण करता है, वह जघन्य प्रोषधोपवास है ॥२५॥

५. सचित्त त्याग

पत्र, अंकुर, कंद, फल, बीज आदिक हरित पदार्थ और अप्रासुक पानी का त्याग करना सचित्त-त्याग प्रतिमा है ॥२६॥

६. दिवा ब्रह्मचर्य व निशिभोजन

मन, वचन, काय, और कृत, कारित, अनुमोदना अर्थात् नौ प्रकारसे दिनके समय मैथुनका जो त्याग करता है वह छठी प्रतिमा का धारक श्रावक है ॥२७॥

यदि कोई रात्रिभोजन करता है, तो वह ग्यारह प्रतिमामें से पहिली प्रतिमाका भी श्रावक नहीं रहता । इस कारण रात्रिभोजनका नियमसे त्याग करना चाहिये ॥२८॥

रात्रिके समय चमड़ा, हड्डी, कीड़ा, मूषक, सांप और बाल आदिक जो कुछ भी भोजनमें पड़ जाता है वह दिखाई नहीं देता और सब कुछ खा लिया जाता है ॥२९॥

इस प्रकार रात्रिभोजनमें बहुतसे दोष जानकर मन, वचन, काय से रात्रि-भोजनका त्याग करना चाहिये ॥३०॥

७. ब्रह्मचर्य

पूर्वोक्त नौ प्रकारसे सर्वथा मैथुनका त्याग और स्त्री-कथाका भी त्याग करनेवाला सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाका धारक होता है ॥३१॥

८. आत्म-त्याग

जो कुछ भी थोड़ा या बहुत गृह-सम्बन्धी आरम्भ हो उसका सदैव परित्याग करनेवाला आठवीं आरम्भ-त्याग प्रतिमाका धारक कहा गया है ॥३२॥

९. परिग्रह-त्याग

वस्त्रमात्र परिग्रह रखकर जो शेष परिग्रहका त्याग करता है और जितना परिग्रह रखता है उसमें भी समत्व नहीं करता है वह नवमी प्रतिमाका भावक है ॥३३॥

१०. अनुमति-त्याग

अपने या पराये लोगों द्वारा गृहकार्यके सम्बन्धमें पूछे जानेपर भी जो अनुमोदना नहीं करता, अर्थात् उस कार्यके करनेमें अपनी अनुमति नहीं देता, वह दशमी प्रतिमाका भावक है ॥३४॥

११. उद्दिष्टत्याग

ग्यारहवीं प्रतिमाका भावक उत्कृष्ट भावक होता है । उसके दो भेद हैं— प्रथम एक बस्त्रका रखनेवाला और दूसरा कोपीनमात्र रखनेवाला ॥३५॥

पहले दर्जेवाला अपने बाल उस्तरेसे बनवाता है या कैचीसे फटवाता है, और यतनके साथ उपकरणसे स्थान आदिको साफ करता है । हाथमें या बर्तनमें भोजन करता है और चार पर्वोंमें नियमके साथ उपवास करता है ॥३६—३७॥

दूसरे दर्जेवालेकी भी यही क्रिया है । भेद इतना है कि यह नियमसे केशलौच करता है, पीछी रखता है और हाथमें भोजन करता है ॥३८॥

[वसुनन्दिकृत भावकाचार]

: ४ :

मुनि धर्म [१]

जिनकी आत्मा संयममें सुस्थिर हो चुकी है, जो सांसारिक वासनाओं अथवा आन्तरिक एवं बाह्य-परिग्रहों से मुक्त हैं, जो अपनी तथा दूसरोंकी आत्माओंको कुमार्गसे बचा सकते हैं, अथवा जो लुकाय (यावन्मात्र प्राणियों) के रक्षक हैं। और जो आन्तरिक ग्रंथियोंसे रहित हैं, उन महर्षियों के लिये जो अनाचरणीय है, वह इस प्रकार है :— ॥१॥

१ औद्देशिक (उद्देश्यसे अर्थात् उसीके लिए बनाया गया भोजन)
२ क्रीतकृत (साधुके निमित्त ही खरीदकर लाया हुआ भोजन) ३ नित्यक (सदैव एक ही घरका भोजन) ४ अभिकृत (दूरीसे लाया गया भोजन) ५ रात्रिभुक्ति,
६ स्नान, ७ चंदन आदि सुगंधित पदार्थ, ८ पुष्पों की माला, ९ वीजन क्रिया (पंखा में हवा करना) ॥२॥

१० संनिधि (संचित किये हुये खाद्य व अन्य पदार्थ), ११ गृहीमात्र (गृहस्थके योग्य सामग्री), १२ राजपिंड (राजाके यहांका भोजन), १३ किमि-
च्छक (जहांसे जो चाहे वह ले ऐसी दानशालाका भोजन), १४ संवाहन (तैल आदिका मर्दन), १५ दंत प्रधावन, १६ संप्रश्न (कौतुकवश प्रश्न करना)
१७ देहप्रलोकन (दर्पणमें अपने शरीरकी शोभा देखना), ॥३॥

१८ अष्टापद (जुआ खेलना), नालिका (शतरंज आदि खेल खेलना),
२० छत्र-धाण करना, २१ चिकित्सा (हिंसा निमित्तक औषधोपचार करना),
२२ पैरोंमें जूते पहिनना, २३ अग्नि जलाना । ॥४॥

२४ शय्याकर पिंड (जिस गृहस्थने रहनेके लिये आश्रय दिया हो उसीके यहांका भोजन), २५ आसंदी पर्यक (कुर्सी पलंग आदिका उपयोग), २६ गृहा-
तर निषद्या (घरके भीतर बैठना), २७ शरीरका उद्वर्तन करना (उबटन आदि लगाना) ॥५॥

२८ गृहस्थ-वैयाक्त्य (गृहस्थकी सेवा करना), २९ आर्जाव-वृत्ति (कुल लेकर काम कर देना), ३० तप्तानिवृतभोजित्व (सचित्त जलका ग्रहण),
३१ आतुर-स्मरण (रोग या क्षुषाकी पीड़ा होनेपर अपने प्रिय जन का नाम ले लेकर

स्मरण करना, अथवा किसीकी शरण मांगना, अथवा रोगीको अच्छे भोजनादिका स्मरण दिलाना) ॥६॥

३२ सचित्त मूली, ३३ सचित्त अदरक, ३४ सचित्त गन्ना, ३५ प्याज, मूरण आदि कंद, ३६ सचित्त जड़ीबूटी, ३७ सचित्त फल, ३८ सचित्त बीज ॥७॥

३९ सौवर्चल नमक, ४० सैधव नमक, ४१ सामान्य नमक, ४२ रोम देशका नमक, ४३ समुद्री नमक, ४४ पाशु खार (पाशु लवण) तथा ४५ काला नमक आदि अनेक प्रकारके सचित्त नमक ॥८॥

४६ धूपन (धूप देना अथवा बीड़ी आदि पीना), ४७ वमन (औषधोंके द्वारा उल्टी करना), ४८ शक्तिर्म (गुदामार्गसे जल आदि चढ़ाकर पेट साफ करना), ४९ विरेचन (जुलाब लेना), ५० नेत्रोंकी शोभा बढ़ानेके लिये अंजन आदि लगाना, ५१ दौर्तोंको रंगीन बनाना, ५२ गात्राभ्यंग विभूषण (मालिश और शरीरको सजाना) ॥९॥

संयमसे युक्त और द्रव्य (उपकरण) तथा भाव (क्रोधादि कषायों) से हलके होकर विहार करनेवाले निर्भ्रय महर्षियोंके लिये उपर्युक्त ५२ प्रकारकी क्रियाएँ अनाचरणीय हैं ॥१०॥

पाच (इन्द्रिय) आत्मव द्वारोंके त्यागी, मन, बचन और काय, इन तीन गुणियोंसे गुप्त (संरक्षित); छः कायके जीवोंके प्रतिपालक (रक्षक), पंचेन्द्रियोंका दमन करनेवाले, धीर एवं सरल स्वभावी निर्भ्रय मुनि होते हैं ॥११॥

समाधियुक्त संयमी ग्रीष्मऋतुमें उग्र आतापना सहते हैं, हेमंत ऋतुमें वस्त्रोंको अलग कर शीत सहन करते हैं, और वर्षाऋतुमें मात्र अपने स्थानमें ही अंगोपागों को संवरण कर बैठे रहते हैं ॥१२॥

(अकस्मात् आनेवाले संकटों) रूपी शत्रुओं को दमन करनेवाले, मोह को दूर करनेवाले और जितेन्द्रिय महर्षि सब दुःखों का नाश करने के लिये संयम एवं तप में प्रवृत्त होते हैं ॥१३॥

उनमें से बहुत से साधु महात्मा दुष्कर तप करके और अनेक असह्य कष्ट सहन करके देवलोक में जाते हैं और बहुत से कर्मरूपी मल से सर्वथा मुक्त होकर सिद्ध होते हैं ॥१४॥

(जो देवगति में जाते हैं वे संयमी पुरुष फिर मर्त्यलोक में आकर घटकाय जीवों के त्राता होकर, संयम एवं तपश्चर्या द्वारा पूर्ण संचित समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्धिमार्ग का आराधन करते हैं और क्रमशः निर्वाण को प्राप्त होते हैं ॥१५॥

: ५ :

मुनि-धर्म [२]

मूलगुणोंके पालन द्वारा निर्मल हुए सब संयमियोंको मस्तक नमाकर वंदना करके इस लोक और परलोकमें हितकारी मूलगुणोंको कहता हूँ ॥१॥

जिनेन्द्र भगवान् द्वारा निर्दिष्ट पांच महाव्रत, पांच समितियां, पांच इन्द्रियोंके निरोध, छह आवश्यक, लौच, आचेलक्य, अस्नान, पृथिवीशयन, अदंत-वर्षण, स्थितिभोजन, और एकभक्त, ये ही जैन साधुओंके अटार्हस मूलगुण हैं ॥२-३॥

महाव्रत-५

हिंसाका त्याग, सत्य, चोरीका त्याग, ब्रह्मचर्य, और परिग्रहका त्याग, ये पाँच महाव्रत कहे गये हैं ॥४॥

१. अहिंसा

काय, इंद्रिय, गुणस्थान, मार्गणास्थान, कुल, आयु, वयोनि-इनमें सब जीवोंको जानकर उठने बैठने आदि क्रियाओंमें हिंसा आदिके त्यागको अहिंसा महाव्रत कहते हैं ॥५॥

२. सत्य

राग, द्वेष, मोह आदि कारणोंसे असत्य वचनको तथा दूसरेको दुखदायक सत्य वचनको छोड़ना और द्वादशांग शास्त्रके अर्थ कहनेमें अयथार्थ वचनका निवारण करना सत्यमहाव्रत है ॥६॥

३. अचौर्य

ग्राम आदिमें पड़ा हुआ, भूला हुआ, रखा हुआ, इत्यादिरूप थोड़ा या बहुत द्रव्य, तथा दूसरेके द्वारा संचित परद्रव्यको ग्रहण नहीं करना, यह अदत्त-त्याग अर्थात् अचौर्य महाव्रत है ॥७॥

४. ब्रह्मचर्य

वृद्धा, बाला व युवती स्त्रियोंको अथवा उनके चिन्नोंको देखकर उनको माता, पुत्री व बहिन समान समझ स्त्री संबंधी कथा, कोमल वचन, स्पर्श, रूपका देखना, इत्यादिक राग क्रियाओंका परित्याग करना ही तीनों लोकोंमें पूज्य ब्रह्मचर्य महाव्रत है ॥८॥

५. अपरिग्रह

जीवके आभित राग द्वेषादि अंतरंग परिग्रह, जीवसे लक्ष्य धन धान्यादि अचेतन परिग्रह, तथा जीवसे जिनकी उत्पात्ति है ऐसे मोती, संख, दांत, कंबल इत्यादिका शक्ति भर त्याग, अथवा इनसे इतर जो संयम, शान व शौचके उपकरण इनमें ममत्वका न रखना, यह असंग अर्थात् परिग्रहत्याग महाव्रत है ॥९॥

समिति-५

ईर्या समिति (गमनागमनमें सावधानी), भाषा समिति, एषणा समिति, (आहारमें सावधानी), आदान-निक्षेपण समिति (उपकरण रखने उठानेमें सावधानी) मूत्रविष्ठादिका शुद्धभूमिमें क्षेपण अर्थात् प्रतिष्ठापना समिति, ये पाँच समितिया हैं । ॥ १० ॥

१. ईर्या

निर्जीव मार्गसे दिनमें चार हाथ प्रमाण देखकर अपने कार्य के लिए प्राणियोंको पीड़ा नहीं देते हुए संयमीका जो गमन है वह ईर्या समिति है ॥ ११ ॥

२. भाषा

झूठा दोष लगानेरूप वैशुन्य, व्यर्थ हँसना, कठोर वचन, दूसरेके दोष प्रकट करनेरूप परनिदा, अपनी प्रशंसा; स्त्रीकथा, भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा इत्यादिक वचनोंको छोड़कर अपने और परके लिये हितकारी वचन बोलना, इसे भाषा समिति कहते हैं ॥ १२ ॥

३. एषणा

उद्रमादि छयालिप्त दोषोंसे रहित, भुख आदि मेटना व धर्म साधनादि कारणयुक्त, कृतकारित आदि नौ विकल्पोंसे विशुद्ध, ठंडा गर्म आदि भोजनमें रागद्वेष रहित समभाव कर भोजन करना यह निर्मल एषणा समिति है । ॥१३॥

४. आदान-निक्षेप

ज्ञानके निमित्त पुस्तक आदि उपकरण रूप शानोपाधि, पापक्रियाकी निवृत्तिरूप संयमके लिए पीछी आदिक संयमोपाधि, मूत्रविष्ठा आदि देहमलके प्रक्षालनरूप शौचका उपकरण कंबडलु आदि शौचोपाधि, और अन्य सांथरे आदिके निमित्त उपकरणरूप अन्योपाधि, इनका यत्नपूर्वक (देख शोधकर) उठाना रखना, यह आदान-निक्षेपण समिति है ॥१४॥

५. प्रतिस्थापन

असंयमी जनके गमनरहित एकातस्थान, हरितकाय व त्रसकाय रहित अचित्त-स्थान, दूर, छिपा हुआ, बिलछेदरहित चौड़ा, और लोक जिसकी निंदा व विरोध न करें ऐसे स्थानमें मूत्रविष्टा आदि देहके मलका क्षेपण करना यह प्रतिष्ठापना समिति है ॥१५॥

इन्द्रियनिग्रह-५

चक्षु, कान, नाक, जीभ, स्पर्शन, इन पाच इंद्रियोंको अपने अपने रूप, शब्द, गंध, रस, तथा ठंडा गर्म आदि स्पर्शरूप विषयोंसे सदैव साधुको रोकना चाहिये ॥१६॥

१. चक्षु नि०

सजीव व निर्जीव पदार्थोंके गीत नृत्यादि क्रियाभेद, समचतुरन्नादिसंस्थान भेद, गोरा काला आदि वर्ण भेद, इस प्रकार सुंदर असुंदर इन भेदोंमें रागद्वेषादि भावना का निरोध, यह मुनि का चक्षुनिरोधव्रत है ॥१७॥

२. श्रोत्र नि०

षड्ज, ऋषभ, माधार, आदि सात स्वररूप जीवशब्द और वीणा आदिसे उत्पन्न अजीवशब्द, ये दोनों प्रकार के शब्द, रागादि के निमित्तकारण हैं, इसलिये इनको नहीं सुनना, यह श्रोत्रनिरोध है ॥१८॥

३. घ्राण नि०

स्वभावमे गंधरूप तथा अन्य सुगंधी द्रव्य के संस्कार से सुगंधादिवस्त्ररूप, ऐसे सुख दुःख के कारणभूत जीव अजीवस्वरूप पुष्प, चंदन आदि द्रव्यों में रागद्वेष नहीं करना, यह मुनिवरका घ्राणनिरोध व्रत है ॥१९॥

४. जिह्वा नि०

मात आदि अशन, दुष आदि पान, लाडू आदि खाद्य, इलायची आदि स्वाद्य, ऐसे चार प्रकारके तथा तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल व मधुर, इन पांच रसरूप आहारके दाताजनों द्वारा दिये जानेपर आकाक्षारहित परिणाम होना, वह जिह्वाजय नामक व्रत है ॥ २० ॥

५. स्पर्श नि०

चेतनस्त्री इत्यादि जीवमें और शय्या आदि अचेतनमें उत्पन्न हुआ कठोर

नम आदि आठ प्रकार के सुखरूप अथवा दुःखरूप स्पर्श में हर्ष-विषाद नहीं करना, यह स्पर्शन इन्द्रियनिरोध व्रत है ॥ २१ ॥

आवश्यक-६

सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये छह आवश्यक सदा करना चाहिये ॥ २२ ॥

१. सामायिक

देहधारनेरूप जीवन, और प्राणवियोगरूप मरण, इन दोनोंमें, तथा वांछित वस्तुकी प्राप्तिरूप लाभ, व इच्छितवस्तुकी अप्राप्तिरूप अलाभमें; इष्ट अनिष्टके संयोग-वियोग में, स्वजन मित्रादिक बंधु, शत्रु दुष्टादिक अरि इन दोनोंमें; सुखदुःखमें वा भूख, पास, शीत, उष्ण आदि बाधाओंमें रागद्वेष रहित समान परिणाम होना, उमे सामायिक कहते हैं ॥२३॥

२. स्तव

ऋषभ अजित आदि चौबीस तीर्थकरोंके नाम उच्चारण करना, उन नामोंकी निरुक्ति अर्थात् नामके अनुसार अर्थ करना, उनके असाधारण गुणोंकी प्रशंसा करना, उनके चरण-युगलको पूजकर मन-वचन-कायकी शुद्धतासे उन्हें प्रणाम करना, इसे चतुर्विंशस्तव जानना चाहिये ॥२४॥

३. वन्दन

अरहंत प्रतिमा, सिद्धप्रतिमा, अनशनादि बारह तपोंसे अधिक तपगुरु, अंगपूर्वादिरूप आगमज्ञानसे अधिक श्रुतगुरु; व्याकरण, न्याय आदि ज्ञानकी विशेषतारूप गुणोंसे अधिक गुणगुरु; अपनेको दीक्षा देनेवाले दीक्षागुरु और बहुकालके दीक्षित राधिकगुरु, इनको कायोत्सर्गादिक सिद्धभक्ति गुरुभक्तिरूप क्रियाकर्मसे, तथा श्रुतभक्ति आदि क्रियाके बिना मस्तक नमाने रूप मुँहवंदनाकर मन-वचन-कायकी शुद्धिसे नमस्कार करना, यह वंदना नामक मूलगुण है ॥२५॥

४. प्रतिक्रमण

आहार शरीरादि द्रव्यमें, वसतिष्ठा शयन आसन आदि क्षेत्रमें, प्रातःकाल आदि कालमें, चित्तके व्यापाररूप भाव (परिणाम) में किये गये दोषको शुभ मन वचन कायसे शोधना, अपने दोषकी स्वयं निन्दा-गर्हा करना, यह प्रतिक्रमण गुण है ॥२६॥

५. प्रत्याख्यान

नाम-स्थापना-द्रव्य-क्षेत्र-कालि-भाव, इन छहोंमें शुभ मन वचन कायसे आगामी कालके लिये अयोग्यका त्याग करना, अर्थात् अयोग्य नाम नहीं करूंगा, न करूंगा और न चितवन करूंगा इत्यादि त्यागको प्रत्याख्यान जानना ॥२७॥

६. विसर्ग

दिनमें होनेवाली दैविक आदि निश्चय क्रियाओंमें, अर्हत्भाषित पञ्चसि, सत्तार्ईस व एकसौ आठ उच्छ्वास इत्यादि परिमाणसे कहे हुए अपने अपने कालमें, तथा क्षमा सम्यग्दर्शन, अनंतज्ञानादिचतुष्टय इत्यादि जिनगुणोंकी भावना सहित देहमें ममत्वका छोड़ना, यह कायोत्सर्ग है ॥२८॥

१-लौच

दो महिने, तीन महिने या चार महिने पश्चात् उत्कृष्ट-मध्यम-जघन्यरूप व प्रतिक्रमण सहित दिनमें उपवास साहेन किया गया जो अपने हाथसे मस्तक दाढ़ी मूँछके केशोंका उपाड़ना, वह लौचनामा मूलगुण है ॥२९॥

२-अचेलकत्व

कवास, रेशम व रोम के बने हुए वस्त्र, मृगछाला आदि चर्म, वृक्षादिकी छालसे उत्पन्न सन आदिके टाट, अथवा पत्ता तृण आदि, इनसे शरीरका आच्छादन नहीं करना, हार आदि आभूषणोंसे भूषित न होना, संयमके विनाशक द्रव्योंसे रहित होना, ऐसा जगत् पूज्य निर्घृतरूप अचेलकत्व मूलगुण है ॥३०॥

३-अस्नान

जलसे नहानेरूप स्नान, तथा उबटन, चंदनादिलेपन आदि क्रियाओंको छोड़ देनेसे जल (सर्वांग प्रच्छादक मल) वमल (अंगैकदेश-प्रच्छादक मल) तथा स्वेद (पसीना) द्वारा समस्त शरीरका मलिन हो जाना अस्नान नामा महान् गुण मुनिके है जिससे कषाय निग्रहरूप प्राणसंयम तथा इन्द्रियनिग्रहरूप इन्द्रियसंयम, इन दोनोंकी रक्षा होती है ॥३१॥

४-क्षितिशयन

जीव-बाधारहित, अल्पसंस्तररहित (या अल्प संस्तरयुक्त) असंयमीके गमनरहित प्रच्छन्न भूमि प्रदेशमें दंडके समान, अथवा धनुषके समान, एक पार्श्वसे सोना, वह क्षिति-शयन मूलगुण है ॥३२॥

५-अदंतधावन

अंगुली, नख, अवलेखिनी (दांतौन) काली (तृणविशेष), पैनी कंकणी, वृक्षकी छाल (वकल), आदिसे दांतके मैलको नहीं शुद्ध करना, यह इंद्रिव संयमकी रक्षा करनेवाला अदंतमन मूलगुणप्रत है ॥ ३३ ॥

६-स्थिति-भोजन

अपने हाथकी अंजलिपुटमे, भीत आदिके आभय रहित, चार अंगुलके अंतरसे समपाद खड़े रहकर, अपने चरणकी भूमि, झूठन पड़नेकी भूमि, जिमाने वालेके प्रदेशकी भूमि, ऐसी तीन भूमियोंकी शुद्धतासे आहार ग्रहण करना, यह स्थिति-भोजन नामक मूलगुण है ॥ ३४ ॥

७-एकभक्त

सूर्य के उदय और अस्तकालकी तीन घड़ी छोड़कर, वा मध्यकालमें एक मुहूर्त, दो मुहूर्त या तीन मुहूर्त कालमें एक बार भोजन करना, यह एकभक्त मूलगुण है ॥ ३५ ॥

इस प्रकार जो कोई विधियुक्त मूलगुणोंको मन-वचन-कायसे पालता है वह तीन लोकमें पूज्य होकर अक्षय सुखरूप मोक्षको प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥

[षट्केरकृत मूलाचार]

: ६ :

धर्मांग

उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य्य, ये दश भेद मुनिधर्मके हैं ॥ १ ॥

क्रोधके उत्पन्न होनेके साक्षात् बाहिरी कारण मिलनेपर भी जो थोड़ा भी क्रोध नहीं करता, उसके उत्तमक्षमा धर्म होता है ॥ २ ॥

जो मनस्वी पुरुष कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, शास्त्र और शीलादिके विषयमें थोड़ासा भी गर्व नहीं करता, उसीके मार्दव धर्म होता है ॥ ३ ॥

जो श्रमण कुटिल भाव अर्थात् मायाचारी परिणामोंको छोड़कर शुद्ध हृदयसे चारित्र्यका पालन करता है, उसके नियमसे तीसरा आर्जव नामका धर्म होता है ॥ ४ ॥

जो मुनि दूसरेको क्लेश पहुंचानेवाले वचनोंको छोड़कर अपना और दूसरेका हित करनेवाले वचन कहता है, उसके चौथा सत्य धर्म होता है ॥ ५ ॥

जो परम मुनि इच्छाओंको रोककर और वैराग्यरूप विचारोंसे युक्त होकर आचरण करता है, उसके शौच धर्म होता है ॥ ६ ॥

व्रतों और समितियोंके पालनरूप, दंडत्याग अर्थात् मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिके रोकनेरूप, और पाचों इंद्रियोंके जीतनेरूप परिणाम जिस जीवके होते हैं उसके संयम धर्म नियमसे होता है ॥ ७ ॥

पाचों इंद्रियोंके विषयोंको तथा चारों कषायोंको रोककर शुभ ध्यानकी प्राप्तिके लिये जो अपनी आत्माका विचार करता है, उसके नियमसे तप होता है ॥ ८ ॥

जिनेंद्र भगवानने कहा है कि जो जीव समस्त परद्रव्योंमें मोह छोड़कर संसार, देह और भोगोंसे उदासीनरूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म है ॥ ९ ॥

जो मुनि सब प्रकारके परिग्रहोंसे रहित होकर और सुखदुःख के देनेवाले (कर्मजन्य) निजभावोंको रोककर निर्द्वन्द्वतासे अर्थात् निराकुलभावसे आचरण करता है, उसके आकिञ्चन्य धर्म होता है ॥ १० ॥

जो पुण्यात्मा स्त्रियोंके सारे सुंदर अंगोंको देखकर उनमें रागरूप दुर्भाव करना छोड़ देता है, वही दुर्द्धर ब्रह्मचर्य धर्मको धारण करता है ॥ ११ ॥

[कुंदकुंदाचार्यकृत बारस अनुवेक्त्वा]

: ७ :

भावना

तीन भुवनके तिलक तथा तीनों भुवनोंके इन्द्रों द्वारा पूज्य देवकी वंदना करके भव्य जीवोंको आनंददायक अनुप्रेक्षाओंका वर्णन करता हूँ ॥१॥ १ अधुव, २ अशरण, ३ संसार, ४ एकत्व, ५ अन्यत्व, ६ अशुचित्व, ७ आस्रव, ८ संवर, ९ निर्जरा, १० लोक, ११ बोधि-दुर्लभ और १२ धर्म, ये वारह अनुप्रेक्षाओंके नाम कहे हैं। इनको समझकर नित्य प्रति मन, वचन और काय की शुद्धि सहित इनकी भावना कीजिये ॥२-३॥

१ अधुव भावना

जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसका नियमसे नाश होता है। परिणामन स्वरूप होनेसे कुछ भी शाश्वत नहीं है ॥४॥

जन्म मरण से सहित है, यौवन जरा सहित है, लक्ष्मी विनाश सहित है, इस प्रकार सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं, ऐसा जानिये ॥५॥

जैसे नवीन भेष तत्काल उदय होकर विनिष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में परिवार, बन्धुवर्ग, पुत्र, स्त्री, भले मित्र, शरीर का लावण्य, गृह, गोधन इत्यादि समस्त पदार्थ अस्थिर हैं ॥६॥

इस जगत् में इन्द्रियों के विषय, मित्रवर्ग तथा उत्तम घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि सब इन्द्रधनुष तथा बिजली के चमत्कारवत् चंचल हैं; वे दिखाई देकर तुरन्त नष्ट हो जाते हैं ॥७॥

भव्य जीवो ! तुम समस्त विषयों को क्षणभंगुर सुनकर महा मोह को छोड़ो, और अपने मनको विषयोंसे रहित करो जिससे उत्तम सुखकी प्राप्ति हो ॥८॥

२ अशरण भावना

जिस संसारमें देवोंके इन्द्रोंका भी विनाश देखा जाता है, और जहा हरि (नारायण), हर (रुद्र) और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ईश्वर भी काल द्वारा भक्षण कर लिये गये, वहा शरण (आश्रय) कहाँ ? ॥९॥

जैसे सिंहके पंजोंमें पड़े हरिण की कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं है, उसी प्रकार इस संसारमें मृत्युसे ग्रसित प्राणी की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता ॥१०॥

जो आपको क्षमादि दक्षकक्षणरूप भावसे परिणत करे वही अपना आप शरण है। किंतु जो तीव्र कषायोंसे आविष्ट है वह अपने द्वारा अपना ही घात करता है ॥११॥

३ संसार भावना

जीव एक शरीरको छोड़ता है और दूसरा ग्रहण करता है। फिर नया ग्रहण कर पुनः उसे छोड़ अन्य ग्रहण करता है। ऐसे बहुतबार ग्रहण करता और छोड़ता है ॥१२॥

मिथ्यात्व अर्थात् विपरीत व एकान्तादि रूपसे वस्तुका भ्रम, तथा कषाय अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे युक्त इस जीवका अनेक देहों अर्थात् योनियोंमें भ्रमण होता है। यही संसार है ॥१३॥

इस प्रकार संसारके स्वरूपको जानकर सर्वप्रकार उद्यम कर मोहको छोड़, हे भव्य, उस आत्म-स्वभावका ध्यान कर, जिससे संसारके भ्रमणका नाश हो ॥१४॥

४ एकत्व भावना

जीव अकेला उत्पन्न होता है, अकेला ही गर्भमें देहको ग्रहण करता है; अकेला ही बालक व जवान होता है और अकेला ही जरा-प्रसित वृद्ध होता है ॥१५॥

अकेला ही जीव रोगी होता है, शोक करता है तथा अकेला ही मानसिक दुःखसे तप्तमान होता है। बेचारा अकेला ही मरता है और अकेला ही नरकके दुःख भोगता है ॥१६॥

हे भव्य ! तुम सब प्रकार प्रयत्न करके जीवको शरीर से भिन्न और अकेला जान लो। जीव को इस प्रकार जान लेने पर समस्त पर-द्रव्य क्षणमात्र में हेय हो जाते हैं ॥ १७ ॥

५ अन्यत्व भावना

यह जीव एक शरीर छोड़कर कर्मानुसार दूसरा ग्रहण करता है तथा अन्य ही इसकी जननी व भार्या होती हैं और वे अन्य ही पुत्र को जन्म देते हैं ॥१८॥

इस प्रकार यह जीव सब बाह्य वस्तुओं को आत्मासे भिन्न जानता है और जानता हुआ भी उन पर द्रव्योंमें ही राग करता है। यह इसकी मूर्खता है ॥१९॥

जो कोई देहको जीवके स्वरूपसे तत्त्वतः भिन्न जानकर आत्मस्वरूपका ही सेवन करता है उसकी अन्यत्व भावना कार्यकारी है ॥ २० ॥

६ अशुचि भावना

हे भव्य ! तू इस देहको अपवित्र जान। यह देह समस्त कुत्सित वस्तुओंका पिंड है, कृमि-समूहोंसे भरा हुआ है, अपूर्व दुर्गन्धमय है, तथा मल-मूत्रका घर है ॥२१॥

भले पवित्र सुरस सुगंध मनोहर द्रव्य भी इस देखते स्पर्श या उसमें प्रवेश करके अत्यंत दुर्गन्धी हो जाते हैं ॥ २२ ॥

जो भव्य परदेह अर्थात् स्त्री आदिके शरीरसे विरक्त होकर अपने देहमें भी अनुराग नहीं करता और आत्मस्वरूप में अनुरक्त होता है उसकी अशुचि भाषना सार्थक है ॥ २३ ॥

७ आस्रव भाषना

मन, वचन और काय योग हैं, जो जीव प्रदेशों के स्पंदन-विशेष रूप हैं वे ही आस्रव हैं, जो मोहकर्म के उदय रूप मिथ्यात्व व कषाय सहित भी होते हैं और मोह के उदय से रहित भी होते हैं ॥ २४ ॥

कर्म, पुण्य तथा पाप रूप से दो प्रकार का होता है। उसके कारण भी दो प्रकारके हैं—प्रशस्त और इतर अर्थात् अप्रशस्त। मंदकषायरूप परिणाम प्रशस्त और तीव्र कषायरूप परिणाम अप्रशस्त कर्मास्रव के कारण हैं ॥ २५ ॥

सर्वत्र शत्रु तथा मित्रमे प्यारे हितरूप वचन बोलना, और दुर्बचन सुनकर भी दुर्जन को क्षमा करना, तथा सर्व जीवोंके गुण ही ग्रहण करना, ये मंदकषायी जीवोंके उदाहरण हैं ॥ २६ ॥

अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषोंके भी दोष कहने-करनेका स्वभाव, तथा दीर्घ काल तक वैर धारण करना, ये तीव्रकषायी जीवोंके चिन्ह हैं ॥ २७ ॥

जो पुरुष पूर्वोक्त मोहके उदयसे उत्पन्न मिथ्यात्वादिक परिणामोंको छोड़ देता है, और उपशम अर्थात् शान्त परिणाम में लीन होता है तथा इन मिथ्यात्वादिक भावोंको हेय जानता है, उसके आस्रवानुप्रेक्षा होती है ॥ २८ ॥

८ संवर भावना

सभ्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत तथा कषायजय एवं योगों का अभाव, ये सब संवर हैं ॥ २९ ॥

मन, वचन और कायकी गुति; ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये पाच समिति; उत्तम क्षामादि दशलक्षण धर्म; अनित्य आदि बारह अनुप्रेक्षा; क्षुधा आदि बारह परीषहका जीतना; सामायिक आदि उत्कृष्ट पाच प्रकारका चारित्र; ये विशेषरूप से संवरके कारण हैं ॥ ३० ॥

जो पुरुष संवरके इन कारणोंको विचारता हुआ भी सदाचरण नहीं करता वह दुःख से तप्तायमान हुआ दीर्घ काल तक संसारमें भ्रमण करता है ॥ ३१ ॥

जो मुनि इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त होकर मनोहर इन्द्रिय विषयोंसे आत्मा को सदैव संवृत्त रखते हैं उसके स्पष्ट संवर भावना है ॥३२॥

९ निर्जरा भावना

ज्ञानी और निरहंकार जीवके निदानरहित व वैराग्यभावना सहित बारह प्रकार तप करनेसे कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥३३॥

समस्त ज्ञानावरणादिक अष्ट कर्मोंकी फलदायिनी शक्तिके विपाक अर्थात् उदयको ही अनुभाग कहते हैं । कर्मोंका उदयमें आकर अनन्तर ही सड़ना अर्थात् सड़ना या क्षरना होने लगता है, इसीको कर्मोंकी निर्जरा जानिये ॥३४॥

यह निर्जरा दो प्रकारकी है—एक तो स्वकाल प्राप्त और दूसरी तपस्याकृत । इनमें पहली अर्थात् स्वकाल प्राप्त निर्जरा तो चारों ही गतियोंके जीवोंकी होती है, किन्तु दूसरी अर्थात् तपकृत निर्जरा व्रतयुक्त जीवोंकी ही होती है ॥३५॥

जो मुनि समताभावरूप सुख में लीन होकर आत्मा का स्मरण करता है तथा इन्द्रियों और कर्मायोंको जीत लेता है, उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है ॥३६॥

१० लोक भावना

समस्त आकाश अनन्त है । उसके ठीक मध्यमें लोक स्थित है । उसे न किसी हरि इरादि देवने बनाया है और न धारण किया है ॥३७॥

जहां जीव आदिक पदार्थ देखे जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । उसके शिखर पर अनन्त सिद्ध विराजमान हैं ॥३८॥

लोकमें जो जीव, पुद्गल, घर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य हैं वे समय समय परिणमन अर्थात् परिवर्तन करते रहते हैं । उन्हींके परिणमनसे लोकका भी परिणमन होता है, ऐसा जानिये ॥३९॥

इस प्रकार लोकस्वरूपका जो कोई एक मात्र उपशम भावसे ध्यान करता है, वह कर्मसमूहोंका नाश करके उसी लोकका शिखामणि अर्थात् सिद्ध हो जाता है ॥४०॥

११ बोध-दुर्लभ भावना

यह जीव अनादि कालसे अनन्तकाल तक संसारकी निगोद योनियोंमें वास करता है, जहां एक शरीरमें अनन्त जीवोंका वास पाया जाता है । वहांसे निकलकर वह पृथ्वीकायादिक पर्याय धारण करता है ॥४१॥

जिस प्रकार समुद्रमें गिरे हुए रत्नका फिर पाना अत्यंत दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय प्राप्त करना महान् दुर्लभ है। उस मनुष्यगतिमें ही (शुभ) ध्यान होता है, और उसी मनुष्यगतिसे ही निर्वाण अर्थात् मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥४२॥

इस प्रकार इस मनुष्य गति को दुर्लभसे भी अति दुर्लभ जानकर और उसी प्रकार दर्शन, ज्ञान तथा चरित्र को भी दुर्लभ से दुर्लभ समझकर दर्शन, ज्ञान, चरित्र, इन तीनों का बड़ा आदर कीजिये ॥४३॥

१२ धर्म-भावना

जो समस्त लोक-अलोक को त्रिकालगोचर समस्त गुणपर्यायोंसे संयुक्त प्रत्यक्ष जानता है वही सर्वज्ञ देव है ॥४४॥

सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट धर्म दो प्रकार का है—एक संगसक्त अर्थात् गृहस्थों का, और दूसरा असंग अर्थात् मुनियोंका। इनमें प्रथम गृहस्थका धर्म बारह भेद रूप है, और दूसरा मुनिधर्म दश भेदरूप है ॥४५॥

इन अनुप्रेक्षाओं की स्वामिकुमारने जिन-वचनोंकी भाषनाके लिये तथा चंचल मनका अवरोध करनेके लिये परम श्रद्धाके साथ रचना की है ॥४६॥

इन बारह अनुप्रेक्षाओंका जिनागमके अनुसार वर्णन किया गया है। जो इनका पाठ करेगा या पाठको दूसरोंसे सुनेगा, वह परम सुख पावेगा ॥४७॥

[स्वामिकार्तिकेयकृत अनुप्रेक्षा]

: ८ :

परीषद्

उत्तराध्ययन सूत्र

(सुधर्मस्वामीने जम्बूस्वामीको उपदेश दिया—)

हे जम्बू ! परीषद्दोंके जिस विभागका भगवान् काश्यपने वर्णन किया है, वह मैं तुम्हें क्रमसे कहता हूँ । तुम उसे ध्यानसे सुनो ॥ १ ॥

१. क्षुधा परीषद्

अत्यंत उग्र भूखसे शरीरके पीड़ित होने पर भी आत्म शक्तिधारी तपस्वी भिक्षु किसी भी वनशरति सरीत्री वस्तु को न स्वयं तोड़े और न दूसरोंसे तुड़वावे; स्वयं न पकावे और न दूसरोंसे पकावे ॥ २ ॥

शरीरके सभी अंग कोएकही टांग जैसे कृद्ध, और धमनियों (नसों) से पूर्ण क्यों न हो जाँय, फिर भी अन्नपानकी मात्राको जाननेवाला साधु दीनता रहित मनसे गमन करे ॥ ३ ॥

२. तृषा परीषद्

कड़ी प्यास लगी हो फिर भी अनाचार से भयभीत और संयम की लज्जा रखनेवाला भिक्षु ठंडा (सचित्त) पानी न पिये, किन्तु मिल सके तो अचित्त (जीव रहित उष्ण) पानीकी ही शोष करे । ॥ ४ ॥

लोगोंके आवागमनसे रहित मार्गमें यदि प्याससे बेचैन हो गया हो, मुँह सूख गया हो, तो भी साधु मनमें दैन्य भाव न लाकर उस परीषद्को प्रसन्नता से सहन करे । ॥ ५ ॥

३. शीत परीषद्

ग्राम ग्राम बिचरनेवाले और हिंसादि व्यापारोंके पूर्ण त्यागी रुद्ध (सूखे) शरीरधारी भिक्षुको यदि कदाचित् शीत (ठंड) लगे तो वह जैनशासनके नियमोंको याद करके कालातिक्रम (व्यर्थ समय यापन) न करे । ॥ ६ ॥

शीतके निवारण योग्य स्थान नहीं है, और शरीरकी रक्षा योग्य कोई उपकरण भी नहीं है, इसलिए आगसे ताप लूँ, ऐसा बिचार भिक्षुक कभी न करे । ॥ ७ ॥

४ उष्ण परीषद्

परितापकी उष्णतासे, परिदाहसे अथवा ग्रीष्मकालकी गर्मीसे व्याकुल होकर साधु सुखकी परिदेवना (हाय, यह ताप कब शांत होगा ! ऐसा कलांत वचन) न करे । ॥८॥

गर्मीसे बेचैन तत्त्वज्ञ मुनि स्नान करनेकी इच्छा भी न करे, न अपने शरीरपर पानी छिड़के और न अपने ऊपर पंखा करे ॥९॥

५ दंशमशक परीषद्

वर्षाऋतुमें डांस मच्छरोंके काटनेसे मुनिको कितना भी कष्ट क्यों न हो, फिर भी वह समभाव रखे और युद्धमें सबसे आगे स्थित हाथीकी तरह, शत्रु (क्रोध) को मारे ॥१०॥

ध्यानावस्थामें (अपना) रक्त और मांस खानेवाले उन क्षुद्र जन्तुओंको साधु न त्रास दे, उनका न निवारण करे, और न उनसे थोड़ा भी द्वेष करे । उसे तो उनकी उपेक्षा ही करना चाहिये, हिंसा कदापि नहीं ॥११॥

६ अचेल परीषद्

वस्त्रोंके बहुत जीर्ण हो जानेपर मैं अचेलक होऊंगा अथवा सचेलक रहूंगा, ऐसी चिन्ता साधु कभी न करे ॥१२॥

किसी अवस्थामें वस्त्र रहित हो, और किसी अवस्था में वस्त्र सहित हो, तो ये दोनों ही दशाएँ धर्मके लिए हितकारी हैं । ऐसा जानकर ज्ञानी मुनि खेद न करे ॥१३॥

७. अरति परीषद्

गाव गाव में विचरनेवाले, किसी एक स्थानमें न रहनेवाले, तथा परिग्रहसे रहित मुनिको यदि कभी संयमसे अरुचि हो तो वह उसे सहन करे (मनमें अरुचिका भाव न होने दे) ॥१४॥

वैराग्यवान्, आत्मभावोंकी रक्षामें निरत, आरंभका त्यागी और क्रोधादि कषायोंसे शांत मुनि, अरतिको पीछे करके (छोड़कर) धर्मरूपी बगीचेमें विचरे ॥१५॥

८ स्त्री परीषद्

इस संसारमें स्त्रियों, पुरुषोंकी आसक्तिका महान् कारण है । जिस त्यागीने इतना जान लिया उसका साधुत्व सफल हुआ ॥१६॥

इस तरह समझकर कुशल साधु स्त्रियोंके संगको कीचड़ जैसा मलिन मानकर उसमें न फंसे। आत्मविकासका मार्ग टूटकर संयममें ही गमन करे ॥१७॥

९ चर्या परीषह

संयमी साधु, परीषहोंको जीतकर गावमें, नगरमें, व्यापारी बस्तीवाले प्रदेशमें अथवा राजधानीमें भी अकेला ही विचरण करे ॥१८॥

किसीके साथ समानताका भाव ग्रहण न करके भिक्षु एकाकी (रागद्वेष रहित होकर) विहार करे तथा वह किसी स्थानमें ममता न करे तथा वह गृहस्थोंसे अनासक्त रहकर किसी भी देश, काल, प्रमाणादिका नियम रखे बिना विहार न करे ॥१९॥

१० निषया परीषह

स्मशान, शून्य (निर्जन) घर अथवा वृक्षके मूलमें एकाकी साधु बिना शरीरकी कुचेष्टाओंके (स्थिर आसनसे) बैठे और दूसरोंको थोड़ासा भी त्रास न दे ॥२०॥

वहापर बैठे हुए यदि उसपर उपसर्ग (किसीके द्वारा जानबूझकर दिये गये कष्ट) आवें, तो वह उन्हें दृढ मनसे सहन करे, किन्तु विपत्तिकी आशंकासे भयभीत होकर वह न दूसरी जगह जाय और न उठकर अन्य आसन ग्रहण करे ॥२१॥

११ शय्या परीषह

सामर्थ्यावान् तपस्वी (भिक्षु) को यदि अनुकूल अथवा प्रतिकूल शय्या मिले तो वह कालातिक्रम (कालधर्मकी मर्यादाका भंग) न करे; क्योंकि “यह स्थान अच्छा है, इसलिये यहाँ अधिक काल ठहरे, यह स्थान बुरा है इसलिये यहाँसे जल्दी चलो ” ऐसी पाप-दृष्टि रखनेवाला साधु अन्तमें आचारमें शिथिल हो जाता है ॥२२॥

प्रतिरिक्त अर्थात् शून्य व त्यक्त उपाश्रय पाकर चाहे वह अच्छा हो या बुरा “ इस एक रातके उपयोगसे भला मुझे क्या दुःख पहुँच सकता है ” ऐसी भावना रखकर साधु वहाँ निवास करे ॥२३॥

१२ आक्रोश परीषह

यदि कोई भिक्षुको आक्रोश (गालीगलौज आदि कठोर शब्द) कहे तो साधु बदलेमें कठोर शब्द न कहे, व क्रोध न करे, क्योंकि वैसा करनेसे वह भी मूर्खोंकी क्रोडिमें आ जायगा। इसलिये विश्व भिक्षु क्रोध न करे ॥२४॥

कठोर, भयंकर तथा भ्रवण आदि इन्द्रियोंको कंटकतुल्य वाणीको सुनकर भिक्षु चुपचाप (मौन धारण करके) उसकी उपेक्षा करे, और उसको मनमें स्थान न दे ॥ २५ ॥

१३ बध परीषद्

यदि कोई मारे पीटे तो भी भिक्षु मनमें क्रोध न करे, और न मारनेवालेके प्रति अल्प भी द्वेष रखे, किन्तु तितिक्षा अर्थात् सहनशीलताको उत्तम धर्म मानकर धर्मका ही आचरण करे ॥ २६ ॥

संयमी और दान्त (इन्द्रियोंको दमन करनेवाले) साधुको कोई कहीं मारे या बध करे, तो भी वह मनमें 'इस आत्माका तो कभी नाश नहीं होता' ऐसी भावना रखे और संयमका पालन करे ॥ २७ ॥

१४ याचना परीषद्

गृहस्थागी भिक्षुका तो जीवन नित्य बड़ा ही दुष्कर होता है क्योंकि वह मागकर ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसको बिना मागे कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता ॥ २८ ॥

भिक्षाके लिए गृहस्थके घर जाकर भिक्षुको अपना हाथ फैलाना पड़ता है और यह रुचिकर काम नहीं है। इसलिये साधुपनेसे गृहस्थवास ही उत्तम है—ऐसा भिक्षु कभी न सोचे ॥ २९ ॥

१५ अलाभ परीषद्

गृहस्थोंके यहा (जुदी जुदी जगह) भोजन तैयार हो उसी समय साधु भिक्षाचारीके लिये जाय। वहा भिक्षा मिले या न मिले तो भी बुद्धिमान भिक्षु खेदखिन्न न हो ॥ ३० ॥

“आज मुझे भिक्षा नहीं मिली, न सही, कल भिक्षा मिल जायगी! एक दिन न मिलनेसे क्या हुआ” जो साधु ऐसा पक्का विचार रखे उसे भिक्षा न मिलनेका कभी दुःख न होगा ॥ ३१ ॥

१६ रोग परीषद्

बेदनासे पीड़ित भिक्षु, उत्पन्न हुए दुःखको जानकर मनमें थोड़ी सी भी दर्दना न लवे, अपने चित्तको अविचलित रखे और तज्जन्म दुःखको समभाव से सहन करे ॥ ३२ ॥

भिक्षु औषधि (रोगके इलाज) की इच्छा न करे, किन्तु आत्मशोधक होकर शांत रहे। स्वयं चिकित्सा न करे और न करावे, इसीमें उसका सच्चा साधुत्व है ॥३३॥

१७ तृणस्पर्श परीषद्

वस्त्र बिना रहने वाले तथा रूक्ष (रूखे) शरीर वाले तपस्वी साधुको तृण (दर्भ आदि) पर सोनेसे शरीरकी पीड़ा होती है, या अतिताप पड़नेसे अतुल वेदना होती है, ऐसा जानकर भी तृणोंके चुभनेसे भयभीत होकर साधु वस्त्रका सेवन नहीं करते ॥३४-३५॥

१८ मल परीषद्

प्रीष्ठम अथवा अन्य किसी ऋतुमें पसीना, पंक या मैलसे मलिन शरीरवाला बुद्धिमान भिक्षु सुखके लिये व्यग्र न बने (यह मैल कैसे दूर हो—ऐसी इच्छा न करे) ॥३६॥

अपने कर्मक्षयका इच्छुक भिक्षु अपने अनुग्रह आर्थ धर्मको समझकर जबतक शरीरका नाश न हो तब तक (मृत्युपर्यंत) शरीरपर मैल धारण करे ॥३७॥

१९ सत्कार-पुरस्कार परीषद्

राजादिक या श्रीमंत हमारा अभिवादन (वन्दन) करें, हमारे सन्मानार्थ सन्मुख आकर खड़े हों अथवा भोजनादिका निमन्त्रण करें—इत्यादि प्रकारकी इच्छाएं न करे तथा जो उसकी सेवा करते हैं उनसे अनुराग न करे ॥३८॥

अस्पकषाय वाला, अल्प इच्छा वाला, अज्ञात गृहस्थोंके यहा ही गोचरी के लिये जानेवाला तथा स्वादिष्ट पकानों की लोलुपतासे रहित प्रशावान् भिक्षु रसोंमें आसक्त न बने और न (उनके न मिलनेसे) खेद करे। अन्य किसी भिक्षु का उत्कर्ष देखकर वह ईर्ष्यालु न बने ॥३९॥

२० प्रज्ञा परीषद्

“मैंने अवश्य ही अज्ञान फलवाले कर्म किये हैं जिससे यदि कोई मुझे कुछ पूछता है तो मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। अथवा उसका उत्तर नहीं दे पाता ॥४०॥

परंतु अब पीछे ज्ञान फलवाले कर्मोंका उदय होगा—इस तरह कर्मके विपाकका चिन्तन कर भिक्षु ऐसे समयमें इस तरह मनको आश्वासन दे। ॥४१॥

२१ अज्ञान परीषद्

“मैं व्यर्थ ही मैथुनसे निवृत्त हुआ (गृहस्थाश्रम छोड़कर ब्रह्मचर्य धारण किया) व्यर्थ ही इंद्रियोंका दमन किया क्योंकि धर्म कल्याणकारी है या अकल्याणकारी, यह प्रत्यक्ष रूपमें तो कुछ दिखाई नहीं देता (अर्थात् जब धर्मका फल प्रत्यक्ष नहीं दीखता है तो मैं कष्ट क्यों सहूँ ?) ॥ ४२ ॥

(अथवा) तपश्चर्या ग्रहण करके तथा साधुकी प्रतिमाको धारण करके विचरते हुए भी मेरा अज्ञान क्यों नहीं छूटता ? ॥ ४३ ॥

इसलिये परलोक ही नहीं है, या तपस्वीकी ऋद्धि (आणिमा, गरिमा आदि) भी कोई चीज नहीं है, मैं साधुपन लेकर सचमुच ठगा गया इत्यादि प्रकारके विचार साधु मनमें कभी न लावे ॥ ४४ ॥

२२ अदर्शन परीषद्

बहुतसे तीर्थकर हो गये, हो रहे हैं और होंगे, ऐसा जो कहा जाता है यह श्रुत है, ऐसा विचार भिक्षु कभी न करे ॥ ४५ ॥

इन सब परीषदोंको काश्यप भगवान् महावीरने कहा है। इनमेंसे किसी भी परीषद् द्वारा कहीं भी पीड़ित होनेपर भिक्षु अपने संयमका घात न होने दे ॥ ४६ ॥

[उत्तराध्ययन सूत्र-२]

छह द्रव्य : सात तत्त्व : नौ पदार्थ

जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्यका निरूपण किया है तथा जिनकी देवों और इन्द्रोंके समूह वन्दना करते हैं उन जिनेन्द्र भगवान्को मस्तक नवाकर नित्य वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

जीव

जीव दर्शन और ज्ञानरूप उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्मोंका कर्ता है, स्वदेह परिमाण है, कर्मोंके फलका भोक्ता है, जन्म-मरणरूप संसारमें स्थित है, और सिद्ध होनेपर स्वभावतः ऊर्ध्वगामी है ॥ २ ॥

जिनके भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालोंमें स्पर्शनादि पाँच इंद्रिय मन, वचन और कायरूप बल, भवधारणकी शक्तिरूप आयु और श्वासोच्छ्वासरूप आनप्राण, ये चार प्रकारके प्राण होने हैं वह व्यवहारनयकी अपेक्षासे जीव कहलाता है। किन्तु निश्चयनयकी अपेक्षा तो जिसके चेतना है वही जीव है ॥ ३ ॥

उपयोग दो प्रकारका होता है—दर्शन और ज्ञान। दर्शनके चार भेद जानना चाहिये—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन ॥ ४ ॥

ज्ञान आठ प्रकारका होता है : (१) मति अज्ञान, (२) श्रुत अज्ञान, (३) अवधि अज्ञान, (४) मति ज्ञान, (५) श्रुत ज्ञान, (६) अवधि ज्ञान, (७) मनःपर्यय ज्ञान और (८) केवल ज्ञान। ये ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकारके हैं। (मति और श्रुत ज्ञान इन्द्रियों व मनकी सहायतासे उत्पन्न होनेके कारण परोक्ष हैं, तथा अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान साक्षात् आत्माकी विशुद्धिसे उत्पन्न होनेके कारण प्रत्यक्ष कहलाते हैं।) ॥५-६॥

सफेद, पीला, नीला, लाल और काला ये पांच वर्ण; तीखा, कड़ुआ, कषायला, खट्टा और मीठा ये पांच रस; सुगंध और दुर्गंध ये दो रस; तथा शीत, उष्ण, चिकना, रूखा, कोमल, कठोर, हलका, भारी ये आठ स्पर्श; ये बसि अजीव मूर्तिक पदार्थोंके गुण जीवमें नहीं हैं इसलिये जीव अमूर्ति माना गया है। किन्तु व्यवहारनयकी अपेक्षासे जीवमें पुद्गल कर्म-परमाणुओंका बंध होता है,

जिससे शरीर, इन्द्रिय आदिकी उत्पत्ति होती है, अतएव इस अपेक्षासे जीव मूर्ति-मान् भी कहा जा सकता है ॥७॥

व्यवहारनयकी अपेक्षासे जीव पुद्गल कर्मों आदिका कर्त्ता है, निश्चयनयकी अपेक्षासे जीव चेतनकर्मों अर्थात् चिन्तनात्मक क्रियाओंका कर्त्ता है, तथा शुद्ध-नयकी अपेक्षासे जीव शुद्ध भावोंका कर्त्ता है ॥८॥

जीव दो प्रकारके होते हैं : स्थावर और त्रस । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक ये नाना प्रकारके एकेन्द्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं । तथा संखादिक द्वीन्द्रिय, चींटी आदि त्रीन्द्रिय, भ्रमर आदि चतुरेन्द्रिय व पशु पक्षी आदि पंचेन्द्रिय जीव त्रस कहलाते हैं ॥९॥

२ अजीव

अजीव द्रव्य पांच प्रकारका जानना चाहिये — पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । इनमें पुद्गल द्रव्य मूर्तिमान् होता है और उसमें पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध और आठ स्पर्शरूप गुण पाये जाते हैं । शेष धर्मादि द्रव्य अमूर्त हैं ॥१०॥

पुद्गल

शब्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, उद्योत, आतप ये सब पुद्गल द्रव्यके ही पर्याय हैं ॥११॥

धर्म

जिस प्रकार गमनशील मछलियोंके गमनकार्यमें जल सहायक होता है, उसी प्रकार गतिकार्यमें वृत्त हुए पुद्गल और जीवकी गमनक्रियामें जो सहायक होता है वह धर्म द्रव्य है । किन्तु स्थिर रहनेवाले जीव व पुद्गलोंका वह गमन नहीं कराता ॥१२॥

अधर्म

जिस प्रकार पथिकोंके टहरनेमें छाया कारणीभूत होती है, उसी प्रकार पुद्गल और जीव द्रव्यके स्थित होनेमें अधर्म द्रव्य सहायकारी कारण है । किन्तु वह गमन करते हुए जीव व पुद्गलको रोकता नहीं ॥१३॥

आकाश

जीवादि द्रव्योंको अवकाश देनेमें समर्थ जो द्रव्य है उसे आकाश जानिये । यह आकाश दो प्रकारका है—लोककाश और अलोककाश । जितने आकाश प्रदेशमें धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव ये द्रव्य पाये जाते हैं वह लोक है, और उससे परे (जहां उक्त द्रव्योंका वास नहीं) वह अलोककाश है ॥१४॥

काल

द्रव्यके परिवर्तनरूप जो काल है, अर्थात् पदार्थोंमें नया पुराना भेद प्रकट करनेवाला जो पल, घटिका आदि काल विभाग होते हैं, वह व्यवहारकाल कहलाता है, तथा अन्य द्रव्योंके परिवर्तनमें सहकारी कारण होना ही जिसका लक्षण है वह परमार्थ या निश्चय काल द्रव्य है ॥ १६ ॥

लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर जो एक एक रत्नोंकी राशिके समान स्थित हैं वे कालाणु द्रव्य असंख्य हैं ॥ १७ ॥

ये द्रव्य हैं, इसलिये इन्हें जिनेन्द्र भगवान् 'अस्ति' कहते हैं, और वे कायके समान बहुप्रदेशी हैं, इसलिये वे काय कहलाते हैं। अतः जिन द्रव्योंमें यह अस्तित्व और कायत्व दोनो गुण हैं वे 'अस्तिकाय' कहलाते हैं ॥ १८ ॥

प्रत्येक जीवमें असंख्य प्रदेश हैं, तथा धर्म, अधर्म व आकाशमें अनन्त प्रदेश हैं, एवं मूर्तिमान् पुद्गल द्रव्यमें संख्य, असंख्य व अनन्त, तीनों प्रकारसे प्रदेश पाये जाते हैं। किन्तु काल द्रव्य एकप्रदेशात्मक ही होता है इसीलिये काल 'अकाय' कहलाता है ॥ १९ ॥

अणु एक प्रदेशी है, तथा नानाप्रकारके द्वयणुकादि स्कन्ध प्रदेशोंके भेदमें पुद्गल बहुप्रदेशी भी होता है। अतः कायके समान बहुप्रदेशोंके संचयरूप होनेसे सर्वज्ञ उसे उपचार से 'काय' कहते हैं ॥ २० ॥

अब जीव और अजीव द्रव्योंकी जो आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप रूप विशेष पर्याये होती हैं उन्हें भी संक्षेपतः कहते हैं ॥२१॥

३ आस्रव

जीव अपने जिस परिणामके द्वारा कर्मका आस्रव करता है उसे जिन भगवान् द्वारा कहा हुआ भाव-आस्रव जानना चाहिये, तथा उन परिणामोंके निमित्तसे जो कर्म पुद्गलोंका आस्रव होता है वह दूसरा द्रव्यास्रव है ॥२२॥

पांच प्रकारका मिथ्यात्व (विपरीत, एकान्त, विनय, संशय और अज्ञान), पांच प्रकारकी अविरति (हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील और परिग्रह), पन्द्रह प्रकारका प्रमाद (चार विकथा-स्त्रीकथा, भक्तकथा, राष्ट्रकथा और राजकथा; चार कषाय—क्रोध, मान, माया और लोभका मंद उदय; पांच इंद्रिय—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, और भोत्र इनकी प्रवृत्ति; निद्रा और प्रणय) तीन योग (मन, वचन और कायकी प्रवृत्तियाँ) और चार कषाय (क्रोध, मान, माया लोभका तीव्र उदय) ये पूर्वोक्त भावस्रवके भेद हैं ॥२३॥

ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके योग्य जो पुद्गल द्रव्यका आस्रव अर्थात् ग्रहण किया जाता है उसे द्रव्यास्रव जानना चाहिये। उसके जिनेन्द्र भगवानने अनेक भेद कहे हैं ॥२४॥

४ बंध

जिस चेतनभाव अर्थात् जीवके परिणाम द्वारा जीव कर्मबंध करता है वह भावबंध है। तथा कर्मोंके और आत्माके प्रदेशोंका जो अन्योन्य प्रवेश होता है वह द्रव्यबंध है ॥२५॥

बंध चार प्रकारका होता है: ग्रहण किये हुए पुद्गल परमाणुओंमें ज्ञानावरणीय आदि विविध शक्तियोंका उत्पन्न होना यह प्रकृति बन्ध है; उन परमाणुओंके जीवनप्रदेशोंके साथ रहनेकी काल-मर्यादा निश्चित होना स्थिति बन्ध है; उन कर्मोंमें हीनाधिक फलदायिनी शक्ति उत्पन्न होना अनुभाग बन्ध है; और ग्रहण किये जानेवाले परमाणुओंकी संख्याका निर्धारण प्रदेश बन्ध है। इनमें से प्रकृति और प्रदेश बन्ध मन, वचन व कायकी प्रवृत्तिरूप योगसे उत्पन्न होता है, और स्थिति तथा अनुभाग बंध क्रोध, मान, माया व लोभरूप कपायोंके उदयानुसार होते हैं ॥ २६ ॥

५ संवर

जीवनका जो चेतन-भाव कर्मोंके आस्रवको रोकनेमें हेतुभूत होता है वह भावसंवर है। तथा जो कर्मपरमाणुओंके ग्रहणकी क्रियाका अविरोध होता है वह द्रव्यसंवर है ॥ २७ ॥

पाच व्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, दश धर्म, बारह अनुप्रेक्षा तथा बावीस परीषद्दोंका जब, ये नाना भेदरूप चारित्र भावसंवरके प्रकार जानना चाहिये ॥२८॥

६ निर्जरा

जीवके जिस चेतनभावके द्वारा कर्मपुद्गल क्षर जाते हैं, अर्थात् जीवप्रदेशोंसे पृथक् होजाते हैं उसे भाव निर्जरा कहते हैं, और इस पृथक् होनेकी क्रियाको द्रव्य निर्जरा कहते हैं। यह निर्जरा दो कारणोंसे होती है—एक तो यथाकाल अर्थात् कर्मोंकी काल-मर्यादा पूर्ण होजानेके कारण इसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। और दूसरी तप के द्वारा काल-मर्यादा पूर्ण होने से पूर्व ही। इसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। यही निर्जरा आत्म-विशुद्धिमें कारणीभूत होती है ॥ २९ ॥

७ मोक्ष

जीवका जो परिणाम समस्त कर्मोंके क्षय होनेमें कारणीभूत होता है वह भावमोक्ष जानना चाहिये, तथा जीवसे कर्मप्रदेशोंके पृथक् होनेको द्रव्यमोक्ष समझना चाहिये ॥३०॥

पुण्य-पाप

शुभ भावोंसे युक्त जीव पुण्यरूप और अशुभ भावोंसे युक्त जीव पापरूप होते हैं । ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मोंके भेदोंमें से मातावेदनीय, शुभ अर्थात् निर्यग्, मनुष्य और देव ये तीन आयु, सैंतीस प्रकारका शुभ नाम (जैसे मनुष्य और देव गतियां, पंचेन्द्रिय जाति, पांच शरीर, तीन अंगोपाग आदि) और शुभ अर्थात् उच्च गोत्र, ये कर्मप्रकृतिया पुण्य और शेष ज्ञानावरणीयादि समस्त प्रकृतियां पाप कहलाती हैं ॥३१॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र, इन्हें व्यवहारनयकी अपेक्षा मोक्षके कारण जानना चाहिये । निश्चयनयकी अपेक्षा उक्त तीनों गुणोंसे युक्त अपना आत्मा ही मोक्षका कारण है ॥३२॥

जीवको छोड़कर किसी भी अन्य द्रव्यमें सम्यग्दर्शनादि गन्तव्य नहीं होते । इसीलिये उक्त तीन गुणमय आत्मा ही मोक्षका कारण है ॥३३॥

जीवादि तत्त्वोंमें श्रद्धान करना ही सम्यग्दर्शन है और यही आत्मस्वरूप अर्थात् स्वरूपाचरण सम्यक्त्व है । इसी सम्यक्त्वके होने पर जो दुरभिनिवेश, संशय, विमोह और विभ्रमसे रहित आत्म और पर अर्थात् जीव और अजीव द्रव्योंका भले प्रकार ग्रहण होता है वह साकार सम्यग्ज्ञान है, जो मति, श्रुत आदि भेद-प्रभेदों सहित अनेक प्रकारका होता है ॥३४-३५॥

अशुभ कार्योंसे निवृत्ति और शुभ कार्योंमें प्रवृत्तिको सम्यक्चारित्र कहते हैं । व्यवहारनयकी अपेक्षासे जिन भगवान्ने व्रत, समिति और गुणित्योंको सम्यक् चारित्र कहा है ॥३६॥

: १० :

कर्म प्रकृति

जिनसे बंधा हुआ यह जीव संसारमें परिभ्रमण किया करता है उन आठ कर्मोंका क्रमपूर्वक वर्णन करता हूँ । उसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ १ ॥

(१) ज्ञानावरणीय (२) दर्शनावरणीय (३) वेदनीय (४) मोहनीय तथा (५) आयुर्कर्म (६) नामकर्म (७) गोत्रकर्म तथा (८) अन्तरायकर्म । इस तरह ये आठ कर्म संक्षेपमें कहे हैं ॥ २-३ ॥

१ ज्ञानावरणीय कर्म-५

(१) मतिज्ञानावरणीय (२) श्रुतज्ञानावरणीय (३) अवधि ज्ञानावरणीय, (४) मनःपर्यय ज्ञानावरणीय, और (५) केवल ज्ञानावरणीय, ये पांच ज्ञानावरणीयके भेद हैं ॥ ४ ॥

२ दर्शनावरणीय कर्म-९

(१) निद्रा (२) प्रचला (३) निद्रानिद्रा (४) प्रचलाप्रचला (५) स्त्यानगृद्धि (६) चक्षुदर्शनावरणीय (७) अचक्षुदर्शनावरणीय (८) अवधिदर्शनावरणीय (९) केवलदर्शनावरणीय—ये दर्शनावरणीय कर्मके ९ भेद हैं ॥ ५-६ ॥

३ वेदनीय कर्म-२

सातावेदनीय (जिसे भोगते हुए सुख उत्पन्न हो) तथा असातावेदनीय (जिसके कारण दुःख हो) ये दो भेद वेदनीय कर्मके हैं । सातावेदनीयके बहुतसे भेद हैं और असातावेदनीयके भी ॥ ७ ॥

४ मोहनीय कर्म-२५

दर्शन मोहनीय तथा चारित्र्य मोहनीय—ये दो भेद मोहनीय कर्मके हैं । दर्शन मोहनीयके तीन तथा चारित्र्य मोहनीयके दो उपभेद हैं ॥ ८ ॥

दर्शन मोहनीयके सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और सम्यक्त्व-मिथ्यात्व मोहनीय, ये तीन भेद हैं ॥ ९ ॥

चारित्र्य मोहनीयके कषाय मोहनीय तथा नो कषाय मोहनीय ये दो भेद हैं ॥ १० ॥

क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार कषायोंके प्रत्येक अनन्तानुबन्धी, अपत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलनके भेदसे कषायोत्पन्न कर्म सोलह प्रकारका

है। तथा हास्य, गति, अरति, खेद, भय, ग्लानि, और वेदके भेदसे सात प्रकार तय वेदके भी पुरुष, स्त्री व नपुंसक भेदसे नौ प्रकारका नोकषायोत्पन्न कर्म है ॥ ११ ॥

५ आयुर्कर्म-४

नरकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवआयु, ये चार भेद आयुर्कर्मके हैं ॥ १२ ॥

६ नामकर्म-९३

नाम कर्मके दो प्रकार हैं—शुभ, और अशुभ। इन दोनोंके भी बहुतसे उपभेद हैं ॥ १३ ॥

[नाम कर्मके ब्यालीस (४२) भेद, तथा उपभेदोंकी अपेक्षासे तेरात्र (९३) भेद, इस प्रकार हैं—

१. चार गति (नरक, तिर्यक्, मनुष्य और देव); २. पांच जाति (एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय); ३. पांच शरीर (औदारिक वैक्रियिक, आहारक, तंजस और कर्मण); ४. औदारिकादि पांचों शरीरके पांच बन्धन व ५. पांच संघात; ६. छह शरीरसंस्थान (समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति कुब्ज, वामन और हुण्ड); ७. तीन शरीराङ्गापाग (औदारिक, वैक्रियिक और आहारक) ८. छह संहनन (वज्र-वृषभ-नाराच, नाराच-नाराच, नाराच, अर्धनाराच क्लीप्त और असंप्राप्तास्त्रपाटिका); ९. पांच वर्ण (कृष्ण, नील, रक्त, हरित और शुक्ल) १०. दो गंध (सुगन्ध और दुर्गंध); ११. पांच रस (तिक्त, कटु, कषाय, आम और मधुर); १२. आठ स्पर्श (कठोर, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत और उष्ण); १३. चार आनुपूर्वी (नरकगतियोग्य, तिर्यग्गतियोग्य, मनुष्यगतियोग्य और देवगतियोग्य); १४. अगुरुलघु, १५. उपघात; १६. परघात; १७. उच्छ्वास १८. आताप, १९. उद्योत, २०. दो विहाययोगि (प्रशस्त और अप्रशस्त); २१. व्रत २२. स्थावर, २३. वादर, २४. सूक्ष्म, २५. पर्याप्त, २६. अपर्याप्त, २७. प्रत्येक शरीर, २८. साधारण शरीर, २९. स्थिर, ३०. अस्थिर, ३१. शुभ, ३२. अशुभ, ३३. सुमग, ३४. दुर्भग, ३५. सुस्वर, ३६. दुःस्वर, ३७. आदेश, ३८. अनादेश, ३९. यशःकीर्ति, ४०. अयशःकीर्ति ४१. निर्माण और ४२. तीर्थकर।

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तर्गम्य ये चार तो जीवके गुणोंका घात करनेवाले होनेसे उनकी समस्त उत्तर प्रकृतिया अशुभ ही हैं।

७ गोत्रकर्म-२

गोत्रकर्मके दो भेद हैं :—उच्च और नीच। जाति, कुल, धन, प्रभुता, रूप, बल, विद्या और तपकी भेषताके अनुसार उच्च गोत्र आठ प्रकारका है, तथा इनकी हीनताके अनुसार नीच गोत्र भी आठ प्रकारका है ॥ १४ ॥

८ अन्तरायकर्म-५

अन्तरायकर्मके संक्षेपतः पांच भेद कहे गये हैं : दानान्तराय, त्वाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय तथा बीर्भान्तराय ॥ १५ ॥

इसप्रकार आठ कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियोंका वर्णन किया। अब उनके प्रदेश, क्षेत्र, काल तथा भावका वर्णन सुनिये ॥ १६ ॥

कर्म-प्रदेश

आठों कर्मोंके सब मिलाकर अनंत प्रदेश हैं, और उनकी संख्याका प्रमाण संसारके अभव्य जीवोंकी संख्यासे अनंत गुणा है और सिद्ध भगवानोंकी संख्याका अनन्तवां भाग है ॥ १७ ॥

कर्म-क्षेत्र

समस्त जीवोंके कर्म संपूर्ण लोककी अपेक्षासे छहों दिशाओं में सब आत्म प्रदेशोंके साथ सब तरहसे बंधते रहते हैं ॥ १८ ॥

कर्म-स्थिति

उन आठ कर्मोंमें से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, और अन्तराय कर्मोंकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी, और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरकी कही गई है ॥ १९-२० ॥

मोहनीय कर्मकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी है ॥ २१ ॥

आयु कर्मकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर तककी है ॥ २२ ॥

नाम और गोत्र, इन दोनों कर्मोंकी जघन्य स्थिति आठ अन्तर्मुहूर्तकी है, और उत्कृष्ट आयु तीस कोड़ाकोड़ी सागरकी है ॥ २३ ॥

कर्मोंका अनुभाग

सब कर्मस्फुटोंके अनुभाग (परिणाम अथवा रस देनेकी शक्ति) का प्रमाण सिद्धगति प्राप्त अनंत जीवोंकी संख्याका अनन्तवां भाग है, किन्तु यदि सर्व कर्मोंके परमाणुओंकी अपेक्षासे कहे तो उनका प्रमाण यावन्मात्र जीवोंकी संख्यासे भी अधिक आता है ॥ २४ ॥

इस प्रकार इन कर्मोंके रसोंको जानकर मुमुक्षु जीव ऐसा प्रयत्न करे जिससे कर्मका बंध न हो और पूर्व में बाधे हुए कर्मोंका भी क्षय होता जाय। ७।३।५० ॥२५ ॥

[उत्तराध्ययन सूत्र-३३]

गुणस्थान

दर्शन मोहनीयादि कर्मोंकी उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्थानुसार होनेवाले जिन परिणामोंमें युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जीवोंको सर्वज्ञ देवने उसी गुणस्थानवाला और परिणामोंको गुणस्थान कहा है ॥ १ ॥

मिथ्यात्व, सासादन, मिथ्र, आविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत अप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसापराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवली और अयोगकेवली, ये चौदह जीवसमास (गुणस्थान) हैं । और इनसे ऊपर सिद्ध जीव हैं ॥ २-३ ॥

[यहाँ चौथे गुणस्थानके साथ अविरतशब्द अन्त्यदीपक है, इसलिये पूर्वके तीन गुणस्थानोंमें भी अविरतभाव समझना चाहिये । तथा छठे गुणस्थानके साथका विरत शब्द आदि दीपक है, इसलिये यहासे लेकर सम्पूर्ण गुणस्थान विरत ही होते हैं, ऐसा समझना ।]

१ मिथ्यात्व

मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे तत्त्वार्थके विपरीत भ्रद्धानको मिथ्यात्व कहते हैं । इसके पाच भेद हैं : एकान्त, विपरीत, विनय, संशय और भ्रजान ॥ ४ ॥

मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाले मिथ्या परिणामोंका अनुभव करनेवाला जीव विपरीत भ्रद्धानवाला हो जाता है । उसको जिस प्रकार पित्तज्वरसे युक्त जीवको भीठा रस भी अच्छा मालूम नहीं होता, उसी प्रकार यथार्थ धर्म वचिकर नहीं लगता ॥ ५ ॥

२ सासादन

सम्यक्स्वरूपी रत्नपर्वतके शिखरसे गिरकर जो जीव मिथ्यात्वरूप भूमिके सम्मुख हो चुका है, अतएव जिसने सम्यक्स्वका नाश कर दिया है (किन्तु मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं किया है) उसको सासन या सासादन गुणस्थानवर्ती कहते हैं ॥ ६ ॥

३ सम्यक् मिथ्यात्व

जिसका आत्माके गुणको सर्वथा घातनेका कार्य दूसरी सर्वघाति प्रकृतियोंसे विलक्षण जातिका है उम जात्यन्तर सर्वघाति सम्यामिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे केवल

सम्यक्त्वरूप या मिथ्यात्वरूप परिणाम न होकर जो मिभ-रूप परिणाम होता है उसको तीसरा मिश्रगुणस्थान करते हैं ॥७॥

जिस प्रकार दही और गुड़को परस्पर मिला देने पर फिर उन दोनोंको पृथक् नहीं कर सकते (उस द्रव्यके प्रत्येक परमाणुका रस मिभरूप खट्टा और मीठा मिला हुआ होता है) उसी प्रकार मिभ परिणामोंमें भी एक ही कालमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप परिणाम रहते हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥८॥

सम्यक्मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती जीव सकल संयम या देश संयमको ग्रहण नहीं करता, और न इस गुणस्थानमें आयुर्कर्मका बन्ध ही होता है । तथा इस गुणस्थान वाला जीव यदि मरण करता है तो नियमसे सम्यक्त्व या मिथ्यात्वरूप परिणामोंको प्राप्त करके ही मरण करता है, किन्तु इस गुणस्थानमें मरण नहीं होता । ॥९॥

४ अविरत-सम्यक्त्व

सम्यग्दर्शनगुणको विपरीत करनेवाली प्रकृतियोंमें मे देशघाति सम्यक्त्व प्रकृति के उदय होनेपर (तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्क और मिथ्यात्व एवं मिभ, इन सर्वघाति प्रकृतियोंके आगामी निषेकोंका सदवस्थारूप उपशम और वर्तमान निषेकोंकी बिना फल दिये ही निर्जरा होनेपर) जो आत्माके परिणाम होते हैं उनको वेदक (या क्षायपशमिक) सम्यग्दर्शन कहते हैं । वे परिणाम चल, मलिन या अगाढ़ होते हुए भी नित्य ही (अर्थात् जघन्य अन्तर्मुहूर्तसे लेकर उत्कृष्ट छयासठ सागर पर्यंत) कर्मोंकी निर्जरा कारण हैं ॥१०॥

तीन दर्शन मोहनीय, अर्थात् मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व, तथा चार अनन्तानुबन्धी कषाय, इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम, और सर्वथा क्षयसे क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है । इस (चतुर्थ-गुणस्थानवर्ती) सम्यग्दर्शनके साथ संयम बिलकुल ही नहीं होता; क्योंकि यहाँपर दूसरे अपत्याख्यानावरण कषायका उदय है । अतएव इस गुणस्थानवर्ती जीवको असंयत सम्यग्दृष्टि कहते हैं ॥११॥

सम्यग्दृष्टि जीव आचार्योंके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्धान करता है, किन्तु अज्ञानतावश गुरुके उपदेशसे विपरीत अर्थका भी श्रद्धान कर लेता है ॥१२॥

जो इंद्रियोंके विषयोंसे तथा त्रस-स्थावर जीवोंकी हिंसासे विरक्त नहीं है, किन्तु जिनेन्द्रदेवद्वारा काधित प्रवचनका श्रद्धान करता है, वह अविरतसम्यग्दृष्टि है ॥१३॥

५ देशविरत

जो जीव जिनेंद्रदेवमें अद्वितीय श्रद्धा रखता हुआ त्रसकी हिसासे विरत और उस ही समयमें स्थावरकी हिसासे अविरत होता है, उस जीवको विरताविरत कहते हैं ॥१४॥

६ प्रमत्त-विरत

सकल संयमको रोकनेवाली प्रत्याख्यानोवरण कषायका उपशम होनेसे पूर्ण संयम तो हो चुका है, किन्तु उस संयमके साथ संज्वलन और नोकषायके उदयसे संयममें मलको उत्पन्न करनेवाला प्रमाद भी होता है, अतएव इस गुणस्थानको प्रमत्ताविरत कहते हैं ॥१५॥

चार विकथा (स्त्रीकथा, भक्तकथा, राष्ट्रकथा, अविनिपालकथा) चार कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ) पांच इंद्रिय (स्पर्श, रस, प्राण, चक्षु और श्रोत्र) एक निद्रा और एक प्रणय (स्नेह), ये पंद्रह प्रमादोंकी संख्या है ॥१६॥

७ अप्रमत्त

जिस संयतके सम्पूर्ण प्रमाद नष्ट हो चुके हैं, जो पांच महाव्रतों तथा अष्टा-इस मूलगुणों एवं शीलसे मंडित है और ध्यानमें लीन है, किन्तु जो अभी कर्मोंके उपशमन या क्षपणमें प्रवृत्त नहीं हुआ अर्थात् उपशम या क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ा, वह सातवें गुणस्थानवर्ती अप्रमत्त संयत है ॥१७॥

८ अपूर्वकरण

जिसका अन्तर्मुहूर्तमात्र काल है ऐसे अधःप्रवृत्तकरणको धिताकर वह सातिहाय अप्रमत्त प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ अपूर्वकरण नामक अष्टमगुणस्थान पर पहुंचता है ॥ १८ ॥

इस गुणस्थानमें भिन्नसमयवर्ती जीव, भिन्न और पूर्व समयमें कभी प्राप्त नहीं हुए ऐसे अपूर्व परिणामोंको धारण करते हैं, इसलिये इस गुणस्थानका नाम अपूर्वकरण है ॥१९॥

९ अनिवृत्तिकरण

अन्तर्मुहूर्तमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे आदि या मध्य या अन्तके एक समयवर्ती अनेक जीवोंमें जिसप्रकार शरीरकी अवगाहना आदि बाह्यकारणोंसे तथा ज्ञानावरणादिक कर्मके क्षयोपशमादि अन्तस्त्र कारणोंसे परस्परमें भेद पाया जाता है, उस प्रकार जिन परिणामोंके निमित्तसे परस्परमें भेद नहीं पाया जाता उनको

अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते हैं। और अनिवृत्तिकरणका जितना काल है उतने ही उसके परिणाम हैं। इसलिये उसके कालके प्रत्येक समयमें अनिवृत्तिकरणका एक ही परिणाम होता है। तथा ये परिणाम अत्यन्त निर्मल ध्यानरूप-अग्निकी शिलाओंकी सहायतासे कर्मबन्धको भस्म कर देते हैं ॥२०-२१॥

१० सूक्ष्मसाम्पराय

जिस प्रकार धुले हुए केशरी वस्त्रमें सूक्ष्म लालिमा रह जाती है, उभी प्रकार जो अत्यन्त सूक्ष्म राग (लोभ कषाय) से युक्त है उसको सूक्ष्मसाम्पराय नामक दशम गुणस्थानवर्ती कहते हैं ॥ २२ ॥

चाहे उपशमभ्रेणीका आरोहण करनेवाला हो अथवा क्षपकश्रेणीका आरोहण करनेवाला हो, परन्तु जो जीव सूक्ष्म लोभके उदयका अनुभव कर रहा है वह दशमें गुणस्थानवर्ती जीव यथाख्यात चारित्र्यसे कुछ ही न्यून रहता है ॥२३॥

११ उपशान्त मोह

निर्मली फलसे युक्त जलके समान, अथवा शरदृक्तुमें सरोवरके जलके समान जिसके मोहनीय कर्मके उपशमसे उत्पन्न होनेवाले निर्मल परिणाम हो जाते हैं वह ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती उपशान्त कषाय होता है ॥२४॥

१२ क्षीणमोह

जिस निर्मन्थका चित्त मोहनीय कर्मके सर्वथा क्षीण होनेसे स्फटिकके निर्मल पात्रमें रक्खे हुए जलके समान निर्मल हो गया है उसको वीतराग देवने, क्षीणकषायनामक बारहवें गुणस्थानवर्ती कहा है ॥२५॥

१३ सयोगकेवली

जिसका केवलज्ञानरूपी सूर्यकी किरणोंके समूहसे अज्ञान अन्धकार सर्वथा नष्ट हो गया हो, और जिसको नव केवल लब्धियोंके (ध्यायिक सम्यक्त्व, चरित्र, ज्ञान दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य) प्रकट होनेसे 'परमात्मा' यह संज्ञा प्राप्त हो गई है, वह इन्द्रिय आलोक आदिकी अपेक्षा न रखनेवाले ज्ञान-दर्शनसे युक्त होनेके कारण केवली, और काययोगसे युक्त रहनेके कारण सयोगी, (तथा घातिकर्मोंका विजेता होनेके कारण) जिन कहा जाता है, ऐसा अनादिनिघन आर्ष आगममें कहा है ॥२६-२७॥

१४ अयोग केवली

जो जीव अठारह हजार शीलौका स्वामी हो चुका है, जिसके कर्मोंके आनेका द्वाररूप आस्रव सर्वथा बन्द हो चुका है, जिसके कर्मरूपी रजकी प्रायः निर्जरा हो चुकी है तथा जिसका काययोग भी समाप्त हो गया है, वह चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली होता है ॥२८॥

सिद्ध

जो ज्ञानावरणादि अष्टकर्मोंसे रहित है, अनन्तसुखरूपी अमृतके अनुभव करनेवाले शान्तिमय हैं, नवीन कर्मोंके कारण भूत मिथ्यादर्शनादि भावकर्म रूपी अङ्गनसे रहित हैं, नित्य हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अव्याबाध, अवगाहन, सूक्ष्मत्व, और अगुरुलघु, ये आठ मुख्य गुण जिनके प्रकट हो चुके हैं, जो कृतकृत्य हैं, और लोकके अप्रभागमें निवास करनेवाले हैं, उनको सिद्ध कहते हैं ॥२९॥

[नेमिचन्द्राचार्यकृत जीवकाण्ड]

मार्गणा-स्थान

जिन भावोंके द्वारा जिन पर्यायोंमें जिस प्रकारसे जीवोंका भुतज्ञानमें विचार किया गया है वे तथा निर्दिष्ट चौदह मार्गणायें जानने योग्य हैं ॥१॥

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेख्या, भव, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार, ये चौदह मार्गणा हैं ॥२॥

१ गति मार्गणा

गति नामकर्मके उदयसे होनेवाली जीव की पर्यायको, अथवा चारों गतियोंमें गमन करनेके कारणको, गति कहते हैं। उसके चार भेद हैं: नरकगति, तिर्यग्गति मनुष्यगति और देवगति ॥३॥

२ इन्द्रिय मार्गणा

इन्द्रियके दो भेद हैं—एक भावेन्द्रिय, दूसरी द्रव्येन्द्रिय। मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली विशुद्धि, अथवा उस विशुद्धिसे उत्पन्न होनेवाले उपयोगात्मक ज्ञानको भावेन्द्रिय कहते हैं। और, शरीर नाम कर्मके उदयसे होनेवाले शरीरके चिह्नविशेषको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं ॥४॥

जिन जीवोंके बाह्य चिह्न (द्रव्येन्द्रिय) और उसके द्वारा होनेवाला स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द, इन विषयोंका ज्ञान हो उनको क्रमसे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं। इनके भी अनेक अवातर भेद हैं ॥५॥

३ काय मार्गणा

जाति नामकर्मके अविनाभावी त्रस और स्थावर नामकर्मके उदयसे होने वाली आत्माकी पर्यायको जिनमतमें काय कहते हैं। इसके छह भेद हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस ॥६॥

पृथिवी, अप्, तेज (अग्नि) और वायु, इनका शरीर नियमसे अपने अपने पृथिवी आदि नामकर्मके उदयसे, अपने अपने योग्य रूप, रस, गन्ध व स्पर्श इन चार गुणोंसे युक्त पृथिवी आदिकमें ही बनता है ॥७॥

जो जीव दो, तीन, चार व पांच इंद्रियोंसे युक्त हैं उनको वीर भगवान्‌के उपदेशसे त्रसकाय समझना चाहिये ॥८॥

४ योग मार्गणा

पुद्गलविषयाकी शरीरनामकर्मके उदयसे मन, वचन व कायसे युक्त जीवकी जो कर्मोंके प्रहण करनेमें कारणभूतशक्ति है उसीको योग कहते हैं ॥ ९ ॥

सत्य, असत्य, उभय, और अनुभय, इन चार प्रकारके पदार्थोंमेंसे जिस पदार्थको जानने या कहनेके लिये जीवके मन वचनकी प्रवृत्ति होती है उस समयमें मन और वचनका वही नाम होता है। और उसके सम्बन्धसे उस प्रवृत्तिका भी वही नाम होता है ॥१०॥

समीचीन भावमनको (पदार्थको जाननेकी शक्तिरूप ज्ञानको) अर्थात् समीचीन पदार्थको विषय करनेवाले मनको सत्यमन कहते हैं। और उसके द्वारा जो योग होता है उसको सत्यमनोयोग कहते हैं। सत्यसे जो विपरीत है उसको मिथ्या कहते हैं। तथा सत्य और मिथ्या दोनों ही प्रकारके मनको उभय मन जानना चाहिये ॥११॥

जो न तो सत्य हो और न मृषा हो उसको असत्यमृषा मन कहते हैं। और उसके द्वारा जो योग होता है उसको असत्यमृषामनोयोग कहते हैं ॥१२॥

दश प्रकारके सत्य अर्थके वाचक वचनको सत्यवचन और उससे होनेवाले योगको सत्यवचनयोग कहते हैं। तथा इससे जो विपरीत है उसको मृषा और जो कुछ सत्य और कुछ मृषाका वाचक है उसको उभय वचनयोग जानिये ॥१३॥

जो न सत्यरूप हो, न मृषारूप ही हो, उसको अनुभय वचनयोग जानिये। असंशियोंकी समस्त भाषा और संशियोंकी आमन्त्रणी आदिक भाषा अनुभय भाषा कही जाती हैं ॥१४॥

जनपदसत्य, सम्मतिसत्य, स्थापनासत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य, व्यवहारसत्य, संभावनासत्य, भावसत्य और उपमासत्य, इस प्रकार सत्यके दश भेद हैं ॥१५॥

पके हुए चावलको भात कहना, रानीको देवी कहना, पाषाणादिकी प्रतिमाको चन्द्रप्रभु भगवान्‌ कहना, किसी पुरुषविशेषका नाम जिनदत्त रखना, लोभर्णनुसार किसी वस्तुको श्वेत कहना, आपेक्षिक लम्बाईके अनुसार दीर्घ कहना, लकड़ी लाने हुए या आग जलते हुए मनुष्यको कहना 'यह भात पका रहा है'

शक्यताके विचारसे कहना 'इन्द्र जम्बूद्वीपको पलट सकता है, आगमके अनुसार किसीको पापकर्मसे रोकनेके वचन कहना, पत्न्यकी उपमानुसार मापविशेषको पत्न्योपम कहना, ये उक्त दश प्रकारके जनपदादि सत्यवचनके क्रमशः दश दृष्टान्त हैं ॥१६-१७॥

आमन्त्रणी, आज्ञापनी, याचनी, आपृच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशय-वचनी, इच्छानुलोम्नी और अनक्षरगता, ये नव प्रकारकी अनुभयात्मक भाषा हैं, क्योंकि इनके सुननेवालेको व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही अंशोंका ज्ञान होता है ॥१८-१९॥

औदारिक, वैक्रियिक, आहारक व तैजस नामकर्मके उदयसे होनेवाले चार शरीरोंको कर्म कहते हैं। और कार्मण शरीर नामकर्मके उदयसे होनेवाले ज्ञानावरणादिक आठ कर्मोंके समूहको कार्मण शरीर कहते हैं ॥२०॥

५ वेदमार्गणा

पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेदकर्मके उदयसे भावपुरुष, भावस्त्री व भाव नपुंसक होता है। और नामकर्मके उदयसे द्रव्यपुरुष, द्रव्यस्त्री व द्रव्यनपुंसक होता है। यह भाववेद और द्रव्यवेद प्रायः करके समान होता है, परन्तु कहीं विषम भी होता है। (जैसे, नपुंसक वेदका उदय नारकी व सम्मूर्छन द्रव्य नपुंसक के अतिगित् पुरुष शरीरी व स्त्री शरीरी जीवोंमें भी होता है) ॥२१॥

६ कषायमार्गणा

जीवके सुख दुःख आदि अनेक प्रकारके धान्यको उत्पन्न करनेवाला होनेसे तथा जिसकी संसाररूप मर्यादा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मरूपी क्षेपका यह कर्षण करता है, इसलिये इसको कषाय कहते हैं ॥२२॥

क्रोध चार प्रकारका होता है—एक पत्थरकी रेखाके समान, दूसरा पृथ्वीकी रेखाके समान, तीसरा धूलिरेखाके समान और चौथा जलरेखाके समान। ये चारों प्रकारके क्रोध क्रमसे, नरक, तिर्यक्, मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न करानेवाले हैं ॥ २३ ॥

मान भी चार प्रकारका होता है—पत्थरके समान, हड्डीके समान, काठके समान, तथा बेटके समान। ये चार प्रकारके मान भी क्रमसे नरक, तिर्यक्, मनुष्य तथा देव गतिके उत्पादक हैं ॥ २४ ॥

माया भी चार प्रकारकी होती है—वासकी जड़के समान, मेढके सींगके समान, गोमूत्रके समान और खुरपाके समान। यह चार प्रकारकी माया भी क्रमसे जीवको नरक, तिर्यक्, मनुष्य और देवगतिमें ले जाती है ॥२५॥

लोभ कषाय भी चार प्रकारका होता है—क्रिमिरोगके समान, चक्रमल (रथ आदिकके पहियोंके भीतरकी ओगन) के समान, शरीर मलके समान, और हृद्दीके समान। यह भी क्रमसे नरक, तिर्थक, मनुष्य व देव गतिकका उत्पादक है ॥ २६ ॥

नरक, तिर्थक, मनुष्य तथा देवगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें क्रमसे क्रोध, मान, माया और लोभका उदय होता है। अथवा अनियम भी होता है ॥२७॥

७ ज्ञान मार्गणा

ज्ञानके पांच भेद हैं—मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय तथा केवल। इनमें आदिके चार ज्ञान क्षायोपशामिक हैं, और केवलज्ञान क्षायिक है ॥२८॥

इंद्रिय और आनिन्द्रिय (मन) की सहायतासे अभिमुख और नियमित पदार्थका जो ज्ञान होता है उसको आभिनिबोधिक कहते हैं। इसमें प्रत्येकके अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चार भेद हैं ॥२९॥

पदार्थों और इन्द्रियोंके योग्य क्षेत्रमें अवस्थानरूप संयोग होनेपर नियमसे अवग्रहरूप मतिज्ञान होता है। अवग्रहज्ञानके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थमें विशेष जाननेकी आकाक्षा रूप ईहा मतिज्ञान होता है ॥३०॥

ईहा ज्ञानके अनन्तर वस्तुके विशेष चिन्होंको देखकर जो उसका विशेष निर्णय होता है उसको अवाय कहते हैं। जिसके द्वारा निर्णय वस्तुका कालान्तरमें भी विस्मरण न हो उसको धारणा ज्ञान कहते हैं ॥३१॥

मतिज्ञानके विषयभूत पदार्थके आधारसे किसी दूसरे पदार्थके ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान नियमसे मतिज्ञान पूर्वक होता है। इस श्रुतज्ञानके अक्षरात्मक अनक्षरात्मक इस प्रकार, अथवा शब्दजन्य और लिङ्गजन्य इस प्रकार दो भेद हैं। इनमें मुख्य शब्दजन्य श्रुतज्ञान है ॥३२॥

द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावकी अपेक्षासे जिसके विषयकी सीमा हो (किन्तु जो इंद्रियोंकी सहायताके बिना साक्षात् आत्म-विशुद्धि द्वारा हो) उसको अवधि-ज्ञान कहते हैं। इसीलिये परमागममें इसको सीमाज्ञान कहा है। इस ज्ञानके जिनेन्द्रदेवने दो भेद कहे हैं—एक भवप्रत्यय, दूसरा गुणप्रत्यय ॥३३॥

जिसका चिन्तन किया हो, अथवा जिसका चिन्तन नहीं किया गया, अथवा वर्तमानमें जिसका आधा चिन्तन किया है, इत्यादि अनेक भेदस्वरूप

दूरके मनमें स्थित पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानको मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। यह मनःपर्यय ज्ञान मनुष्यक्षेत्रमें ही होता है, बाहर नहीं ॥३४॥

जो ज्ञान सम्पूर्ण, समग्र, केवल, प्रतिपक्षरहित, सर्वपदार्थगत, और लोका-लोकमें अन्वकार रहित होता है, उसे केवलज्ञान जानना चाहिये ॥३५॥

८ संयम मार्गणा

अहिंसा, अचौर्य, सत्य, शील (ब्रह्मचर्य) और अपरिग्रह, इन पांच महाव्रतोंका धारण करना; ईर्ष्या, भाषा, एतणा, आदान-निक्षेपण और उत्सर्ग, इन पांच समितियोंका पालना; चार प्रकारकी कषायोंका निग्रह करना; मन वचन कायरूप दण्डका त्याग करना; तथा पाच इंद्रियोंको जीतना; इसको संयम कहते हैं ॥३६॥

९ दर्शन मार्गणा

सत्तात्मक वस्तुओंके आकारका बोध किये बिना, तथा पदार्थोंकी विशेषताओंको जाने बिना, जो आत्मावधानरूप सामान्य ग्रहण होता है उसे जैन सिद्धान्तमें दर्शन कहते हैं ॥३७॥

जो आत्मावधानं चक्षुर्गिन्द्रिय द्वारा प्रकाशित होता है, या जब पदार्थ आँखों द्वारा देखा जाता है तब उसे चक्षुदर्शन कहते हैं। और चक्षुके सिवाय दूसरी चार इन्द्रियोंके अथवा मनके द्वारा जो प्रकाशित होता है उसको अचक्षुदर्शन कहते हैं ॥३८॥

अवधिज्ञान होनेके पूर्व समयमें अवधिके विषयभूत परमाणुसे लेकर महास्कन्धपर्यन्त मूर्तद्रव्यको जो देखता है उसको अवधिदर्शन कहते हैं ॥ ३९ ॥

तीव्र, मंद व मध्यम आदि अनेक अवस्थाओंकी अपेक्षा तथा चंद्र, सूर्य आदि पदार्थोंकी अपेक्षा, अनेक प्रकारके प्रकाश जगत्में परिमित क्षेत्रमें रहते हैं, किन्तु जो लोक और अलोक दोनों जगह प्रकाश करता है, ऐसे प्रकाश को केवल दर्शन कहते हैं ॥ ४० ॥

१० लेश्या मार्गणा

लेश्याके गुणको (स्वरूपको) जाननेवाले गणधरादि देवोंने लेश्याका स्वरूप ऐसा कहा है कि जिसके द्वारा जब अपनेको, पुण्य और पापसे लिप्त करे, पुण्य और पापके अधीन करे, उसको लेश्या कहते हैं ॥४१॥

कषायोद्दयमे अनुक्त योग प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं । इसलिये दोनोंका कार्य प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन चार प्रकारका बंध करना कहा गया है ॥४२॥

लेश्याओंके नियमसे ये छह निर्देश अर्थात् भेदोंके नाम हैं— कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या (पीतलेश्या), पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या ॥४३॥

अशुभ लेश्या सम्बन्धी तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, ये तीन स्थान, तथा शुभलेश्या सम्बन्धी मन्द, मन्दतर और मन्दतम, ये तीनस्थान होते हैं, क्योंकि कृष्ण लेश्यादि छह लेश्याओंके शुभस्थानोंमें जघन्यसे उत्कृष्टपर्यन्त और अशुभ स्थानोंमें उत्कृष्टसे जघन्यपर्यन्त प्रत्येकमें पटस्थानपतित हानिवृद्धि होती है ॥४४॥

कृष्ण आदि छह लेश्यावाले छह पथिक वनके मध्यमें मार्गसे भ्रष्ट होकर फलोंसे पूर्ण किसी वृक्षको देखकर अपने अपने मनमें निम्न प्रकार विचार करते हैं— कृष्णलेश्यावाला विचार करता है कि मैं इस वृक्षको मूलसे उखाड़कर इसके फलोंका भक्षण करूंगा । नीललेश्यावाला विचारता है कि मैं इस वृक्षको स्कन्धसे काटकर इसके फल खाऊंगा । कापोत लेश्यावाला विचार करता है कि मैं इस क्षकी बड़ी बड़ी शाखाओंको काटकर इसके फलोंको खाऊंगा । पीतलेश्यावाला विचार करता है कि मैं इस वृक्षकी छोटी उपशाखाओंको काटकर इसके फलोंका खाऊंगा । पद्मलेश्या वाला विचारता है कि मैं इस वृक्षके फलोंको तोड़कर खाऊंगा । शुक्ल लेश्यावाला विचार करता है कि मैं इस वृक्षके स्वयं टूटकर गिरे हुए फलोंको खाऊंगा । इस प्रकार जो मनपूर्वक वचन और कार्यकी प्रवृत्ति होती है वह लेश्याका कर्म है ॥४५-४६॥

तीव्र क्रोध करनेवाला हो, वैरको न छोड़े, लड़ाकू स्वभाव हो, धर्म और दयासे रहित हो, दुष्ट हो, जो किसीके भी वश न हो, ये सब कृष्ण लेश्या वालेके लक्षण हैं ॥४७॥

काम करनेमें मन्द हो, बुद्धिविहीन हो, कला-चातुर्यसे रहित हो, और स्वर्शनादि पांच इन्द्रियोंके विषयोंका लोलुपी हो, ये संक्षेपमें नीललेश्याके लक्षण कहे गये हैं ॥४८॥

दूसरेके ऊपर क्रोध करता है, दूसरोकी निन्दा करता है, अनेक प्रकारसे दूसरोको दोष लगाता है स्वयं बहुत शोकाकुलित तथा भयमस्त होता है, कार्य अकार्यका कुछ विचार नहीं करता, ये सब कापोत लेश्या वालेके लक्षण हैं ॥४९॥

अपने कार्य व अकार्य, भेय या अभेयको समझनेवाला हो, सबके विषयमें समदर्शी हो, दया और दानमें तत्पर हो, कोमल परिणामी हो, ये पीतलेस्या वाक्रेके लक्षण हैं ॥५०॥

दानशील हो, सज्जन हो, चौखा अर्थात् विशुद्ध हो, कर्मशील हो, दूसरोंके बहुते अपराधोंको भी क्षमा कर दे, माधुओं और गुहजनोंका आदर-सम्मान करनेमें मुव माने, ये पद्मश्रेण्यावाले मनुष्यके लक्षण हैं ॥५१॥

पक्षपात नहीं करता और न अपना स्वार्थ साधता है, किन्तु सब जीवोंके प्रति समताभाव रखता है तथा इष्टसे राग, अनिष्टसे विद्वेष एवं कुटुम्बाटिमें भासक्ति नहीं रखता, ये शुक्लेश्या वालेके लक्षण हैं ॥५२॥

११ भव्यत्व मार्गणा

बिना जीवोंकी अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यरूप, अनन्त चतुष्टयकी सिद्धि होनेवाली है वे भव्यसिद्ध हैं, और जो इसके विपरीत हैं अर्थात् संसारसे कभी सिद्ध होनेवाले नहीं हैं वे अभव्य हैं ॥५३॥

१२ सम्यक्त्व मार्गणा

छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय व नव पदार्थ इनका जिनेन्द्र भगवान्ने जिस प्रकारसे वर्णन किया है उस ही प्रकारसे इनके भ्रद्धान करने को सम्यक्त्व कहते हैं । यह दो प्रकारसे होता है—एक तो केवल आज्ञासे अर्थात् आगम वाक्य होने मात्रसे भ्रद्धान, और दूसरा अभिगमसे अर्थात् युक्ति व तर्क सहित परीक्षापूर्वक ज्ञान करके भ्रद्धान ॥५४॥

दर्शन मोहनीय कर्मके क्षीण हो जाने पर जो निर्मल भ्रद्धान होता है उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं । यह सम्यक्त्व नित्य अन्व कर्मोंके क्षय होनेका कारण है ॥५५॥

दर्शन मोहनीय कर्मकी सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे पदार्थोंका जो चल मलिन अगाढरूप भ्रद्धान होता है उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं ॥५६॥

दर्शन मोहनीय कर्मके उपशमसे जो पदार्थोंका भ्रद्धान होता है उसको उपशम सम्यक्त्व कहते हैं । यह सम्यक्त्व इस तरहका निर्मल होता है जैसा कि निर्मली आदि पदार्थोंके निमित्तसे क्वीचड आदि मलके नीचे बैठ जानेपर जल निर्मल होता है ॥५७॥

जो जीव सम्यक्त्वसे तो व्युत्त हो गया है, किन्तु मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं हुआ है, उसको स्मसन कहते हैं । यह जीव औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भावोंमेंसे पांचवें पारिणामिक भावोंसे युक्त होता है ॥५८॥

विरताविरतके समान जिस जीवके तत्त्वोंके विषयमें श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों हों उसको सम्यग्मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये ॥५९॥

जो जीव जिनेन्द्रदेवके कहे हुए आस, आगम व पदार्थका श्रद्धान नहीं करता; किन्तु कुगुरुओंके कहे हुए या बिना कहे हुए भी मिथ्या पदार्थका श्रद्धान करता है, उसको मिथ्यादृष्टि कहते हैं ॥६०॥

१३ संज्ञा मार्गणा

नोइन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपक्षमको व तज्जन्य ज्ञानको संज्ञा कहते हैं । और जिनके यह संज्ञा न हो, किन्तु केवल यथासम्भव इन्द्रियजन्य ज्ञान हो, उनको असंज्ञी कहते हैं ॥६१॥

हितका ग्रहण और अहितका त्याग करानेके प्रकारको शिक्षा कहते हैं । इच्छापूर्वक हाथ पैर आदि अंगों के चलानेको क्रिया कहते हैं । वचन द्वारा बताये हुए वस्तु स्वरूप या कर्तव्यको उपदेश कहते हैं, और श्लोक आदिके पाठको आलाप कहते हैं । जो जीव इन शिक्षादिकको मनके अवलम्बनसे ग्रहण-घारण करनेकी योग्यता रखता है, उसको संज्ञी कहते हैं । और जिस जीवों में यह योग्यता न हो उसको असंज्ञी कहते हैं ॥६२॥

जो जीव प्रवृत्ति करनेके पहले अपने कर्तव्य और अकर्तव्यका विचार करे, तथा तत्त्व और अतत्त्वका स्वरूप समझ सके, और उसका जो नाम रक्खा गया हो उस नामके द्वारा बुलानेपर आ सके, उसको समनस्क कहते हैं । और इससे जो विपरीत है उसको अमनस्क या असंज्ञी कहते हैं ॥६३॥

१४ आहार मार्गणा

शरीर नामक नामकर्मके उदयसे द्रव्यात्मक देह, वचन और मन वननेके योग्य पुद्गलकी नोकर्मवर्गणाओंका जो ग्रहण होता है उसको आहार कहते हैं ॥६४॥

विग्रहगति अर्थात् एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरका ग्रहण करनेके लिये गमनको प्राप्त होनेवाले चारों गति सम्बन्धी जीव, प्रतर अर्थात् वर्गप्रदेशानुसार और लोकपूरण अर्थात् घनप्रदेशानुसार अपने आत्मप्रदेशों द्वारा समस्त लोकको भर देने रूप समुद्घात करनेवाले सयोगकेवली, अयोगकेवली, और सिद्ध, ये जीव तो अनाहारक होते हैं, और इनको छोड़कर शेष समस्त जीव आहारक होते हैं ॥६५॥

: १३ :

ध्यान

जैसे अमेद्य कवचसे सुरक्षित योद्धा संग्रामके अग्रभागमें युद्ध करता हुआ भी शत्रुओं द्वारा अलंघ्य होता है, व प्रहरणादि क्रियामें समर्थ होकर उन वैरियोंको जीत लेता है, उसी प्रकार कर्मोंके क्षय करनेमें प्रवृत्त हुआ साधु-क्षपक धैर्यरूपी कवचसे सुसज्जित होकर परीषहरूपी शत्रुओंके लिये अलंघ्य हो जाता है, तथा ध्यानमें समर्थ होकर उन वैरियोंको जीत लेता है ॥ १-२ ॥

ध्यानमें तल्लीन पुरुष सदैव राग, द्वेष, इन्द्रिय, भय व कषायोंको जीत लेता है, तथा राति, अरति व मोहका विनाश कर देता है ॥ ३ ॥

धर्मध्यान चार प्रकारका होता है और शुद्धध्यान भी चार प्रकारका होता है। ये ध्यान दुखोंको दूर करनेवाले हैं। अतएव संसारके जन्म, जरा व मरण आदि दुखोंसे भयभीत हुआ पुरुष इन दोनों ध्यानोंका अभ्यास करता है ॥ ४ ॥

अशुभध्यान

क्षुधा तृषा आदि परीषहोंसे संतापित होनेपर भी आर्त और रौद्र इन दो ध्यानो में कभी प्रवृत्त न होवे, क्योंकि भले प्रकार तपश्चर्या करनेवाले साधुको भी आर्त और रौद्रध्यान नष्ट कर डालते हैं ॥ ५ ॥

१. आर्तध्यान

आर्तध्यान चार प्रकारका होता है और रौद्रध्यान भी चार प्रकारका है। संस्तर अर्थात् शैयागत क्षपक ध्यानके इन सब भेदोंको पूर्णरूपसे जान ले। अमनोश अर्थात् अनिष्ट का प्राप्तिसे, इष्टके वियोगसे, परीषह अर्थात् दुःखकी वेदनासे एवं भोगोंकी अभिलाषासे जो कषाययुक्त भाव होता है वही संक्षेपमें चार प्रकारका आर्तध्यान कहा गया है ॥ ६-७ ॥

२. रौद्रध्यान

स्तैनिक्य अर्थात् चोरी, मृषा अर्थात् झूठ, और स्वरक्षण अर्थात् अपनी धन-सम्पत्तिकी रक्षा, इन कार्योंमें तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति एवं इंद्रियादि त्रस इन छह कायके जीवोंका घात करनेमें जो कषाययुक्त परिणाम होते हैं वही संक्षेपसे रौद्र ध्यान कहा गया है ॥ ८ ॥

ये दोनों आर्त और रौद्रध्यान महाभयकारी तथा स्वर्गादिक सद्गतिकी प्राप्तिमें विघ्नरूप हैं, अतएव इनका अपहरण करके सदैव धर्म और शुद्ध ध्यानमें अपने चित्तकी वृत्तिको लगावे ॥ ९ ॥

शुभध्यान

स्पर्शादि इन्द्रियों, क्रोधादि कषायों व मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिरूप योगोंके निरोधकी इच्छा करता हुआ, तथा कर्मोंकी अधिकमें अधिक निर्जरा, चित्तके वशीकरण एवं सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चरित्ररूप सन्मार्गके अविनाशका विचार करता हुआ साधु अपनी दृष्टिको बाह्य पदार्थोंसे यथाशक्ति रोककर ध्यानमें लगावे, और संसारसे छुटकारा पानेके लिये आत्माका स्मरण करे। अपनी इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे हटा ले, मनकी प्रवृत्तिको इन्द्रियोंके व्यापारमें रोक ले और उसे आत्म-चित्तनमें लगा दे। इस प्रकार मन, वचन व कायकी समस्त बाह्य प्रवृत्तियोंको रोक कर उन्हें आत्मध्यानमें ही धारण करे ॥१०-१२॥

३. धर्मध्यान

उक्त प्रकारसे एकाम होकर मनकी चंचलताका निरोध करके चार प्रकारका धर्मध्यान करे। आज्ञा अर्थात् आगमोपदेश, अपाय अर्थात् पाप और पुण्यका विवेक, विपाक अर्थात् नाना कर्मोंका नाना प्रकार फल, एवं संस्थान अर्थात् लोक-रचनाका स्वरूप, इनका विचय अर्थात् मनमें विचार पूर्वक शोध करना, यही चार प्रकारका धर्म ध्यान है ॥१३॥

धर्मका लक्षण इस प्रकार है—आर्जव अर्थात् निष्कपट सरल भाव, लघुना अर्थात् निष्परिग्रह अथवा अल्पपरिग्रह वृत्ति, मार्दव अर्थात् आठ प्रकारके मद रहित कोमल परिणाम, उपशम अर्थात् क्रोधादि कषाय रहित शान्त भाव, तथा शास्त्रके उपदेश द्वारा अथवा स्वभाक्तः पदार्थोंके स्वरूप जाननेकी रुचि अर्थात् तत्त्वजिज्ञासा। धर्मके इन लक्षणोंसे युक्त मनुष्य ही धर्मध्यानका पात्र है ॥१४॥

धर्मध्यानका अवलंबन पांच प्रकारका है—वाचना, पृच्छना, परिवर्तन अर्थात् पाठकी पुनरावृत्ति या आम्लाय, अनुप्रेक्षा अर्थात् प्राप्त किये हुए पदार्थ ज्ञानका अनुचिन्तन, और शास्त्रसे अविच्छिन्न धर्मकथा आदि सभी बातोंका विचार ॥१५॥

पांच अस्तिकाय, छह जीविकाय, छह द्रव्य तथा अन्य पदार्थोंका स्वरूप जो आज्ञा अर्थात् शास्त्रोंके वचनों द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है यह सब 'आज्ञा-विचय' नामक धर्मध्यानमें चिन्तन करने योग्य है ॥१६॥

जैन मतानुसार कल्याणकी प्राप्तिमें उत्पन्न उपायों एवं उस प्राप्ति में होनेवाले अपायों अर्थात् विघ्न बाधाओं तथा जीवोंके शुभ और अशुभ परिणामोंका विचार करना 'अपाय-विचय' नामक धर्मध्यान है ॥१७॥

जीवोंके एक या अनेक भवोंमें पुण्य और पाप रूप कर्मोंके फलका, तथा कर्मोंकी उदय, उदीरण, संक्रमण, बन्ध व मोक्षरूप अवस्थाओंका चिन्तन 'विपाक-विचय' नामक धर्मध्यान में किया जाता है ॥१८॥

अधोलोक, तिर्यग्लोक व ऊर्ध्वलोक इन तीनों लोकोंका उनके भेदोपभेदों तथा आकारादि संस्थानका एवं उन्हींकी आनुषांगिक बारह अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करना 'संस्थान-विचय' नामक धर्मध्यान है ॥१९॥

वे बारह अनुप्रेक्षाएं इस प्रकार हैं—अप्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आलव, संवर, निर्जरो, धर्म और बोध । इनका भी विचार संस्थान-विचय धर्मध्यानके भीतर करने योग्य है ॥२०॥

४. शुक्रध्यान

पूर्वोक्त प्रकारसे धर्मध्यान करके क्षपक जब लेश्याकी उज्ज्वलताको प्राप्त हो जाता है तब वह धर्म ध्यानका उल्लंघन कर शुक्रध्यान करना प्रारंभ करता है ॥२१॥

शुक्रध्यान चार प्रकारका है—पहला पृथक्त्व-वितर्कवाचर, दूसरा एकत्व-वितर्कवाचर, तीसरा सूक्ष्मक्रिया और चौथा समुच्छिन्नक्रिया ॥२२-२३॥

जिनका मोहनीय कर्म उपशान्त हो गया है ऐसे साधु जो अनेक द्रव्योंका अपने मन वचन-कायरूप तीनों योगों द्वारा ध्यान करते हैं, इस कारण तो उसे पृथक्त्व कहते हैं । और चूंकि पूर्वगत श्रुतांगके अर्थ करनेमें कुशल श्रुतकेवली साधु वितर्क अर्थात् श्रुतके आधारसे विचार करते हैं, इसलिये यह ध्यान वितर्क रूप है । एवं अर्थ अर्थात् ध्येय द्रव्य या उसकी पर्याय विशेष, व्यंजन अर्थात् पदार्थको प्रकट करनेवाले वचन व योग अर्थात् मन, वचन, कायकी प्रवृत्ति, इनमें सक्रम अर्थात् एकसे दूसरे पर ध्यानका परिवर्तन रूप वीचार होता है, इसलिए इस ध्यानको सूत्रमें वीचार भी कहा है । तात्पर्य यह कि जिस ध्यानमें द्रव्यसे पर्याय व पर्यायसे द्रव्य, एक श्रुतवचनसे दूसरे श्रुतवचन, एक योगसे दूसरे

योगका ध्यान परिवर्तन होला रहता है वह पृथक्त्व-वितर्क-वीचार नामक प्रथम शुद्ध ध्यान है ॥२४-२६॥

चूकि क्षीणकषाय साधु एक ही द्रव्य या द्रव्यपर्यायका किसी एक योग द्वारा ही ध्यान करता है, इसलिये तो एकत्व कहलाता है। और पूर्वोक्त प्रकारमे श्रुतकेवली साधु श्रुतके आधारसे विचार करता है, इसलिये वितर्क रूप है। एवं अर्थ, व्यंजन व योगोंका संक्रम नहीं होता इसलिये अवीचार है। तात्पर्य यह कि जिस ध्यानमें श्रुतचित्तन अर्थात् वितर्क तो होता है, किन्तु ध्यानका विषयभूत द्रव्य तथा चिन्तनका साधनभूत योग एक ही रहता है—उसका वीचार अर्थात् विपरिवर्तन नहीं होता—वह एकत्व-वितर्क-अवीचार नामक द्वितीय शुद्ध-ध्यान है ॥२७-२९॥

जिस ध्यान में न तो वितर्क है और न वीचार, किन्तु केवल सूक्ष्म काय-योग होनेसे सूक्ष्म क्रिया माश्रका अवलंबन होता है, तथापि ध्यानका विषय समस्त द्रव्य और पर्याय एक ही समय होते हैं, वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरा शुद्धध्यान है ॥३०॥

वितर्करहित, वीचार रहित, क्रिया रहित, समस्तशीलोंकी पूर्णताका सहभावी, योगोंके निरोध सहित जो ध्यान होता है वह अन्तिम व्युपरतक्रियानिर्वृत्ति नामक चतुर्थ उत्तम शुद्धध्यान है। इस अन्तिम व अप्रतिपाति अर्थात् कभी न छूटनेवाले शुद्ध-ध्यानको योगोंका निरोध तथा औदारिक, तैजस और कर्मण इन तीनों शरीरोंका नाश करनेवाला चोदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगिकेवली करता है ॥३१-३२॥

इम प्रकार क्रोधादि कषायोंके साथ युद्ध करनेमें क्षपकके लिये ध्यान ही आयुध है। ध्यान-रहित क्षपक उसी प्रकार असफल होता है जैसे बिना आयुध का योद्धा ॥३३॥

जैसे रणभूमिमें रक्षाका साधन कवच है उमी प्रकार कषायोंके साथ युद्ध करनेमें ध्यान ही आत्मरक्षाका साधन है। और जिस प्रकार युद्धमें बिना कवचका योद्धा नाशको प्राप्त होता है, वैसे ही ध्यान किये बिना क्षपक अपनेको कषायोंसे बचा नहीं सकता ॥३४॥

[शिवार्यकृत भगवती आराधना]

: १४ :

स्याद्वाद

जो जीवादिक द्रव्यमूह नाना प्रकारके भावसे संयुक्त कहे गये हैं, उनके स्पष्टीकरणके हेतु प्रमाण और नय के लक्षण भी बतलाये गये हैं ॥१॥

द्रव्योंके समस्त स्वभावोंमें सबसे अधिक व्यापक स्वभाव अस्तित्व है, क्योंकि सभी द्रव्योंमें 'अस्ति' अर्थात् भावात्मक सत्ता पाई जाती है और 'अस्तित्व' गुण समस्त भावात्मक पदार्थोंमें विद्यमान है ॥२॥

इस प्रकार जो द्रव्य सत्तारूप है वह प्रमाणका विषय है, अर्थात् उसकी पूरी जानकारी प्रमाण द्वारा प्राप्त होती है। इसी प्रमाण ज्ञानका एक अंश नय कहलाता है, और नयकी यह आशिक ज्ञानात्मकता शब्दोंमें 'स्यात्' वचनके द्वारा प्रकट की जाती है ॥३॥

किसी भी द्रव्यका ज्ञान सामान्य व विशेष रूप होता है, और इन दो प्रकारके ज्ञानोंमें कोई विरोध नहीं है। पदार्थोंकी यह द्विरूपकता और उनमें अवरोध की सिद्धि सम्यक्त्व अर्थात् शुद्धदृष्टि द्वाराही हो सकती है। सम्यक्त्वसे विपरीत मिथ्यादृष्टि द्वारा यह सिद्धि नहीं हो सकती ॥४॥

यह सयगदृष्टि अपेक्षा वाचक 'स्यात्' शब्दोंके द्वारा प्रकट होती है। जहा इसका प्रयोग नहीं किया जाता वहा अपेक्षा रहित एकान्तरूप वचन होनेसे मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है। अतएव सामान्य और विशेष, इन दोनोंका विषय 'स्यात्' शब्दके प्रयोग द्वारा समझना चाहिये। अर्थात् जब किसी वस्तुके विषयमें कोई विशेष बात कही जाय तब 'स्यात्' शब्दके द्वारा यह भी प्रकट कर देना उचित है कि उस वस्तुका वह स्वरूप एक अपेक्षा विशेषसे है, तथा उस वस्तुमें अन्य सामान्य गुण भी हैं ॥५॥

वस्तुके गुण-धर्म चाहे नयविषयक हों और चाहे प्रमाणाविषयक, किन्तु वे होते परस्पर सापेक्ष ही हैं। अतएव सापेक्षत्व ही तत्त्व है, और निरपेक्षता उसके विपरीत अर्थात् अतत्त्व है ॥ ६ ॥

यह जो 'स्यात्' शब्द है वह निपातनसे अर्थात् बिना किसी प्रकृति-प्रत्यय विवेकके रूढ़िसे ही वस्तुके विधि और निषेधात्मक स्वरूपको प्रकट करनेवाला माना गया है। अतएव यह शब्द वाक्यार्थमें सापेक्षताकी सिद्धि करता है ॥ ७ ॥

प्रमाण, नय व दुर्नय युक्त वस्तुके स्वरूपको प्रकट करनेवाले सात ही भंग अर्थात् वचनोंकी शैलियां होती हैं। उनमें स्यात् शब्दके प्रयोगसे परस्पर सापेक्षता स्थापित हो जाती है और वे वचन प्रमाण रूप हो जाते हैं। उनके एक एक वचन भंग नयसे अर्थात् वस्तुके किसी एक अंश-विशेषको सापेक्षरूपसे प्रकट करनेके कारण वे सब वाक्य नयरूप हैं। किन्तु जब उनमें स्यात् शब्दका अभाव होनेसे सापेक्षता नहीं रहती और वे एकान्तवाची हो जाते हैं, तब वे दुर्नयरूप हैं ॥८॥

वे सात प्रमाण-भंगिया निम्न प्रकारसे जानना चाहिये:—

- १ स्याद् अस्ति ।
- २ स्याद् नास्ति ।
- ३ स्याद् अस्ति-नास्ति ।
- ४ स्याद् अवक्तव्य ।
- ५ स्याद् अस्ति अवक्तव्य ।
- ६ स्याद् नास्ति-अवक्तव्य ।
- ७ स्याद् अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य ॥९॥

‘स्य’ द्रव्यका लक्षण है। अतएव प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सत्ताकी अपेक्षासे ‘अस्ति’ स्वभाव है। किन्तु वही द्रव्य परद्रव्य आदिकी अपेक्षा ‘नास्ति’ स्वभाव है ॥१०॥

जब ‘स्व’ और ‘पर’ ये दोनों नयोंकी अपेक्षा कथन किया जाय तब द्रव्य ‘अस्ति नास्ति’ रूप कहा जाता है। किन्तु यदि माना जाय कि ये दोनों दृष्टियां वचनमें एक साथ प्रश्न नहीं की जा सकती, तो द्रव्य ‘अवक्तव्य’ कहा जाना चाहिये। और जब इस अवक्तव्यता पर उक्त तीनों नयों के साथ साथ दृष्टि रखना अपेक्षित हो तब ‘अस्ति-अवक्तव्य’, ‘नास्ति-अवक्तव्य’ और ‘अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य’ ये तीन भंग उत्पन्न हो जाते हैं ॥११॥

ये ही अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, अवक्तव्य तथा अस्ति-अवक्तव्य, नास्ति-अवक्तव्य और अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य रूप वचन-भंग जब ‘स्यात्’ शब्दसे रहित होने के कारण नय सापेक्ष न होकर निरपेक्ष होते हैं तब वे दुर्नयभंग अर्थात् अशुद्ध व दूषित वचनभंग कहलाते हैं ॥१२॥

जब स्व, पर आदि अनेक विवक्षाओंमेंसे ‘अस्ति’ ‘नास्ति’ रूप कोई एक विवक्षा स्वीकार की जाती है, तो उसका प्रतिपक्षी स्वभाव भी तो अनुपमिक

रूपसे उसका अनुकरण करता ही है। अतएव सब वस्तुओंके स्वभाव-कथनमें इस सापेक्षत्वको 'स्यात्' शब्दके द्वारा अवश्य साधना चाहिये ॥१३॥

धर्मा अर्थात् द्रव्य धर्मस्वभाव अर्थात् गुणात्मक—नाना गुणोंके समूहरूप-होता है। और वे अनेक धर्म अपने अपने एक एक स्वरूपमें उस द्रव्यमें रहते हुए भी परस्पर एक दूसरेसे भिन्न हैं। अतः उनको उनके गौण व मुख्य भावसे जानना चाहिये। अर्थात् जब किसी एक धर्मपर ध्यान दिया जाता है तो वही धर्म मुख्य हो जाता है और दूसरे सब धर्म गौण हो जाते हैं ॥१४॥

वस्तु-स्वरूपके कथनमें जो अनेक नयोंका अवलम्बन लिया जाता है उनमेंसे प्रत्येकमें जब स्यात् शब्द जोड़ा जाता है तभी वे नय द्रव्यके स्वभावको यथार्थ रूपमें प्रकट करते हैं। जब नय व प्रमाण शुद्ध होते हैं तभी वे युक्ति रूप होते हैं। और युक्तिके विना तत्त्वका निरूपण नहीं होता ॥१५॥

तत्त्व हेय और उपादेय दोनों प्रकार का होता है। इनमेंसे परद्रव्य तो निश्चयतः हेय ही कहा गया है। किन्तु स्वद्रव्य भी नयोंके अनुसार हेय या उपादेय जानना चाहिये ॥१६॥

एकान्त, विपरीत आदि मिथ्या ज्ञानसे युक्त तथा रागद्वेषादि वृत्तियों सहित आत्मरूप भी नियमसे त्यागने योग्य है। इनसे विपरीत अर्थात् शुद्धज्ञानमय वीतराग आत्मा ध्यान करने योग्य है, ऐसा सिद्धिके अभिलाषी जीवको जानना चाहिये ॥१७॥

जिस नयके द्वारा एक वस्तुके अनेक धर्मोंमें 'स्यात्' शब्दके प्रयोगसे भेदका उपचार किया जाता है वह 'व्यवहारनय' कहा गया है। तथा इसके विपरीत जिस नयमें वस्तुके असली स्वरूपपर दृष्टि रखकर अभेद स्थापित किया जाता है वह 'निश्चयनय' है ॥१८॥

निश्चयनयके अनुसार जो एकरूप और ध्येयरूप है वही व्यवहारनयके अनुसार अन्यप्रकार अर्थात् न नारूप और अध्येय कहा गया है। निश्चय नयानुसार निज आत्मा सभ्यदर्शन, ज्ञान और चारित्र्य इन तीन गुणोंके कारण सिद्धरूप ही है तथा व्यवहार नयानुसार संसारी आत्मा अपने रागादि विभावोंके कारण सिद्ध नहीं है। संसारी और सिद्ध जीव पृथक् पृथक् हैं ॥१९॥

द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक व व्यवहार ये तीन नय भूतार्थ अर्थात् वस्तु स्वरूप को प्रकट करनेवाले हैं। अन्य अनेक नय व्यवहारानुसार कहे गए हैं। किन्तु

शुद्ध रूपसे नय दो ही हैं, निश्चय और व्यवहार । तथा वस्तुके अस्तित्व द्रव्यत्व आदि उत्कृष्ट स्वरूपको बोध करानेवाला एक निश्चय नय ही है ॥२०॥

जो भाव जिस वस्तुका कहा गया है, वह प्रधानतया तो द्रव्य रूप ही है । इसलिये वही भाव ध्येय कहा गया है जो परमभावग्राही निश्चय नयका विषय है ॥२१॥

तत्त्वोंका अन्वेषण करनेके कालमें इस नय विषयक न्यायशास्त्रको युक्ति-पूर्वक समझ लेना चाहिये, क्योंकि अभ्यास कालमें वस्तुके स्वरूपका साक्षात् अनुभव नहीं होता (उसका जो कुछ ज्ञान होता है वह श्रुतके ही आधारसे होता है) ॥२२॥

वस्तुके अन्य धर्मोंकी अपेक्षा न करते हुए एकान्त रूपसे एक धर्मका ग्रहण करने मात्रसे नाना धर्मसंयुक्त द्रव्यका यथार्थ ज्ञान सिद्ध नहीं होता । यथार्थ ज्ञान तो अनेकान्त द्वारा ही होता है । अतएव 'स्यात्' शब्द द्वारा प्रकट किये जानेवाले अनेकान्तको अच्छी तरह समझ लीजिये ॥२३॥

[देवसेनकृत नयचक्र]

२४५-२६७

: १५ :

नय-वाद

इन्द्रिय विषयोंसे विरक्त समस्त कर्म-मलसे विमुक्त तथा विशुद्ध केवल-ज्ञानसे संयुक्त वीर जिनेन्द्रको प्रणाम करके पश्चात् नयोंका लक्षण कहता हूँ ॥ १ ॥

नय लक्षण

वस्तुके किसी एक अंशका बोध करानेवाला जो श्रुतभेद ज्ञानियों द्वारा विकल्प रूपसे ग्रहण किया जाता है वह यहां नय कहा गया है। इन्हीं नयों रूप ज्ञान-प्रणालियों द्वारा मनुष्य ज्ञानी बनता है ॥ २ ॥

चूंकि नय-ज्ञानके बिना मनुष्यको स्याद्वादके स्वरूपका बोध नहीं होता, इसलिये जो कोई एकान्त रूप मिथ्याज्ञानका विनाश करना चाहता है उसे नयोंका स्वरूप अवश्य जानना चाहिये ॥ ३ ॥

जिस प्रकार यदि घर्मविहीन जीव सुखकी अभिलाषा करे, या जलके न रहते हुए प्यास बुझाने की इच्छा करे, तो उसकी इच्छा कभी सफल नहीं हो सकती, उसी प्रकार यदि नयोंके ज्ञानसे रहित मूर्ख मनुष्य द्रव्योंका निश्चित ज्ञान प्राप्त करनेकी वाछा करे तो वह कदापि सफलीभूत न होगा ॥ ४ ॥

मूल नय केवल दो ही कहे गये हैं—एक द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक नय। अन्य जो अनेक अगणित नय माने गये हैं वे सब इन्हीं मुख्य दो नयोंके भेदोपभेद ही समझना चाहिये ॥ ५ ॥

उक्त द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो मुख्य नय, तथा नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुमूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत ये सात नय इस प्रकार नयोंके नौभेद हैं। एव तीन उपनय होते हैं। ६ ॥

द्रव्यार्थिक नयके दश भेद हैं, पर्यायार्थिकके छह, नैगमनयके तीन तथा संग्रहनयके दो व व्यवहार एवं ऋजुमूत्रके दो दो भेद हैं। शेष सब नय एक एक ही हैं। ये नयोंके $१०+६+३+२+२+२+३=२८$ भेद कहे। अब उपनयोंके भेद कहते हैं ॥ ७-८ ॥

सद्भूत, असद्भूत और उपचरित, ये उपनयके तीन भेद हैं। इनमेंसे सद्भूत दो प्रकारका, असद्भूत तीन प्रकारका और उपचरित भी तीन प्रकारका होता है इस प्रकार उपनयके भेदोपभेद $२+३+३=८$ होते हैं ॥ ९ ॥

द्रव्यार्थिक नयका विषय द्रव्य ही होता है, पर्यायार्थिक नयका विषय द्रव्य का पर्याय होता है तथा सद्भूत उपनयका विषय दो प्रकारके पदार्थ, असद्भूत उपनयका नौ प्रकारके तथा उपचरित उपनयका विषय तीन प्रकारके पदार्थ होते हैं ॥१०॥

लौकिक विषयोंमें जो पर्यायको गौण करके द्रव्यका मुख्यतासे ग्रहण किया जाता है उसे द्रव्यार्थिक नय कहा है, और इसके विपरीत अर्थात् द्रव्यको गौण करके जो पर्यायका मुख्यतासे ग्रहण किया जाता है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं ॥११॥

द्रव्यार्थिक नय-१०

कर्मोंके बीचमें फँसे हुए जीवको जो सिद्ध-मुक्त जीवके समान ग्रहण करता है वह कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ॥१२॥

उत्पाद और व्ययको गौण करके जो केवल सत्ता मात्रको ग्रहण करता है वह सत्ता-ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ॥१३॥

गुण, गुणी, द्रव्य और पर्याय, इन चार प्रकारके पदार्थोंमें जो भेद नहीं करता वह भेद-विकल्पनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय है ॥ १४॥

जीवके जो ज्ञान-दर्शन आदि भाव हैं उनमें गणादिक विभावोंको भी जो जीवके ही भाव कहता है वह कर्मोपाधि-सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ॥१५॥

उत्पाद और व्यय सहित सत्ताको ग्रहण करके जो द्रव्यमें एक ही ममय तीनों धर्म अर्थात् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वीकार करता है वह उत्पाद-व्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ॥१६॥

गुण और गुणी आदिमें परस्पर भेद रहते हुए भी जो द्रव्यमें उनके बीच सम्बन्ध स्थापित करता है वह भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ॥१७॥

गुण व पर्यायरूप समस्त वस्तुस्वभावोंमें जो अन्वयरूपसे यह भी द्रव्य है, यह भी द्रव्यही है, इस प्रकार द्रव्यकी ही स्थापना करता है वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहा गया है ॥ १८ ॥

जो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इस स्वचतुष्टयकी अपेक्षासे द्रव्यको सत् रूप ग्रहण करता है वह स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। तथा इसके विपरीत जो परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव इस परचतुष्टय की अपेक्षासे द्रव्यको अमत् रूप ग्रहण करता है वह परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक नय है ॥१९॥

जो द्रव्यके स्वभावको उसके अशुद्ध, शुद्ध व उपचार स्वरूपसे रहित केवल परम अर्थात् प्रमुख भावरूप मात्र ग्रहण करता है उसे, सिद्धि की अभिलाषा रखनेवालेको, परमभावग्राहक द्रव्यार्थिक नय समझना चाहिये ॥२०॥

पर्यायार्थिक नय-६

जो चन्द्र, सूर्य आदिकी पर्यायोंको अक्रान्तिम अर्थात् अनादि व अनिधन अर्थात् अनन्त स्वीकार करता है उसे जिन भगवान् ने अनादिनित्य पर्यायार्थिक नय कहा है ॥२१॥

कर्मोंके क्षय हो जाने पर विनाशका कारण न रहनेसे जीव अविनाशी हो जाता है, इस प्रकार जो जीवकी मुक्त पर्यायको सादि व नित्य बतलाता है वह सादिनित्य पर्यायार्थिक नय है ॥२२॥

सत्ताको अमुख्य करके जो द्रव्यकी उत्पाद और व्यय अवस्थाओंको ही ग्रहण करता है और इसलिये द्रव्यको अनित्य स्वभाव बतलाता है वह अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है ॥२३॥

जो द्रव्यको एक ही काल में उत्पाद व्यय और ध्रौव्य, इन तीनों गुणोंसे संयुक्त मानता है वह अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है ॥२४॥

जो समस्त संसारी जीवोंकी पर्यायोंको सिद्धोंके समान शुद्ध कहता है, वह अनित्य-शुद्ध पर्यायार्थिक नय है ॥२५॥

चारों गतियोंके जीवोंकी पर्यायोंको जो कर्मोंकी उपाधिके संयोगके कारण अनित्य और अशुद्ध बतलाता है वह विभाव-अनित्य-अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है ॥२६॥

१. नैगम नय-३

जो द्रव्य या कार्य पूर्वका उभे समाप्त हो चुका हो उसका वर्तमान कालमें होते जैसा ग्रहण करनेवाला भूत नैगम नय है। जैसे सहस्रों वर्ष पूर्व हुए भगवान् महावीरके निर्वाणको निर्वाण चतुर्दशीके दिन कहना 'आज वीर भगवान् का निर्वाण हुआ है' ॥२७॥

जिस कार्यको अभी प्रारंभ ही किया है उसको लोगोंके पूछने पर पूरा हुआ कहना, जैसे भोजन बनाना प्रारंभ करने पर ही यह कहना कि 'आज भोजन बनाया है' यह वर्तमान नैगम नय कहलाता है ॥२८॥

जो कार्य भविष्यकालमें होनेवाला है, उसके अभी निष्पन्न नहीं होने पर भी निष्पन्न हुआ कहना, जैसे जो अभी गया नहीं है उसे गया कहना, भावि नैगम नय है ॥२९॥

२. संग्रह नय-२

भिन्न भिन्न वस्तुओंमें उनके विशेष गुण-घटकोंके कारण भारी विरोध होनेपर भी उनके सामान्य 'सत्ता' गुणके कारण सभीको अस्तिरूप माननेवाला शुद्ध संग्रह नय है। तथा उन वस्तुओंमें अवान्तर समानताओंके आधारसे एक अलग जाति विशेषका ग्रहण करनेवाला अशुद्ध संग्रह नय है ॥३०॥

३. व्यवहार नय-२

संग्रह नयके द्वारा ग्रहण की हुई समस्त द्रव्योंकी एक जातिमें विधिवत् भेद करनेवाला, शुद्धार्थभेदक व्यवहार नय है। जैसे द्रव्यके दो भेद हैं—जीव और अजीव। तथा उन अवान्तर जातियोंमें भी उपभेद करनेवाला अशुद्धार्थभेदक व्यवहार नय है। जैसे जीवके दो भेद संसारी और मुक्त ॥३१॥

४. ऋजुसूत्र-२

ऋजुसूत्र वस्तुकी वर्तमान पर्याय मात्रको विषय करता है। उसमें जो केवल एक समयवर्ती पर्यायका ही ग्रहण करता है वह सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय है; जैसे शब्द क्षणिक है। और जो द्रव्यकी परिमितकाल वर्ती स्थिति-विशेषको ग्रहण करता है वह स्थूल ऋजुसूत्र नय है; जैसे मनुष्य कहनेसे मनुष्य आयुभरकी पर्यायका ग्रहण करना ॥ ३२-३३ ॥

५. शब्दनय

जो एकार्थवाची शब्दोंमें भी लिंग आदिके भेदसे अर्थभेद मानता है वह शब्द नय कहा गया है; जैसे पुष्य शब्द पुल्लिंगमें नौवे नक्षत्रका वाचक होता है और पुष्या स्त्रीलिंगमें तारिकाका बोध कराती है, इत्यादि ॥ ३४ ॥

अथवा, व्याकरणसे सिद्ध हुए शब्दमें जो अर्थका व्यवहार किया जाता है उसी अर्थको उस शब्दद्वारा विषय करना, जैसे देव शब्दके द्वारा उसका सुगृहीत अर्थ देव अर्थात् सुर ही ग्रहण करना यह शब्द नय है ॥ ३५ ॥

६. समभिरूढ नय

जिस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अपने वाचक शब्दमें आरूढ है, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द भी अपने अपने अर्थमें आरूढ है, अर्थात् शब्दभेदके साथ अर्थभेद

भी होता ही है। जैसे इन्द्र, पुरन्दर और शक्र यद्यपि एक ही देवोंके राजाके वाचक हैं, तथापि इन्द्र शब्द उसके ऐश्वर्यका बोध कराता है, पुरन्दरसे प्रकट होता है कि उसने अपने शत्रुके पुरोंका नाश किया था, तथा शक्र शब्द सूचित करता है वह बड़ा सामर्थ्यवान् है। इस प्रकार शब्द भेदानुसार अर्थ-भेद करनेवाला समभिरूढ नय है ॥३६॥

७. एवभूत नय

जीव अपने मन, वचन व कायकी क्रिया द्वारा जो जो काम करता है, उस प्रत्येक कर्मका बोधक अलग अलग शब्द है और उसीका उस समय प्रयोग करनेवाला एवंभूत नय है। जैसे मनुष्यको पूजा करते समय ही पुजारी व युद्ध करते समय ही योद्धा कहना ॥३७॥

इन नैगम आदि नयोंमें जो प्रथम तीन द्रव्यार्थिक और शेष चार पर्यायार्थिक कहे गये हैं, उनमें प्रथम चार अर्थात् नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुपुत्र ये अर्थप्रधान हैं, और शेष तीन शब्द, समभिरूढ और एवंभूत शब्दप्रधान हैं ॥३८॥

उपनय-३ सद्भूत उपनय-२

उपनयके तीन भेद हैं: सद्भूत, असद्भूत और उपचरित। गुण, गुणी, पर्याय व द्रव्य तथा कारक व स्वभावके भेदसे वस्तुमें नामादिके द्वारा भेद करनेवाला सद्भूत उपनय है। इसके भी दो भेद हैं: शुद्ध गुण गुणी आदिको विषय करने वाला शुद्ध सद्भूत उपनय है। और अशुद्ध गुण गुणी आदिको विषय करनेवाला अशुद्ध सद्भूत उपनय है ॥३९॥

असद्भूत उपनय-३

पर पदार्थोंके गुणोंको आत्मगुण कहनेवाला असद्भूत उपनय है। इसके तीन भेद हैं: स्वजाति, विजाति और मिश्र। इन तीनोंमें भी प्रत्येकके पुनः तीन भेद होते हैं ॥४०॥

जब किसी वस्तुके प्रतिबिम्बको देखकर कहा जाता है कि यह वही वस्तु है तो यह द्रव्य और पर्यायमें अभेद करनेवाला स्वजाति असद्भूत उपनय है ॥४१॥

जो एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि शरीर पुद्गल कायसे सम्बन्ध रखते हैं, उन्हें जीवका स्वरूप कहना कि यह एकेन्द्रिय जीव है, इत्यादि, यह विजाति असद्भूत उपनय है ॥४२॥

जीव भी ज्ञेय है और अजीवभी ज्ञेय है, अतएव वे दोनों ज्ञानके विषय होनेसे ज्ञानरूप ही हैं, इस प्रकार ज्ञानको स्वजाति जीव तथा विजाति अजीव से अभिन्न बतलानेवाला स्वजाति-विजाति या मिश्र असद्भूत उपनय है ॥४३॥

[इस प्रकार स्वजाति, विजाति व मिश्र रूपसे द्रव्यमें द्रव्यका, द्रव्यमें गुणका या द्रव्यमें पर्यायका; तथा गुणमें द्रव्यका, गुणमें गुणका व गुणमें पर्यायका; और पर्यायमें पर्यायका, इन नौ प्रकारोंका आरोप किया जा सकता है जिससे असद्भूत उपनयके सत्ताइस भेद हो जाते हैं ।]

उपचरित उपनय-३

जो परस्पर दो भिन्न सत्यासत्यरूप वस्तुओंमें किसी प्रयोजन व निमित्त वश अभेदकी स्थापना करता है वह उपचरित उपनय है। इसके स्वजाति, विजाति व मिश्र रूपसे भेद होते हैं ॥४४॥

मेरे पुत्रादि बन्धुवर्ग और मैं एक ही हूँ, वे मेरी सम्पत्ति रूप हैं, इत्यादि प्रकारसे स्वजातीय जीव पदार्थोंसे अभेद उत्पन्न करनेवाला स्वजाति असद्भूत उपचरित उपनय है ॥४५॥

आभरण, सुवर्ण, रत्न, तथा वस्त्रादि मेरे ही हैं, इस प्रकार साचित्तका अचित्त विजातिके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेवाला विजाति असद्भूत उपचरित उपनय है ॥४६॥

देश, राज्य व दुर्ग ये सब मेरे हैं, इस प्रकार जो कहता है वह देशादिके जीव-अजीव उभय-रूप होनेके कारण स्वजाति-विजाति अर्थात् मिश्र द्रव्योंसे अपना संबंध स्थापित करनेके कारण मिश्र असद्भूत उपचरित उपनयके अन्तर्गत है ॥४७॥

द्रव्य नाना प्रकारके भावोंको लिए हुए है, अतएव उसके यथार्थ ज्ञानकी सिद्धि निरपेक्ष एकान्तके द्वारा कदापि नहीं हो सकती; वह तो अनेकान्त रूप वचनके द्वारा ही हो सकती है। और वह अनेकान्त 'स्यात्' शब्दके द्वारा साधा जाता है, ऐसा जानिये ॥४८॥

जिस प्रकार रससिद्ध वैद्य सुवर्ण सिद्ध करके सुख भोगता है, उसी प्रकार योगी नयोंके स्वरूपको भले प्रकार समझकर और उनमें प्रवीण होकर चिरकाल आत्माका अनुभव करे ॥४९॥

[देवसेनकृत नयचक्र]

: १६ :

निक्षेप

कार्य होने पर अर्थात् व्यवहार चलानेके हेतु युक्तियोंमें सुयुक्तिमार्गानुसार जो अर्थका नामादि चार प्रकारसे आरोप किया जाता है वह न्याय शास्त्रमें निक्षेप कहलाता है ॥१॥

द्रव्यका स्वभाव नानाप्रकारका है। अतएव जिस स्वभावकी अपेक्षा हो उसीके निमित्तसे उस एक ही द्रव्यको चार भेदरूप किया जाता है ॥२॥

नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप जानिये। किसी वस्तुका कोई नाम रखना यह नाम निक्षेप है जो दो प्रकारका प्रसिद्ध है ॥३॥

१. नाम निक्षेप

भोह कर्मका, व अज्ञानका तथा अन्तराय कर्मका विनाश करने रूप गुणा-नुसार अथवा पूजने योग्य होनेके कारण केवली भगवान्का 'अरिहंत' यह गुण नाम है। अन्यथा, जो संज्ञा, वस्तुके गुणकी अपेक्षा न कर, केवल लोक व्यवहारार्थ रख ली जाती है, वह रूढ नाम होता है; जैसे घोड़ा एक प्राणिविशेष ॥४॥

२. स्थापना निक्षेप

जहा एक वस्तुका किसी अन्य वस्तुमें आरोप किया जाता है, वहां स्थापना निक्षेप होता है। वह दो प्रकारकी है—एक साकार स्थापना और दूसरी निराकार स्थापना। कृत्रिम व अकृत्रिम अरिहंतकी प्रतिमा साकार स्थापना है तथा किसी भी अन्य पदार्थमें अरिहंतकी स्थापना करना निराकार स्थापना है ॥५॥

३. द्रव्य निक्षेप

जब वस्तुकी वर्तमान अवस्थाका उलंघन कर उसको भूतकालीन या भावि स्वरूपानुसार व्यवहार किया जाता है तब उसे द्रव्य निक्षेप कहते हैं। उसके दो भेद कहे गये हैं आगम और नोआगम। अरिहंतके कहे हुए शास्त्रका जानकार जिस समय उस शास्त्रमें अपना उपयोग नहीं लगा रहा उस समय वह आगम द्रव्यनिक्षेप से अरिहंत है। नोआगम द्रव्यनिक्षेपके तीन भेद हैं—ज्ञायक-शरीर, भावि और कर्म। जहाँ वस्तुके ज्ञाताके शरीरको उस वस्तुरूप माना जाय वहाँ ज्ञायक शरीर नोआगम द्रव्य निरक्षेप है—जैसे राजनीतिज्ञके मृतशरीरको देखकर कहना कि राजनीति मर गई। ज्ञायक शरीर भी भूत, वर्तमान व भविष्यकी अपेक्षा तीन प्रकारका तथा भूतज्ञायक शरीर च्युत, त्यक्त और च्यावित रूपसे पुनः

तीन प्रकारका होता है। वस्तुको जो स्वरूप भविष्यमें प्राप्त होगा उसे वर्तमानमें ही उस रूप मानना भावि नोआगम द्रव्य-निक्षेप है, जैसे युवराजको राजा मानना। तथा किसी व्यक्तिका कर्म जिस प्रकारका हो, अथवा वस्तुके संबंधमें लौकिक मान्यता जैसी हो गई हो उसके अनुसार ग्रहण करना कर्म या तद्व्यतिरिक्त नोआगम द्रव्यानिर्क्षेप है। जैसे जिस व्यक्तिके दर्शनविशुद्धि विनय आदि तीर्थकर नामकर्मका बन्ध करानेवाले लक्षण दिखाई दे उसे तीर्थकर ही कहना, अथवा भरे कलश, दर्पण आदि पदार्थोंको लोकमान्यतानुसार मंगलोक मानना ॥६-७॥

४. भावनिक्षेप

तत्कालवर्ती पर्यायके अनुसार ही वस्तुको संबोधित करना या मानना भावनिक्षेप है। इसके भी द्रव्यनिक्षेपके समान दो भेद हैं—आगम भावनिक्षेप और नोआगम भावनिक्षेप। जैसे, अरहंत-शास्त्रका ज्ञायक जिस समय उस ज्ञानमें अपना उपयोग लगा रहा है उसी समय अरहंत है, यह आगम भाव निक्षेप है। तथा जिस समय उसमें अरहंतके समस्तगुण प्रकट हो गये हैं उस समय उसे अरहंत कहना तथा उन गुणोंसे युक्त होकर ध्यान करनेवालेको केवलज्ञानी कहना नो आगम भाव निक्षेप है ॥ ८-९ ॥

अन्य जिन आचार्योंने द्रव्यको गुण और पर्यायवान् कहा है, उनका उन लक्षणों द्वारा कहा हुआ वस्तु-स्वरूप भी इसी प्रकार है, ऐसा जानना चाहिए ॥ १० ॥

इन्हीं निक्षेपोंमें अपनी इष्ट बातको विभाजित करके कहना चाहिये। यह बटलानेके लिये यहा निक्षेपोंका सूत्र रूपसे व्याख्यान किया गया है ॥ ११ ॥

इन निक्षेपोंका नयोंके भीतर अन्तर्भाव इस प्रकार समझना चाहिये :—
नाम निक्षेपका अन्तर्भाव शब्दनयमें, स्थापना निक्षेपका स्थूल ऋजून नयमें द्रव्य निक्षेपका उपचरित उपनयमें, तथा भाव निक्षेपका पर्यायार्थिक नयमें ॥ १२

जो निक्षेप, नय और प्रमाणके स्वरूपको जानकर तत्त्वका विचार करते हैं वे तथ्य और तत्त्वकी खोजके ठीक मार्गमें लगकर तथ्य और तत्त्वको प्राप्त कर-
लेते हैं ॥ १३ ॥

यदि कोई गुण और पर्यायके लक्षण व स्वभावको तथा निक्षेप नय और प्रमाणके स्वरूपको उनके भेदोपभेदों सहित जान लेता है तो उसे द्रव्यके स्वभावका बोध हो जाता है ॥ १४ ॥

[देवसेनकृत नयचक्र]

तत्त्व-समुच्चय का शब्द-कोष

प्रारम्भ में मोटे टाइप में हिन्दी में मूल शब्द दिया गया है, साथ ही कोष्ठक वाला शब्द उसका प्राकृत रूप है। इसके बाद दैश (-) के आगे पतले टाइप में अर्थ दिया गया है। अंको में पहला अंक अव्याय का और दैश (-) के बाद का अंक गाथा की संख्या का चिह्नक है।

अ

- अगति - अधर्म द्रव्य का कार्य १-४
 अग्निमित्र (अग्निमित्त) - राज्यकाल वसुमित्र सहित मातृवर्ष १-७६
 अचक्षु आ० (अचक्षु) - दर्शनावरण कर्म का भेद १०-६
 अचक्षुदर्शन (अचक्षुदर्शन) - दर्शन का एक भेद १०-६; १२-३८
 अचल (अचल) - दूमरे बलदेव १-५२; - छठे रुद्र १-५५
 अचित्तगत (गद) - चोरी का एक भेद २-१४
 अचेल परीषद् - ८-१२, १३
 अचेलकत्व (अचेलकक) - मुनि का एक मूलगुण ५-३०
 अच्युत (अच्युत) - बारहवा स्वर्ग १-२०; - सोलहवा स्वर्ग १-२२
 अजित (अजित) - दूमरे तीर्थंकर १-४७
 अजितनाभि (अजितनाभि) - नौवें रुद्र १-५५
 अजितंजय - कल्की का पुत्र, अमुरदेव द्वारा धर्मराज्य करने के लिए रक्षा १-७८
 अजितंधर (अजितंधर) - आठवें रुद्र १-५५
 अजीव (अजीवो) - १-३; ९-१०
 अंजन (अंजन) - मुनि के लिए वर्य ४-९
 अंजना (अंजना) - चौथी पृथ्वी का गोत्रनाम १-९
 अणु - एक प्रदेश ९-२०
 अणुव्रत (अणुव्रत) - पाँच प्रकारके २-३, ४

- अज्ञान (अण्णाण) - मिथ्यात्व का भेद ११-४
 अज्ञान परीषद् ८-४२, ४३, ४८
 अतिचार (अइयार) - हिंसा के २-८
 अतिथि संविभाग (अतिदि-) - चौथा शिखाव्रत २-३७
 - तीसरा शिखाव्रत, व्रत प्रतिमा का अंग, ३-१८
 अतिदुष्मा (अदिदुस्म) - अवमर्षिणी काल का लडा भाग १-८०
 अतिभार (अइभार) - अहिंसाव्रत का अतिचार २-९
 अदत्त-वर्जन (अदत्त-वज्जन) - व्रत प्रतिमा का अंग ३-१२; महाव्रत ५-७
 अदत्तादान - तीसरा अणुव्रत २-१४
 अदन्त-धावन (अदंतमण) - मुनि का एक मूलगुण ५-३३
 अदर्शन परीषद् ८-४५, ४६
 अधर्म (अधम्म) - द्रव्यविशेष १-४० ९-१८
 अधिगम सम्यक्त्व (अहिगम सम्मत्त) - १२-५४
 अधोदिशाप्रमाणातिक्रम (अहादिमापमाणाइक्रम) - दिग्ब्रत का अतिचार
 २-२२ क
 अधोलोक (हेदिमलोप) - चित्रामनाकार १-५ - ऊंचाई सात रात्र १-७
 अधःप्रवृत्तकरण (अधापवत्त) - ११-१८
 अधुव (अद्धुव) अनित्य, प्रथम भावना ७-२
 अनक्षरगता (अणक्खरगदा) - असत्य-मृषा माया का भेद १२-१८
 अनगार (अणयार) - धर्म ३-१
 अननुपालन - प्रोषधोपवास व्रत का अतिचार २-३६
 अनंगक्रीडा (अणंगक्रीड) - ब्रह्मचर्याणुव्रत का अतिचार २-१७
 अनन्त (अणंत) - १४ वे तीर्थंकर १-४८
 अनन्तानन्त (अणन्ताणत) - अनन्त का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण १-२
 अनर्थदण्ड (अणत्थदंड) - तीसरा गुणव्रत २-२७;
 - व्रत प्रतिमा का अंग ३-१५
 अनादिनित्य (अणादिणिच्च) - पर्यायार्थिक नय का भेद १५-२१
 अनाहारक (अणाहार) - जीव, चौदहवीं मार्गणा १२-६५
 अनित्य-अशुद्ध (अणिच्च-असुद्ध) - पर्यायार्थिक नय का भेद १५-२४

- अनित्य-शुद्ध (अणिच्च-सुद्ध) - पर्यायार्थिक नय का भेद १५-२२
- अनिवृत्तिकरण - नौवां गुणस्थान ११-२०
- अनुकम्पा (अणुकपा) - सम्यक्त्व का आठवां गुण ३-६
- अनुप्रेक्षा (अणुपेक्षा) - भावना ७-१: - भाव संवर का भेद ९-२८
- अनुभाग (अणुभाष) - कर्मों की शक्ति का विवाक ७-३४; -बंध ९-२६, १०-२४
- अनुमनित्याग (अनुमद अणुमणण) - दसवीं प्रतिमा ३-२ ३-३४
- अनुराधा (अणुराह) - नक्षत्र १-१७
- अनेकान्त (अणोयन्त) १४-२३
- अन्तराय - कर्म १०-१५
- अन्तर्मुहूर्त (अंतोमुहुत्त) - काल-प्रमाण १०-२१
- अन्यत्व (अणम) - भावना ७-२
- अन्वयद्रव्यार्थिक (अणदय दव्वत्थिअ) - द्रव्यार्थिक नय का भेद १५-१८
- अप (जठ) - एकेन्द्रिय जीवभेद ९-९
- अपक्व (अपोत्थिय) - उपभोग-परिभोग परिमाणवत्त का अतिचार २-२४
- अपध्यान (अवञ्ज्ञाण) - अनर्थदण्ड का भेद २-२७
- अपराजित (अपराजिद) - चौथा अनुत्तर विमान १-२५
- अपरिग्रह - महाव्रत ५-०
- अपय-विचय - धर्मध्यान का भेद १३-१७
- अपूर्वकरण (अपुव्व-) - आठवां गुणस्थान ११-१८, १९
- अप्रत्यवेक्षित दुष्प्रत्यवेक्षित शय्या (अपडिलेहिय दुपडिलेहिय मिञ्जा)
- प्रोषणोपवास का अतिचार २-३५
- अप्रमत्त (अपमत्तो) - प्रमाद रहित २-७
- अप्रमत्त-विरत - मातवां गुणस्थान ११-१७
- अप्रमार्जित-दुष्प्रमार्जित उच्चरभूमि (अपमार्जिय दुष्प्रमार्जिय उच्चाराइभूमि)
- प्रोषणोपवास का अतिचार २-३५
- अप्राशुक (अपासुग) - अशुद्ध ३-२६
- अभव्य (अभव्वा) - १२-५३
- अभिकृत (अभिहट्ट) - मुनि के लिये त्याज्य मात्रन ४-२
- अभिचन्द्र - दसवें कुलकर-पृष्ठ ७ की टिप्पणी

- अभिजित् (अभिजी) - नक्षत्र १-१८
- अभिनन्दन (अहिणंदण) - चौथे तीर्थंकर १-४७
- अमन (अमणो) - जीवअसंज्ञी १२-६३
- अमनोद्भ-सम्प्रयोग (अमणुणसंपओग) - आर्तध्यान का भेद १३-७
- अमूढदृष्टि (अमूढदिष्टी) - सम्यक्त्व का चौथा अंग ३-५
- अमूर्ति (अमुत्ति) - ९-२
- अमूर्तिक (अमुनि) - ९-१०
- अयोगकेवली (अजोगी) - चौदहवा गुणस्थान, ११-३; ११-२८
- अर (अग्) - १८ वें तीर्थंकर १-४८: - ७ वें चक्रवर्ती १-५०
- अरति परीषद् - ८-१४, १५
- अरिष्टा (अरिट्टा) पाचवीं पृथ्वी का गोत्र नाम १-९
- अर्हन् (अरिहंत) - मंगलाचरण १. ३, ४, ५
- अलाभ परीषद् ८-३०, ३१
- अलोकाश (अलोयायाम) - आकाश का वह भाग जिसमें अन्य द्रव्यों का अभाव है १-२; ९-१४
- अवग्रह (अवग्रह) - आभिनिबोधिक मतिज्ञान का भेद १२-३०
- अवधि अज्ञान - ९-५
- अवधिज्ञान (ओही) - ९-५; १२-३३
- अवधिज्ञान आ० (ओहीणाण) - ज्ञानावरण कर्म का एक भेद १०-४
- अवधिदर्शन (ओही दंमण) ९-४; १२-३९
- आवरण - दर्शनावरण कर्म का भेद १०-६
- अवन्तिसुत (अवन्तिमुद) - पालक राजा, निर्वाण के दिन रात्र्याभिषेक १-७१
- अवसर्पिणी (अवसर्पिणि) - कल्पकाल का वह अर्धभाग जिसमें जीवों के शरीर परिमाण, आयु, बल, ऋद्धि व तेजादि का उत्तरोत्तर ह्रास होता है १-३८
- अवाय (अवाय) - मतिज्ञान का भेद १२-३१
- अविरत सम्यक्त्व (अविरद सम्म) - चौथा गुणस्थान ११-१०
- अविरति (अविरदि) संयम का अभाव, पाँच प्रकार की ९-२३
- अव्यापार पोषध (अवावारा पोषहो) - प्रोपधोपवास का भेद २-३४
- अशरण (असरण) - भावना ७-२

- अशुचित्व (असुद्ध) - भावना ७-२
 अशुद्ध-संग्रह (असुद्ध संग्रह) - संग्रह नय का भेद १५-३०
 अशुद्धार्थभेदक (असुद्ध) - व्यवहार नय का भेद १५-३१
 अशुभ (असुभ) - नामकर्म का भेद १०-१३
 अशुभ भाव (असुभ) - पाप ९-३१
 अश्वघ्नीव (अस्सगीवी) - पहले प्रतिनारायण १-५४
 अश्विनी (अस्मिणी) - नक्षत्र १-१८
 असंग (असंग) - मुनि ७-४५
 असंज्ञी (असणी) - मनरहित जीव १२-६३
 असद्भूत (असम्भूय) - नय-विशेष, तीन प्रकार का १५-९
 असात (असाय) - वेदनीय कर्म का भेद १०-७
 असुरदेव - धर्मद्रोही होने के कारण कल्कि को मारनेवाला १-७७
 अस्तिकाय (अत्यिकाय) - अनेक प्रदेशात्मक पाच द्रव्य ९-१८
 अस्नान (अह्नाण) - मुनि का मूलगुण ५-३१
 अप्रापद (अष्टावय) - द्युतक्रीडा, मुनि के लिए वर्य ४-४
 अहिंसा - महाव्रत ५-५

आ

- आकाश (आयास) - एक द्रव्य, अजीव का भेद ९-१०
 (आगाम) एक द्रव्य ९-१९, २०
 आकिंचन्य (अकिंचण्ह) - परिग्रहत्याग, धर्मांग ६-१
 आक्रोश परीपह - ८-२४, २५
 आगम - धर्मशास्त्र ३-४: - निक्षेप भेद, द्रव्य और भाव रूप १६-६, ८
 आचार्य - (आह्रिय) मंगलाचरण १
 आजीव-वृत्ति (वृत्ति) - मुनि के लिए वर्य ४-६
 आज्ञा (आणा) - सम्यक्त्व का एक कारण १२-५४
 आज्ञापनी (आणवणी) - असत्यमृषा भाषा का भेद १२-१८
 आज्ञाविचय (आणा) धर्म ध्यान का भेद १३-१६
 आताप (आदाव) - पुद्गल पर्याय ९-११
 आतुरस्मरण (आउर-) - मुनि के लिए वर्य ४-६

- आत्मप्रशंसा (अण्वपसंस) - भाषा-भेद ५-१२
 आदान-निक्षेप (आदाणणिकखेव) - समिति-भेद ५-१४
 आर्द्रा (अद्दा) - नक्षत्र १-१६
 आनत (आणद) - ९ वॉ स्वर्ग १-२०, - १३ वा स्वर्ग, १-२२
 आनप्राण (आणयाण) - जीव-लक्षण, प्राण-भेद ९-३
 आपृच्छनी (पुच्छणी) - असत्यमृषा भाषा का भेद १२-१८
 आप्त (अत्ता) - सच्चा देव ३-४
 आभिनिबोधिक आ० (आहिणिवोहिय) - मतिज्ञान ज्ञानावरण कर्म का
 एक भेद १०-४
 आमंत्रणी (आमतणी) - असत्यमृषा भाषा का भेद १२-१८
 आयु (आउ) - जीवलक्षण, प्राणभेद ९-३
 आयुकर्म (आउकम्म) चार प्रकार का १०-१२
 आरण - ११ वाँ स्वर्ग १-२०
 आरम्भ - हिमा का दूसरा प्रकार, दैनिक क्रिया के निमित्त से होनेवाली हिमा २-५
 आरम्भत्याग - आठवीं प्रतिमा ३-२, ३०
 आर्जव (अज्जव) - धर्मांग ६-१
 आर्तध्यान (अट्टा-) - चार प्रकार का १३-५
 आर्यखंड (अज्जा-) - दक्षिण भारत के बीच का खंड १-३७
 आलाप (आलाव) - सजी जीव द्वारा ग्रहणीय १२-६२
 आवश्यक (आवामय) - मुनि के लह ५-२
 आस्रव (आमव) - भावना ७-२ - कर्म भावरूप ९-२२
 आश्लेषा (असिलेसा) - नक्षत्र १-१६
 आसंदी पर्यंक (आमंदी पालियंक) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-५
 आहारक (आहारथ) - काय का भेद १२-२०; १२-६४
 आहार प्रोषध (अहार-पोसह) - श्लोषधोपवास का भेद २-३४
 आहार मार्गणा - चौदहवीं मार्गणा १२-६४

इच्छानुलोमा - अमलमृषा माया का भेद १२-१८

इत्तरिका (इत्तरिया) - परिग्रहीता गमन, अपरिग्रहीतागमन, ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतिचार २-१७

इन्द्रमुत (इन्द्रमुत) - चतुर्मुख कल्की १-७५

इन्द्रिय (इन्द्रिय) - जीव लक्षण, प्राण भेद ९-३

- पाच प्रकार, प्रमादभेद ११-१६

- दूसरी मार्गणा १२-४

इन्द्रियनिरोध (इन्द्रियरोह) - मुनि का पाच प्रकार का ५-२

इष्टवियोग (इष्ट विओअ) - आर्तध्यान का भेद १३-७

ई

ईर्यासमिति (इरिया समिय) - चलनक्रिया में सावधानता, जिसके होने पर प्राणिके मरनेपर भी हिंसा नहीं होती २-६, ७; ५-११

ईहा (ईहा) - मतिज्ञानका भेद १२-३०

उ

उच्च - गोत्र कर्म का भेद १०-१४

उक्कृष्ट (उक्कोसिया) अधिकतम कर्म-स्थिति १०-१९

उत्तमक्षमा (उत्तमखम) - प्रथम धर्माङ्ग ६-१

उत्तरा - नक्षत्र १-१६

उत्तरा फाल्गुणी - एक नक्षत्र जिस में २८ वे तीर्थकर वर्षमान का जन्म हुआ
१-५७

उत्तरा भाद्रपदा (उत्तरभद्रपदा) - नक्षत्र १-१८

उत्तराषाढा (उत्तरासाढा) - नक्षत्र १-१७

उत्पादव्य-सापेक्षनय (उत्पादव्य-विभिन्सा) - अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयका भेद
१५-१६

उत्सर्पिणी (उत्सर्पिणी) - कल्प का वह अर्ध भाग जिस में जीवों के शरीर परिमाण, आयु, बल, ऋद्धि व तेज आदि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है
१-३८

उदधि सहस्रनाम (उदहिसरिसणाम) - सागरेयम १०-१९, २१

उदय (उदय) - कर्म की अवस्था विशेष ११-१, १५

उदुम्बर - उदुम्बर फल विशेष ३-९

उद्दिष्ट त्याग (उद्दिष्ट) - ग्यारहवीं प्रतिमा ३-२, ३५

उज्जोत (उज्जोद) - पुद्गल-पर्याय ९-११

उपगूहन (उपगूहण) - सम्यक्त्व का पाचवा अंग ३-५

उपचरित (उपचरिय) - नयमेद, तीन प्रकार का १५-९

उपदेश (उपदेस) - संज्ञी जीव द्वारा ग्रहणीय १२-६२

उपनय (उपणय) - तीन प्रकार का १५-६

उपभोग अं० (उपभोग) अन्तराय कर्म का भेद १०-१५

उपभोगपरिभोगपरिमाण - दूसरा गुणव्रत २-२३

उपभोगपरिभोगातिरेक (उपभोगपरिभोगादरेय) - अनर्थदण्डव्रत का अतिचार

२-२९

उपमा (उपमा) - सत्य वचन योग का एक भेद

उपयोग (उपयोग) - दो प्रकार : दर्शन ९-२; ज्ञान ९-४

उपशम (उपसम) - सम्यक्त्व का पांचवा गुण ३-६; ७-२८

- क्रमों की अवस्था विशेष ११-११

उपशम सम्यक्त्व (उपसम-सम्भक्त) १२-५७

उपशांत-मोह (उपसंतमोह) - ग्यारहवा गुणस्थान ११-२४

उपशामक (उपसामग) - १० वें गुणस्थानवर्ती जीव ११-२३

उपाध्याय (उपध्याय) मं० १

उष्णपरीषह - ८-८, ९

ऊ

ऊर्ध्वदिशा प्रमाणातिक्रम (उर्ध्वदिशाप्रमाणादिक्रम) - दिग्ब्रत का अतिचार

२-२२ क

ऊर्ध्वलोक (उवर्धिलोय) - खड़े किये हुए मुरज के आकार का १-६

- ऊचाई एक लाख योजन कम मात राजू १-७

ऋ

ऋजुसूत्र नय (रिदुसुत्त) - दो प्रकार का १५-३२

ऋषभ (उसह) - पहले तीर्थकर १-४७

सिद्ध हुए तृतीय काल अर्थात् सुषमा दुषमा के ३ वर्ष

८ मास १ पक्ष शेष रहने पर १-६३

ए

एकत्व भावना - ७-२

एकत्ववितर्कवीचार (सवियक्केगत-वीचार) - न्यान विशेष १३-२७, २८

एकभक्त - मुनिका एक मूलगुण ५-३५

एकान्त (एयन्त) - मिथ्यात्व का भेद ११-४: १५-३

एकेंद्रिय जीव ९-९

एवंभूत (एवंभूय) - नय १५-६

एषणा समिति (एमणा) - उद्गमादि ४६ दोष गहित ५-१३

ए

एरावत (एरावद) - जम्बूद्वीप का सातवां क्षेत्र १-३१

ऐशान (ईमाण) - दूसरा स्वर्ग १-२०, २१

औ

औदारिक (उराल) - परदार का एक भेद २-१६

(ओरालिय) - काय योग का एक भेद १२-२०

औद्देशिक (उद्देशिय) - मुनि के लिए त्याग्य भोजन ४-२

क

कंद - सचित्त, मुनि के लिए वष्य ४-७

कंदर्प (कंदर्प) - अनर्थदण्डवत का अतिचार २-२९

कन्या (कन्या) - मत्याणुवत का अतिचार २-११

कर्कश (कर्कश) - भाषा-भेद ५-१२

कर्त्ता (कर्त्ता) - ९-३

कर्म (कम्म) - ७-२४: आठ भेद १०-१: नोकपाय द्रव्यानिश्रेय भेद १६-७

कर्मास्त्र (कम्मासव) - ९-२९

कर्मोपाधिनिरपेक्षनय (कम्मोवाहिणिरवेक्खो) - शुद्धद्रव्यार्थिकनय का भेद

१५-१२

कर्मोपाधिसापेक्ष नय (कम्माणोवाहिसावेक्खो) - अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का भेद

१५-१५

कलिक (कक्का) - इन्द्रमुत, नाम चतुर्मुख, आयु ७० वर्ष, राज्यकाल ४२ वष
१-७५

- जनपद से शुल्क याचना व श्रमणों से अग्रपिण्ड की याचना १-७६

कल्प (काप) - स्वर्ग १-१९, २२

कल्पातीत (कल्पातीद) - स्वर्गों के ऊपर के देवलोक जिन में इन्द्रादिक भेद
नहीं हैं १-१९

कषाय (कसाय) - चार प्रकार, प्रमाद-भेद ११-१६

कषाय मार्गणा (कसाय-) - छठी मार्गणा १२-२२

कषाय मोहर्नाय (कसाय मोह) - १६ प्रकार का १०-११

कापिष्ठ (कापिट्ट) - आठवा स्वर्ग १-२१

कापोत (काऊ) १२-४८

कामनीत्रामिलाष (कामतिव्वाभिलाम) - ब्रह्मचर्याणुव्रत का अतिचार २-१७

काय (काय) - त्रियोग में से एक ३-२७

काय (काअ) - प्रदेशसंचयरूप द्रव्य ९-१९; - तीसरी मार्गणा १२-६

कायोत्सर्ग (काउस्सग) - सामायिक के योग्य काय-स्थिति ३-२१

- छठा आवश्यक ५-२८

कारित (कारिय) - क्रिया-विशेष ३-२७

कार्माण (कम्मइय) - काय का भेद १२-२०

काल (कालो) - द्रव्य, अजीव-भेद ९-१०, १६, १७

कालाणु-९-१७

काला नमक (कालालोण) - मुनि के लिये वर्ज्य ८-८

काश्यप (कासव) - गौतम गणधर का गोत्र नाम ८-१

किमिच्छक (किमिच्छय) - मुनि के लिये वर्ज्य अन्न ८-३

कुण्डल नगर - २४ वे तीर्थकर वर्धमान का जन्मस्थान १-५७

कुंथु (कुंय) - सतर्हवे तीर्थकर १-४८; - छठे चक्रवर्ती १-५०

कुन्थ (कुवियग) - अपरिग्रहाणुव्रत का अतिचार २-२०

कुलकर या कुलधर - कुलों के निर्माण में कुशल प्रतिश्रुत आदि १४ मनु

१-४४

कुलशैल (कुलसेल) - कुलाचल. जनपदों का विभाग करनेवाले पर्वत १-३०

- कूटतुला - अचौर्याणुव्रत का अतिचार २-१५
 कूटमान (कूडमाण) - अचौर्याणुव्रत का अतिचार २-१५
 कूटलेखकरण (कूडलेहकरण) - मत्याणुव्रत का अतिचार २-१३
 कूटसाक्षित्व (कूडमक्खिज्ज) मत्याणुव्रत का अतिचार २-११
 कृत (कय) - क्रिया-विशेष ३-२७
 कृतिकर्म (किदिक्कम्म) - प्रणाम क्रिया ५-२५
 कृतिका (कित्तिव) - नक्षत्र १-१६
 कृष्ण (किण्ह) - १ वे नारायण १-५३
 कृष्ण (किण्हा) - एक लेश्या १२-४७
 केवल आवरण-जानावरण कर्म का भेद १०-४
 केवलज्ञान (केवल णाण) - महावीर द्वारा प्राप्ति १-६१
 केवलज्ञान १-५; १२-३५
 केवलदर्शन - १-४; १२-४०
 केवल-दर्शनावरण - दर्शनावरण कर्म का भेद १०-६
 केवली - ११-२७
 केवली अनुबद्ध - केवलियों की परम्परा; अभाव १-६६
 कोटिकोटि (कोडाकोडी) - संख्या, वर्गकोटि १-४१० १०-२१
 कोपीन परिग्रह (कोर्षीण परिग्गहो) - उत्कृष्ट श्रावक का दूसरा प्रकार ३-३५
 कौकुब्ज (कुक्कुड्य) - विकारोत्पादक वचन व अगन्नेष्टा, अनर्थादण्डव्रत का अतिचार २-२९
 क्रियमाण (कयमाणा) - निर्जराविशेष ७-३५
 क्रिया (किरिया) - संज्ञा जीव द्वारा ग्रहणयोग्य १२-६२
 क्रीतकृत (कीयगड) - मुनि के लिए त्याज्य भोजन ४-२
 क्रोध (कोह) - चार प्रकार का १२-२३
 क्रोधादि (कोहाडि) - चार प्रकार का कपाय १-२३
 क्षपक (खवग) - जीव, दशम गुणस्थानवर्ती ११-२३
 क्षय (खय) - क्रमों की अवस्थाविशेष ११-११
 क्षायिक सम्यक्त्व (खाइय सम्मत्त) - १२-५५
 क्षायोपशमिक ज्ञान (खय-उवममिया) - मति आदि चार प्रकार का

क्षितिशयन (खिदि-सयन) - मुनि का मूलगुण ५-३२

क्षीणमोह (खीणमोह) बारहवाँ गुणस्थान ११-२५

क्षुधा परीषह - ८-२, ३

क्षेत्रादि (खित्ताइ) - अपरिग्रहाणुव्रत का अतिचार २-२०

क्षेत्रवृद्धि (खेत्त-बुद्धी) - दिग्ब्रत का अतिचार २-२२ क

क्षेमंकर - तीसरे कुलकर व मनु पृ. ७ टिप्पणी

क्षेमंधर - चौथे कुलकर व मनु पृ. ७ टिप्पणी

ग

गति (गदि) - धर्मद्रव्य-जन्य १-४

गति मार्गणा (गई) - प्रथम मार्गणा १२-३

गंगा - नदी १-३४

गंध - मुनि के लिये वर्ज्य ४-७

-दो प्रकार का ९-७ - घ्राणन्द्रिय का विषय १२-५

गंधर्व (गंधर्ववय) - राज्यकाल १०० वर्ष १-७३

गर्हा - (गरहा) सम्यक्त्व का चौथा गुण ३-६

गात्राभ्यंगविभूषण (गायामंगविभूमण) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-९

गात्रोद्धर्तन (गायस्तुव्वट्टण) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-५

गुप्त (गुप्त) - राज्यकाल २३१ वर्ष १-७४

गुणव्रत (गुणव्वय) - तीन प्रकार का २-३

- दूसरी प्रतिमा का अंग ३-११

गुणस्थान (गुणमण्णा) - ११-१

गुप्तनरेश (गुत्त-) - वंश का राज्यकाल २५५ वर्ष १-७०

गुप्ति (गुप्ती) - ७-३०

गुप्ति (गुप्ति) - भावस्वर का भेद ९-२८

गृहस्थ पैश्यावृत्य (गिहि-वेयावडिय) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-६

गृहान्तर निषया (गिहंतर निसेजा) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-५

गृहारम्भ (गिहारंभ) - गृहस्था के कार्य ३-३२

गृहीमात्र (गिहिमत्त) - मुनि के लिये सन्निधि वर्ज्य ४-३

गोत्रकर्म (गोय-) - १०-१४

गौ (गो) - सत्याणुव्रत का अतिचार २-११

गौणमुख्य भाव (गउणमुख-) १४-१४

गौतम (गोदम) - २४ वें तीर्थंकर महावीर के प्रमुख गणधर, वीर के निर्वाण दिन पर केवल ज्ञान-प्राप्ति १-६५

ग्रह (गह) - ज्योतिषी देव १-१४

ग्रंथ परिमाण (ग्रंथ-) - ब्रतप्रतिमा का अंग ३-६२

ग्रंथिसत्त्व (गटियसत्त) - अमव्य जीव ३-१२

ग्रैवेयक (गेवेज) - स्वर्गों के ऊपर के देव १-२३

घ

घर्मा (घम्मा) - पहली पृथ्वी का गोत्र नाम १-९

घ्राणनिरोध (घ्राण-) - ५-१९

च

चक्रवर्ती (चक्रहर) - १-५१

चक्षु-आवरण - दर्शनावरण कर्म का भेद १०-६

चक्षुदर्शन (चक्षुदर्शन) - ९-४: १२-३८

चक्षुनिरोध (चक्षु-) - ५-१७

चक्षुष्मान - ८ वे कुलकर या मनु पृ. ७ टि०

चतुर्गिन्द्रिय जीव - १-९

चतुर्मुख (चतुर्मुख) - गायकाल ४२ वर्ष १-७०

- कल्की इन्द्र का पुत्र, आयु ७० वर्ष १-७७

चन्द्र (चन्द्रा) - ज्योतिषी देव १-१४

चन्द्रप्रभ (चन्द्रप्रह) - ८ वें तीर्थंकर १-१७

चन्द्राभ - ११ वे कुलकर या मनु पृ. ७ टि०

चर्या परीषद् - ८-१८. १९

चारित्र (चारित्त) - भावसंवर का भेद - ९-२८

चारित्र मोहनीय - दो प्रकार का, कषाय और नोकषाय १०-१०

चिकित्सा (तेगिच्छ) - मुनि के लिये वर्य ४-४

चित्रा (चित्ता) - नक्षत्र १-१७

चेतना (चेदणा) - जीव-लक्षण ९-३

चैत्यगृह (चेइयगिह) सामायिक के योग्य स्थान ३-२०

चौर्य (चोर) - छटा व्यसन ३-१०

न्यायित (न्यायित) - ज्ञायक शरीर नोआगम द्रव्यनिक्षेप-भेद १६-७

न्युत (न्युत) - ज्ञायक शरीर नोआगम द्रव्यनिक्षेप-भेद १५-७

छ

छत्रधारण - (छत्र-) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-४

छविचिच्छेद - अंगच्छेदन, अहिमाण्डवत का अतिचार २-९

छाया - पुद्गल-पर्याय ९-११

ज

जगश्रोणि (जगश्रोणि) - सात राजु प्रमाण १-२

जघन्य कर्मस्थिति (जघन्या-) - १०-१९

जनपद (जनपद) - देश १-३०

- मत्य-भेद १२-१५

जम्बूद्वीप (-द्वीप) १-२९, ३०

जम्बूस्वामिन् (जम्बूसामी) - सुधर्म स्वामी के निर्वाण दिन केवलत्व प्राप्ति,
अंतिम केवली १-६६

जयन्त - (जयन्त) - तीसरा अनुत्तर विमान १-२५

जयसेन - (जयसेन) - ग्यरहवें चक्रवर्ती १-५०

जरासंध - नौवें प्रतिनागवण १-५४

जितशत्रु (जियमत्) - दूसरे रुद्र १-५५

जिह्वा-जय - ५-२०

जीव - तत्त्व ९-२

ज्येष्ठा (जेट्टा) - नक्षत्र १-१७

ज्ञान-मार्गणा (गण-) - सातवीं मार्गणा १२-२८

ज्ञानावरण (गणावरण) - पाच भेद १०-८

ज्ञानोपधि (गणुवहि) - पुस्तकादि, मुनियों के रखने योग्य ५-१४

ज्ञानोपयोग (गण०) आठ प्रकार का, ९-८, ५

ज्ञायक देह (गणिस्म देह) नोआगम द्रव्यनिक्षेप-भेद १६-७

त

तत्त्व (तत्त्व) - ३-४

तत्प्रतिरूपव्यवहार (तत्प्रतिरूपव्यवहार) - नकली माल बेचना, अनौर्याणुवत
का अतिचार २-१५

तप (तव) - ६-१

तपानिवृत्तभोजित्व (तपानिवृत्तभोजित्व) - भुक्ति के लिये वर्ष ४-६

तम - पुद्गल पर्याय ९-११

तमःप्रभा (तमपहा) - छटा नरक १-८

तस्करप्रयोग (तस्करजोग) - अचौर्याणुव्रत का अतिचार २-१५

तारक (तारय) - दूरे प्रतिनारायण १-५६

तिर्यग्दिशाप्रमाणातिक्रम (तिर्यगदिसाप्रमाणातिक्रम) - दिग्गत का अतिचार,
२-२२ क

तिर्यचगति (तिरिक्ख-) - १२-३

तिर्यचायु (तिरिक्खाऊ) - आयुर्कर्म का भेद १०-१२

तीव्रकषाय (तिव्वकसाय) - ७-२५

तुच्छ औषधि (तुच्छोसहि) - उ. प. परिमाण व्रत का अतिचार २-२४

तृणस्पर्श परीषद् - ८-३४, ३५

तृषा-परीषद् ८-४, ५

तेज (तेउ) - एकेन्द्रिय जीव-भेद ९-९

- पीत लेश्या १२-५०

तैजस (तेज) - काय का भेद १२-२०

त्यक्त (चत्त) - ज्ञायक शरीर नोआगम द्रव्यनिक्षेप-भेद १६-८

त्याग (ताग) - धर्माग ६-१

त्रस (तस) - कायभेद १२-६

त्रसजीव (तस) - ९-९

त्रसवध (तसवह) - ११-१४

त्रिगुप्त (तिगुत्त) - मन, वचन, काय में संयत ४-११

त्रिपृष्ठ (तिबिष्ट) - पहले नारायण १-५३

त्रिलोकप्रज्ञप्ति (तिलोयपण्णात्ति) - ग्रंथनाम १-१

त्रिविधाहार (तिबिहाहार) - ३-१८

त्रान्द्रिय - जीव ९-९

द

- दत्त - सातवे नारायण - १-५३
- दन्त-प्रधावन (दंतपहोयण) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-३
- दन्तवन (दंतवण) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-९
- दर्शन (दंसण) - पहिली प्रतिमा ३-२
- दर्शन मार्गणा (दंसण-) - १२-३७
- दर्शनमोहनीय (दंसणमोहणिज्ज) - कर्म, तनि भेद १०-८, ९: १२-५५
- दर्शनश्रावक (दंसणसावअ) - प्रथम प्रतिमा ३-८
- दर्शनावरण (दसणा-) - कर्म नव प्रकार का १०-६
- दर्शनोपयोग (दंसण०) - जीव लक्षण चार प्रकार का ९-४
- दंशमशक - परीषह ८-१०, ११
- दानान्तराय - अन्तराय कर्म का भेद १०-१५
- दिग्ब्रत (दिमिब्बवय) - प्रथम गुणव्रत, व्रतप्रतिमा का अंग ३-१३
- दिवाकर (दिवायर) - ज्योतिषी देव १-१४
- दिवामैथुन-त्याग (दिवामेहुण) छठी प्रतिमा ३-२७
- दिशापरिमाण-करण (दिसापग्ग्माण करण) - पहला गुणव्रत २-२२
- दुरभिनिवेश - ज्ञान का दोष ९-३४
- दुर्नयभंगी (दुणयभंगी) - १४-१२
- दुष्पक्व (दुष्पोल्लिय) - उ. प. परिमाण व्रत का अतिचार २-२४
- दुःषम - अवसर्पिणी काल का पाँचवाँ भाग १-४०
- दुःषमाकाल (दुस्समकालो) - वीरनिर्वाण से ३ वर्ष ८ मास १ पक्ष पश्चान्तरारम्भ हुआ १-६४
- दुषमासुषमा (दुस्समसुसम) - अवसर्पिणी काल का चौथा भाग १-४०
- देवगति (-गह) - १२-३
- देवायु (देवाउय) - आयु कर्म का भेद १०-१२
- देशविरत (देसविरद) - पाँचवाँ गुणस्थान ३-२: ११-१४
- देशव्रत (देसव्वय) - द्वितीया गुणव्रत, व्रतप्रतिमाका अंग ३-१४: ७-२९
- देशसंयम (देसजम) - आशिक संयम ११-९
- देशावकाशिक (देसावगासिय) - दूसरा शिक्षाव्रत २-३३
- देह प्रलोकन (देह-प्रलोयण) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-३

- देहसत्कार-प्रोषध (सरीर-सक्कार-पोसह) - प्रोषधोपवास का भेद २-३४
 द्यूत (जूय) - पहला व्यसन ३-१०
 द्रव्य (दव्व-) - ७-३९; १६-१०
 द्रव्यनिक्षेप (दव्व-) - निक्षेप भेद १६-३
 द्रव्यबन्ध - कर्मप्रदेशों का आत्मा के साथ बन्ध ९-२५
 द्रव्यमोक्ष (दव्वविमोक्ख) - कर्मप्रदेशों का आत्मा से पृथक् होना ९-३०
 द्रव्यसंवर (दव्व-) - कर्मप्रदेशों का निरोध ९-२७
 द्रव्यार्थिक नय (दव्वत्थ-) - दस भेद १५-५, ७
 द्रव्यास्त्रव (दव्वासव) - कर्मप्रदेशों का आत्मा से मेल ९-२४
 द्रव्येन्द्रिय (दव्विन्दिय) - इंद्रियों की अंगरूप रचना १२-४
 द्विपद (दुपाय) - अपरिमहाणुव्रत का आतिचार २-२०
 द्विपृष्ठ (दुविठ) - द्वितीय नारायण १-५३
 द्वीन्द्रिय-जीव ९-९

ध

- धन-अपरिमहाणु व्रत का आतिचार २-२०
 धनिष्ठा (धनिठा) - नक्षत्र १-१८
 धर्म (धम्म) - द्रव्य विशेष १-४; ९-१०, १७
 - १५ वें तीर्थकर १-४८
 - सर्वज्ञोपदिष्ट ७-४५
 - मंगला० ३, ४, ५
 - भाव संवर का भेद ९-२८
 - द्रव्य के गुण १४-१४
 धर्मध्यान (धम्म-ज्ञाण) - चार प्रकार का १३-१३
 धर्मिन् (धम्मी) - द्रव्य १४-१४
 धारणा - मतिज्ञान का भेद १२-३१
 धूपन (धूवण) - मुनि के लिए षड्य ४-९
 धूमप्रभा (धूमपहा) - पाँचवाँ नरक १-८
 ध्यान (ज्ञाण) - १३-२

न

- नक्षत्र (णस्खत्त) - ज्योतिषी देव १-१४
 नन्दिमित्र (णंदिमिच्च) - ७ वें बलदेव १-५२
 नन्दी (णंदी) - ६ ठे बलदेव १-५२
 नपुंसक वेद (षंढ) - १२-२१
 नमि (णमि) - २१ वें तीर्थंकर १-४८
 नमोकार पंच (णवकार पंच) - सामायिकोचित भाव ३-२१
 नय (णय) - १४-१; १५-२
 नय-विषय (णयविसय) - १४-३
 नरकबिल (णिरय-) - नारकी जीवों के स्थान १-१०
 नरकायु (नेरइय) - आयु कर्म का भेद १०-१२
 नरवाहन (णरवाहण) - राज्यकाल ४० वर्ष १-७३
 नाभिराय - १४ वें कुलकर व मनु १-४३; पृष्ठ ७ टि०
 नामकर्म (-कम्म) - दो प्रकार का १०-१३
 नामनिक्षेप - निक्षेप-भेद १६-३
 नामसत्य - १२-१५
 नारक (णारय-) - गतिभेद १२-३
 नारायण - ७ वें नारायण १-५३; हरि ७-९
 नालिका (नाली) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-४
 निक्षेप (णिस्खेव) - चार प्रकार का १६-१
 निगोद् (णिगोए) - जीव भेद, साधारण जीव ७-४१
 नित्यक (नियाग) - मुनि के लिए वर्ज्य भोजन ४-२
 निदान (णियाण) - तप के फल की वांछा ७-३३
 - आर्तध्यान का भेद १३-७
 निद्रा (निद्दा) - दर्शनावरण कर्म का भेद १०-५
 - प्रमाद भेद ११-१६
 निद्रानिद्रा (निद्दानिद्दा) - दर्शनावरण कर्म का भेद १०-५
 निन्दा (णिंदा) - सग्यक्ख का तीसरा गुण ३-६
 निराकार स्थापना (-ठवणा) - १६-५
 निर्ग्रथ (निग्गंथ) - ४-१

- निर्जरा (णिजर) - भावना ७-२
 - कर्मक्षय दो प्रकार का, भाव और द्रव्य ९-२९
- निर्विचिकित्सा (णिव्विदिग्गिळा) - सम्यक्त्व का तीसरा अंग ३-५
- निर्वेद (णिव्वेअ) - सम्यक्त्व का दूसरा गुण ३-६
- निःशंका (णिस्संका) - सम्यक्त्व का प्रथम अंग ३-५
- निशिभोजन-त्याग (णिसिभोयण-) - छठी प्रतिमा ३-२८
- निशुम्भ (णिसुंभ) - ५ वें प्रतिनारायण १-५४
- निश्चय जीव (णिच्चयजीव) - चेतनायुक्त द्रव्य ९-३
 (णिच्चय नय) - ९-३; १४-१८
- निषद्या-परीषह - ८-२०, २१
- निषध (णिसिध) - हरिक्षेत्र के उत्तर में कुलाचल १-३२
- निष्कांक्षा (णिककंवा) - सम्यक्त्व का दूसरा अंग ३-५
- नीच (नीय) - गोत्र कर्म का भेद १०-१४
- नील (णील) - विदेह क्षेत्र के उत्तर में कुलाचल १-३२
 - लेश्या १२-४८
- नेमि (णेमि) - २२ वें तीर्थंकर १-४८, ६०
- नैगमनय (नेगम-) - तीन प्रकार का १५-२७
- नोआगम (णोआगम) - द्रव्य निक्षेप का भेद १६-६, ७
- नोआगमभाव (णोआगमभाव) - भाव निक्षेप का भेद १६-९
- नोकर्मवर्गणा (णोकर्मवग्गणा) - देह आदि की रचना योग्य पुद्गल द्रव्य १२-६४
- नोकर्म शरीर (णोकर्म सरिीर) - औदारिकादि चार प्रकार का १२-२०
- नोकषाय (नोकसाय) - नव प्रकार का १०-१०; ११-१५
- न्यासहरण (नासहरण) - सत्याणुव्रत का अतिचार २-११

प

- पंकमभा (पंकपहा) - चौथा नरक १-८
- पंचास्रव (पंचासव) - मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ४-१ १
- पंचद्रव्य (पंचदव्व) - जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल १-२
- पंचनमोकार (णमोक्कार) सं. २
- पंचेन्द्रिय जीव-९-९
- पंचोदुम्बर (पंचुंवर) - बड़, पीपर, पाकर, उम्बर, कटुम्बर, ३-८
- पदार्थ (पयत्थ) - नौ, सात तत्त्व, पुण्य और पाप ३-७

पद्म (पउम) - ९ वें चक्रवर्ती १-५०

- नवें बलदेव १-५२

(पम्म) - लेख्या १२-५१

पद्मद्रह (पउमद्रह) - हिमवान पर्वत का सरोवर जहां से गंगा सिंधु नदियां निकलती हैं १-३४

पद्मप्रभ (पउमत्पह) - ६ ठे तीर्थकर १-४७

प्रमादचरित (पमादायरिय) - अनर्थदण्ड का भेद २-२७

परजाति उपचरित नय (इयर उपचरित नय) - उपचरित नय का भेद १५-४४

परजाति असद्भूत नय (इयर असब्भूय) - १५-४०

परदार (परयार) - सातवां व्यसन ३-१०

परदार परित्याग (परदार-परिञ्चाभ) - चौथा ब्रह्मचर्याणुव्रत २-१६

परद्रव्यादिग्राहक नय (विवारिय) - द्रव्यार्थिक नय का भेद १५-१९

परनिन्दा — भाषा भेद ५-१२

परमभावग्राही नय (परमभावगाही) - द्रव्यार्थिक नय का भेद १५-२०

परमात्मा (परमप्प) - ११-२६

परयुवतिदर्शन (परजुवह-दंसण) - अचौर्याणुव्रत का अतिचार २-१८

परविवाहकरण (परधीवाहकरण) - ब्रह्मचर्याणुव्रत का अतिचार २-१७

परिग्रह-सचित्त अचित (पांचवा अणुव्रत) इच्छापरिमाण दूसरा नाम २-१९

परिग्रह त्याग (परिग्गह) - नवमी प्रतिमा ३-२; ३-३३

परिनिवृत्त (परिनिवुड) - सिद्ध ४-१५

परिभोगानिवृत्ति (परिभोगणिवुत्ती) - द्वितीय शिक्षाव्रत; व्रत प्रतिमा का अंग

परीषह (परीसह) - आर्तध्यान का भेद १३-७

परीषह जय (परिसह जय) - ७-३०

- भावसंवर का भेद - ९-२८

परोक्ष ज्ञान (परोक्ख-) - माति आदि ९-५

पर्यायार्थिक नय (पज्जयत्थ-) - १५-५

पाकर (पायर) - उदुम्बर विशेष - ३-९

पादत्राण (पाणहा) - मुनि के लिये वर्ज्य - ४-४

पाप (पाव) - ९-२०, ३१

पापद्वि (पारद्वि) - शिकार, पांचवां व्यसन ३-१०

पापोपदेश (पावोवएस) - अनर्थदण्ड का भेद २-२७

- पार्श्व (पास) - २३ वें तीर्थकर १-४८, ५८, ६०
- पालक (पालक) - अवंतिसुत, निर्वाण दिनपर राज्याभिषेक, राज्यकाल ६० वर्ष
— १-७१, ७२
- पांशुखार (पंसुखार) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-८
- पिप्पल (पीपल) - उदुम्बर विशेष ३-९
- पिलखन - उदुम्बर विशेष - ३-९
- पीठ (पेंडाल) - १० वें रुद्र १-५५
- पुण्डरीक (पुंढरिय) - ६ ठे नारायण १-५३
- ७ वें रुद्र - १-५५
- पुण्य (पुण्ण) - ९-२०
- पुद्गल (पोग्गल) - द्रव्यअजीव १-४; ९-१०
- पुद्गलपर्याय (पुग्गलपज्जाय) - ९-११
- पुद्गलविपाकी (पुग्गलविवाह) - कर्म १२-९
- पुनर्वसु (पुणव्वसु) - नक्षत्र १-१६
- पुरुषवेद (पुरिस-) - १२-२१
- पुरुषसिंह (पुरिससीह) - पाँचवें नारायण १-५३
- पुरुषोत्तम (पुरिसुत्तम) - चौथे नारायण १-५३
- पुष्पदन्त (पुष्कयंत) - नौवें तीर्थकर १-४७
- पुष्य (पुस्स) - नक्षत्र १-१६
- पुष्यमित्र (पुस्समित्त) - राज्यकाल ३० वर्ष १-७२
- पूर्वभाद्रपद (पुव्वभद्दपदा) - नक्षत्र १-१८
- पूर्वा (पुव्वा) - नक्षत्र १-१६
- पूर्वाषाढा (पुव्वासाढा) - नक्षत्र १-१७
- पृथक्स्ववितर्कवीचार (पुधत्तलवियक्क-सवीचार) १३-२४, २६
- पृथ्वी (पुढवि) - एकेन्द्रिय जीवभेद ९-९
- पृथ्वीकाय (पुढवीकाय) - जीव ७-४१
- पैशुन्य (पेसुण्ण) - भाषा भेद ५-४२
- प्रकीर्णक तारा (पइण्ण) - ज्योतिषादेव १-१४
- प्रकृति (पगदि) - स्वभाव १-३
(पयडि) - कर्मभेद १०-९
- प्रकृतिबंध (पयडि) - ९-१६

- प्रचला (पयला) - दर्शनावरण कर्म का भेद १०-५
 प्रचलाप्रचला (पयलापयला) - दर्शनावरण कर्म का भेद १०-५
 प्रज्ञा-परीषद् ८-४०, ४१
 प्रज्ञापनी (पणवणी) - असत्यमृषा भाषा का भेद १२-१८
 प्रणय (पणय) - प्रमाद भेद ११-१६
 प्रतिक्रमण (पाडिक्रमण) - चौथा आवश्यक ५-२७
 प्रतिशत्रु (पाडिसत्तु) - प्रतिनारायण, ६३ शलाका पुरुष में से नौ १-५४
 प्रतिश्रुति - पहले कुलकर व मनु १-४३, पृ. ७ टिप्पणी
 प्रतिस्थापना (पाडिठावाणिय) - समिति ५-१६
 प्रतीत्य (पडुअ) - सत्यवचन का एक भेद १२-१५
 प्रत्यक्ष (पचचक्ख) - ज्ञान ९-५
 प्रत्याख्यान (पचचक्खाण) - पाचवा आवश्यक ५-२२
 प्रत्याख्यानी (पचचक्खाणी) - असत्यमृषा भाषा का भेद १२-१८
 प्रदेश (पदेस) - द्रव्यों में संख्या ९-१९
 प्रदेशबंध (पदेस) - कर्मबन्ध का एक भेद ९-२६
 प्रदेशाग्र (पयेसग्ग) - कर्मों का द्रव्य-परिमाण १०-१७
 प्रभावना (पहावणा) - सम्यक्त्व का आठवा अंग ३-५
 प्रमत्त विरत (पमत्त) - छठा गुणस्थान ११-२
 प्रमाण (पमाण) - द्रव्य प्रकाशन हेतु १४-१
 प्रमाण विषय (पमाण विसय) - द्रव्यों की सत्ता १४-३
 प्रमाद (पमाउ) - हिंसा का कारण २-७
 (पमाद) - १५ प्रकार का ९-२३
 प्रवचन (पवयण) - उपदेश १२-६०
 प्रसेनजित - १३ वें कुलकर व मनु, पृष्ठ ७ टि०
 प्रहरण (पहरण) - ७ वें प्रतिनारायण १-५४
 प्राण (पाण) - जीवके लक्षण ९-३
 प्रानत (पाणद) - १० वां स्वर्ग १-२०
 - १४ वां स्वर्ग १-२२
 प्राणातिपात-विरति (पाणाइपायविरइ) - मृत प्रतिमा का अंग ३-१२
 प्रियकारिणी (पियकारिणी) - १४ वें तीर्थंकर वर्धमान की माता १-५७
 प्रोषध (पोसह) - चौथी प्रतिमा ३-२
 प्रोषधविधान (पोसह विहाण) चौथी प्रतिमा ३-२३

फल - सचित्त, मुनि के लिए वर्ज्य ४-७

ब

बड (वड) - उदुम्बर विशेष ३-९

बन्ध (बंध) - ईर्या समिति के होने पर हिंसानिमित्तक बंध का अभाव १-७

- अहिंसाणुव्रत का अतिचार २-९

- पुद्गल पर्याय ९-११

- बंध के भेद, भाव और कर्म ९-२५

- चार प्रकार ९-२६

बल - जीव लक्षण, प्राणभेद ९-३

बलदेव - नौ शलाका पुरुष १-५२

बलि (बलि) - छठे प्रतिनारायण १-५४

बस्तिकर्म (वत्यीकम्म) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-९

बीज (बीय) - सचित्त, मुनि के लिए वर्ज्य ४-७

बोधि-दुर्लभ (बोहि-दुल्लह) - भावना ५-४१

ब्रह्म (ब्रह्) - पांचवां स्वर्ग १-२०, २१

ब्रह्मव्रत (ब्रह्दत्त) - १२ वें चक्रवर्ती १-५०

ब्रह्मचर्य (बंभवावार) - प्रोषधोपवास का भेद २-३४

(ब्रह्) - सातवीं प्रतिमा ३-२

(ब्रह्मचेर) - अणु, व्रत प्रतिमा का अंग ३-१२

-सातवीं प्रतिमा ३-२१

-महाव्रत ५-८

-घर्मांग ६-११

ब्रह्मा (बंभा) - भी कालवशवर्ती ७-९

ब्रह्मोत्तर (ब्रह्मुत्तर) - छठा स्वर्ग १-२१

भ

भक्तमानव्युच्छेद (भक्तपाणकुच्छेप) - अहिंसाणुव्रत का अतिचार २-९

भक्ति (भक्ती) - सम्यक्त्व का छठा गुण ३-६

भरणी (भरणी) - नक्षत्र १-१८

भारत (भारत) - जम्बू द्वीप का प्रथम क्षेत्र १-३१

- प्रथम चक्रवर्ती १-५०

भार्य (भार्य) - सिद्ध होने योग्य जीव १-१

भार्यत्व (भार्य) - ११ वीं मार्गणा १२-५३

भावनिक्षेप (भाव) निक्षेप भेद १६-३

भावबंध - कर्मबंध के योग्य चेतनभाव ९-२५

भावमोक्ष (भाव मोक्ष) - कर्मक्षयके हेतुभूत आत्म-परिणाम ९-३०

भाव सत्य - सत्य वचन भेद १२-१५

भाव संवर - कर्मास्त्रवनिरोध के हेतुभूत आत्मपरिणाम ९-२७

भावास्त्रव (भावासव) - कर्मास्त्र के योग्य आत्मपरिणाम ९-२२

भावि - नोआगम द्रव्य निक्षेप भेद १६-७

भावि नैगम (नहगम) - नैगमनय का भेद १५-२९

भावेन्द्रिय (भाविन्द्रिय) - मति आदि ज्ञानों के योग्य विशुद्धि व तज्जन्य बोध

१२-४

भाषा समिति (भाषा समिदी) - साधु के योग्य वचन की सावधानता ५-१२

भीमावलि - पहले रुद्र १-५५

भू-अलीक (भूआलिय) - सत्याणुव्रत का अतिचार २-११

भूत नैगमनय (भूयणहगम) - नैगमनय का भेद १५-२७

भृत्य-आंध्र (भृत्यठण) - नरवाहन के पश्चात् राज्यकाल प्रारंभ १-७३

- राज्यकाल २४० वर्ष १-७४

भेद - पुद्गल पर्याय ९-११

भेद कल्पना सापेक्ष नय (भेदकल्पणेण) - अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का भेद १५-१७

भेद विकल्प निरपेक्ष नय (भेद वियपेण णिखेक्खो)

- शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का भेद १५-१४

भोक्ता (भोक्ता) - जीवलक्षण ९-२

भोग अन्तराय - अंतराय कर्म का भेद १०-१५

भोग-धिरति (भोग विरह) - प्रथम शिक्षाव्रत, व्रत प्रतिमा का अंग ३-१६

म

मंगल - मं. २-३

मन्थवा - ३ रे चक्रवर्ती १-५०

मन्थवी - ६ ठी पृथ्वी का गोत्र नाम १-९

- मघा - नक्षत्र १-१६
 मति-अज्ञान - ज्ञानभेद ९-५
 मतिज्ञान (मदि-) - ज्ञानभेद ९-५; १२-२९ आदि
 मद्य (मज्ज) - दूसरा व्यसन ३-१०
 मधुकैटभ (-क्रीटभ) - ४ थे प्रतिनारायण १-५४
 मभ्यलोक (मङ्गिम लोय) - आकार १-५; ऊँचाई १-७
 मद्य (मण) - योगविशेष ३-२७
 मनुष्य गति (माणुम-) - १२-३
 मनः पर्यय (मणपज्जय) - ज्ञानभेद ९-५; १२-३४
 मनःपर्यय आवरण (मणणाणा-) - ज्ञानावरण कर्म का भेद १०-४
 मनुष्यायु (मणुस्माउ) - आयुर्कर्म का भेद १०-१२
 मनोयोग (मणोजोग) - चार प्रकार का सत्य, असत्य, उभय, अनुभय १२, १
 मन्दकपाय (मंद-) - स्वच्छाश्रव हेतु ७-२५
 मरुद्व - १२ वें कुलकर व मनु पृ. ७ टि.
 मल-परीपह ८-३६, ३७
 मल्लि (मल्लि) - १९ वें तीर्थकर १-४८
 मल्ली - कुमार काल मे महाव्रत १-६०
 महर्षि (महोसि) - महामुनि ४-१
 महातमप्रभा (-पहा) - सातवा नगक १-८
 महावीर वर्धमान - चौबीसवे तीर्थकर १-६१, ६२
 महाव्रत (महव्वद) - २४ वे तीर्थकर वर्धमान द्वारा ग्रहण १-५९
 (महव्वय) - मुनियों के पाच व्रत ५-२; ७-२९
 महाशुक्र (महसुक्क) - ७ वा वर्ग १-२०
 - १० वा स्वर्ग १-२१
 महाहिमवान् (महाहिमवंत)- हैमवत क्षेत्र के उत्तर में कुलाचल १-३२
 माघवी (माघविय) - ७ वीं पृथ्वी का गोत्र नाम १-९
 मान - चार प्रकार १२-२४
 माया - चार प्रकार १२-२५
 मार्गणा (मग्गणा) - चौदह प्रकार १२-१
 मार्दव (महव) - धर्मांग ६-१

- माल्य (मल्ल) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-२
 माहेन्द्र (माहिंद) - चौथा स्वर्ग १-२०, २१
 मांस (मंस) - तीसरा व्यसन ३-१०
 मिथ्यात्व (मिच्छत्त) - पाच प्रकार ९-२१
 - दर्शन मोहनीय का भेद १०-९
 - प्रथम गुणस्थान ११-४
 मिथ्यादृष्टि (मिच्छादृष्टी) - प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव ११-४; १२-६०
 मिश्र (मिस्म) - तीसरा गुणस्थान ११-७
 मिश्रअसद्भूत नय (मिस्म अमव्यय) - नय भेद १५-४०
 मिश्र उपचरित नय (मिस्म उपचरित नय) - उपचरित नय का भेद १५-४४
 मुरुद्वयश (मुरुद्वयश) - राज्य काल ४० वर्ष १-७२
 मुच्छर्त्ता (मुच्छ) - परिग्रह में आसक्ति ३-३४
 मूर्त्तिक (मुत्तो) - पुद्गल द्रव्य कालक्षण ९-१०
 मूल (मूल) - नक्षत्र १-१७
 मूल - साचित्त, मुनि के लिये वर्ज्य ४-७
 मूलगुण (मल्लगुण) - मुनियों के अट्टाईस ५-१
 मृगशीर्षा (मगमिर) - नक्षत्र १-१६
 मृषोपदेश (मोमोवणमय) - सत्याणुव्रत का अतिचार २-१३
 मृषावाद (मुमावाय) - स्थूल, -विरति-द्रुमरा अणुव्रत २-११
 मेघा (मेघा) - तीसरी पृथ्वी का गोत्र नाम १-९
 मेरक (मेरग) - ३ रे प्रतिनारायण १-५८
 मैथुन (मेहुण) - नव प्रकार ३-२७
 मोक्ष (मोक्ख) - सर्व-कर्म-निवृत्ति ९-३०
 मोहनीय (मोहणिज्ज) - कर्म, मूल भेद दो, उत्तर भेद अट्टाईस १०-८
 मौर्व्य (मोहरिय) - अनर्थदण्ड-व्रत का अतिचार २-२९

य

- यथाख्यात (जह्वाद्) - चारित्र्य-भेद ११-२३
 यशस्वी - ९ वे कुलकर व मनु पृ० ७ टि०
 याचना-परीषद् ८-२८, २९
 याचनिका (याचणिया) - असत्यमृषा भाषा का भेद १२-१८

- योग (जोग) - तीन प्रकार का ९-२३
 - चौथी मार्गणा १२-९
 योजन (जोयण) - देश-प्रमाण १-२९

र

- रज्जु (रज्जु) - मध्यम लोक के विस्तार प्रमाण माप १-७
 रत्नप्रभा (रयणपहा) - प्रथम नरक १-८
 रम्यक (रम्म) - जम्बूद्वीप का ५ वा क्षेत्र १-३१
 रस (रस) - पाच प्रकार का ९-७; १२-५
 रहस्याभ्याख्यान (रहस्य-भक्त्याण) - मन्वाणुवत का अतिचार २-१३
 राजपिण्ड (रायपिड) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-३
 रात्रिभुक्ति (राइभुनी) - छठवी प्रतिमा ३-२
 (राइभुत्त) - मुनि के लिए व्याज्य ४-२
 राम-परशुराम - ८ वे बलदेव १-५२
 रावण (रावणअ) - ८ वे प्रतिनारायण १-५४
 रुक्मि (रुमि) - रम्यक क्षेत्र के उत्तर में कुलाचल १-३२
 रुद्र (रुद्र) - ३ रे रुद्र १-५५
 - रौद्र कर्म और अधर्म व्यापार में संलग्न ११ प्रसिद्ध पुरुष १-५६
 रूप (रूव) - चक्षुइन्द्रिय का विषय १२-५
 - मन्व्य वचन भेद १२-१५
 वेति (रेवदी) - नक्षत्र १-१८
 रोग-परीषह ८-३२, ३३
 रोम लवण (रोमा-लोण) - लवण-विशेष ४-८
 रोहिणी - नक्षत्र १-१६
 रौद्र (रुद्र) - ध्यान-भेद १३-८

ल

- लब्धि (लद्धि) - नौ प्रकारकी ११-२६
 लवण (लोण) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-८
 लान्तव (लंतव) - ६ ठा स्वर्ग १-२०
 लाभान्तराय - अन्तराय कर्म का भेद १०-१५
 लेइया (लेस्ता) - दसवीं मार्गणा १२-४१

लोक (लोय) - ७-२

लोकाकाश (लोयायास) - आकाश का वह भाग जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म व काल द्रव्य भी पाए जाते हैं १-२, ४; ९-१४

लोकान्त घनोदधि (लोयन्त घणोवहि) - लोकाकाश के अन्त भाग में स्थित वायुमंडल १-१४

लोकोत्तम (लोयुत्तम) - मं० ४

लोभ (लोह) - चार प्रकार का १२-२६

लौच (लौच) - छुरा कैंची विना केशों का अपने हाथ से उत्पाटन ३-३८
- मुनि का एक मूलगुण ५-२९

व

वचन (वयण) - योगविशेष ३-२७

वचनयोग (वचजोग) - चार प्रकार का, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय १२-१३, १९

वध (वह) - दो प्रकार का, संकल्पी और आग्भी २-५

- अहिंमाणुव्रत का आतिचार, मारपीट करना, २-९
- परीषह ८-२६, २७

वनस्पति (वणष्फदी) - एकेन्द्रिय जीवभेद १-९

वन्दना (वंदणा) - तीसरा आवश्यक ५-२५

वमन (वमण) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-९

वर्ण (वण्ण) - पुद्गल का गुण, पाच प्रकार का ९-७

वर्तमाननय (वट्टमाणणय) - नैगम नय का भेद १५-२८

वर्षमान (वड्डमाण) - २४ वें तीर्थंकर, महावीर १-४८

- तीर्थंकर पार्श्व के जन्म से २०८ वर्ष पश्चात् जन्म हुआ, १-५८
- चतुर्थकाल में दुपमा-सुपमा के ३ वर्ष ८ मास १ पक्ष शेष रहने पर सिद्ध हुए १-६३

वंशा (वंसा) - २ री पृथ्वी का गोत्र नाम १-९

वसुमित्र - राज्यकाल आमिमित्र सहित ६० वर्ष १-७३

वल्लैकधर (वत्येक्कधर) - उत्कृष्ट भावक का प्रथम भेद ३-३५

वात्सल्य (वच्छल्ल) - सम्यक्त्व का सातवाँ अंग ३-५

वायु (वाऊ) - एकेंद्रिय जीव-भेद ९-९

वालुप्रभा (वालुपहा) - तीसरा नरक १-८

- वासुपूज्य (वासुपुज्जे) - १२ वें तीर्थकर १-४८
 - कुमार काल में महाव्रत ग्रहण १-६०
- विकथा (विकहा) - भाषा-भेद, मुनि को वर्ज्य ५-१२
 - चार प्रकार, प्रमाद भेद ११-१६
- विग्रहगति (विग्रहगदि) - जन्मान्तर ग्रहण के लिये जीव का गमन १२-६५
- विजय (विजय) - प्रथम बलदेव १-५२
 - वंश राज्यकाल १५५ वर्ष १-७२
- विजयन्त (विजयंत)-एक अनुत्तर विमान १-२५
- विजयार्थ (विजयद्ध) - भरत क्षेत्र के मध्य में पर्वत १-३३
 (वेयङ्गुणग) - गंगा व सिंधु नदियों द्वारा इस पर्वत ने भरत क्षेत्र के ६ खंड किये हैं १-३६
- विदेह - जम्बूद्वीप का चौथा क्षेत्र १-३१
- विनय (विणय) - मिथ्यात्व का भेद ११-४
- विपरीत (विवरीय) - मिथ्यात्व का भेद ११-४
- विपाकविचय (विवाग-विचय) - धर्मध्यान का भेद १३-१८
- विभाव अनित्य (-अणिच्च) - पर्यायार्थिक नय का भेद १५-२६
- विभ्रम (विभ्रम) - ज्ञानदोष ९-३५
- विमल (विमल) - १३ वें तीर्थकर १-४८
- विमलवाहन - ७ वें कुलकर व मनु पृ. ७ टि.
- विमोह - ज्ञानदोष ९-३५
- विरुद्धराज्य (विरुद्धरजं) - अचौर्याणुव्रत का अतिचार २-१५
- विरेचन (विरेयण) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-९
- विशाखा (विशाहा) - नक्षत्र १-१७
- विष्णु (विण्हू) - नारायण, ९ शलाका पुरुष १-५३
- वीर - महावीर, कुमार काल में महाव्रत लिये १-६०
- वीर्य अन्तराय (वीरिय,) - अन्तराय कर्म का भेद १०-१५
- वेद - पाचवीं मार्गणा १२-२
- वेदक (वेदग) - सम्यक्त्व का भेद, क्षयोपशमिक ११-१०; १२-५६
- वेदनीय (वेयणीय) - कर्म दो प्रकार का १०-७
- वेद्या (वेसा) - चौथा व्यसन ३-१०

- वैक्रियक (वेउव्व) - परदार का भेद २-१६
 (वेगुव्विय) - काय का भेद १२-२०
 वैजयन्त (वइजयंत) - दूसरा अनुत्तर विमान १-२५
 वैजवानल (वइसाणल) - चौथा रुद्र १-५५
 व्यजन (वीजण) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-२
 व्यवहार (ववहार) - नयविशेष १४-१८ दो प्रकार का १५-३१;
 व्यवहार काल (कालो ववहार) ९-१४
 व्यवहार जीव (ववहार जीव) - ९ ३
 व्यवहार सय (ववहार) - १२-१५
 व्यसन (विसण) - मात २-८
 व्रत (वय) - दूसरी प्रतिमा ३-२
 - भाव संवर का भेद ९-२८

श

- शकराज (सगराज) -- राज्य काल ४२ वर्ष १-६९
 - वीर निर्वाण से ४६१ वर्ष पश्चात् उत्पात्ति अथवा १-६७,६९
 - ६०५ वर्ष ५ मास पश्चात् १-६८
 शंका (संका) - सम्यक्त्व का दोष ३-४
 शतभिषा (सदभिष) - नक्षत्र १-१८
 शतार (सदर) - ११ वीं स्वर्ग १-२२
 शब्द (सद्) - पुद्गल पर्याय ९-११
 (सद्) - इन्द्रिय विषय १२-५
 - नय १५-३५
 शय्या-परीपह ८-२२, २३
 शय्याकर पिंड (सेजाथर पिंड) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-५
 शर्कराप्रभा (सक्करपहा) - दूसरा नरक १-८
 शलाका पुरुष (सलाय पुरिस) - भरत क्षेत्र के ६३ महापुरुष. २४ तीर्थंकर
 १२ चक्रवर्ती ९ बलदेव ९ हरि या विष्णु
 ९ प्रतिशत्रु या प्रतिनारायण १-४;५-४६
 शान्ति (सन्ति) - १६ वें तीर्थंकर १-४८; ५ वें चक्रवर्ती १-५०
 शिक्षा (सिक्खा) - संज्ञी जीवों द्वारा ग्रहण योग्य १२-६२

- शिक्षाव्रत (सिक्खावय) - चार प्रकार के २-३
 -दूसरी प्रतिमा का अंग ३-११
- शिखरी (सिहरि) - इंरण्यवत और ऐरावत क्षेत्रों के बीच का कुलाचल १-३२
- शीत (सीय) - परीपह ८-६, ७
- शीतल (सीयल) - १० वे तीर्थकर, १-४७
- शैलीशी (सीलेसि) - शैलों का ईशत्व ११-२८
- शुक्र (सुक) - ९ वा स्वर्ग १-२१
 -लेख्या १२-५२
- शुक्ल - ध्यान चार प्रकार का १३-२१
- शुद्ध नय (सुद्धणय) - ९-६; ९-८
- शुद्ध भाव (सुद्ध-) - ९-८
- शुद्ध संग्रह नय (सुद्ध संगह) - संग्रह नय का भेद १५-३०
- शुद्धार्थ भेदक नय (सुद्ध) - व्यवहार नय का भेद १५-३१
- शुभ नाम (सुभ-) - नाम कर्म का भेद १०-१३
- शुभ भाव (सुभ-) - ९-३१
- शुंगवेर (सिंगवेर) - सच्चित्त, मुनि के लिए वर्ण्य ४-७
- शौच (सउच्च) - धर्मार्ग ६-१
- शौचोपधि (सौचुवाहि) - कमण्डलादि मुनि द्वारा ग्राह्य ५-१४
- श्रद्धान (सद्दहण) - आप्त, आगम और तत्त्वों का ३-४
- श्रमण (समण) - जैन साधु २-३१
- श्रवण (सवण) - नश्वर १-१८
- श्रावक (सावओ) - जैन गृहस्थ, उत्कृष्ट, दो प्रकार ३-३५
- श्रावक धर्म (सावग धम्म) - वारह प्रकार का २-१; ३-१
- श्रुत आवरण (सुय) - ज्ञानावरण कर्म का एक भेद १०-४
- श्रुत-अज्ञान - ज्ञान भेद ९-५
- श्रुत ज्ञान (सुद.) - ज्ञान भेद ९-५; १२-३२
- श्रेयांस (सेयंस) - ११ वे तीर्थकर १-४८
- श्रोत्र निरोध (सोद-) - ५-१८

स

- संकल्प (संकप्प) - हिंसा का एक प्रकार, जानबूझकर हिंसा करना २-५
- सगर (सगर) - दूसरे चक्रवर्ती १-५०

- संगासक्त (संगासत्त) - गृहस्थ ७-४५
 संग्रहनय (संगह) - दो प्रकार का १५-३०
 सचित्तआहार - प्रतिबद्ध, उपभोग परिभोग परिमाणव्रत का आतिचार २-२४
 सचित्तगत चौर्य - २-१४
 सचित्तत्याग - पाँचवीं प्रतिमा ३-२
 सचित्तविनिवृत्ति (सचित्त विणिविति) - पाँचवीं प्रतिमा ३-२६
 संज्वलन (संजलण) ११-१५
 संज्ञा (सण्णा) - तेरहवीं मार्गणा १२-६१
 संज्ञी (सण्णी) १२-६२
 सत्कार-पुरस्कार-पगीपह ८-३८, ३९
 सत्ताग्राहक (सत्ताग्गाहअ) - द्रव्यार्थिक नय का भेद १५-१३
 सत्य (सच्च) - व्रत प्रतिमा का अंग ३-१२
 - महाव्रत ५-६
 - धर्मांग ६-५
 सद्भूतनय (सब्भूय) - नयका भेद १५-९
 संधान (संधाण) - अचार (हिं) लोणचें (मराठी) ३-९
 सनत्कुमार (सणकुमार) - चौथे चक्रवर्ती १-५०
 संनिधि (सन्निही) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-३
 सन्मति - दूमरे कुलकर व मनु पृ. ७ टि.
 सप्तभंगी (सत्तभंगी) १४-८
 संप्रोक्षण (संपुच्छण) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-३
 संभावना (संभावण) - सत्य का भेद १२-१५
 संभव (संभव) - तीसरे तीर्थकर १-४७
 समता (समदा) - प्रथम आवश्यक ५-२३
 समन (समणो) - संज्ञी जीव १२-६३
 समाभिरूढ नय १५-३६
 समारम्भ (समारम्भ) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-४
 समिति (समिदि) - मुनि की पाच ५.२;७-३०
 - भाव संवर का भेद ९-२८
 समुच्छिन्नक्रिया (समुच्छिन्नकरिया) - सुकल ध्यान का भेद १२-२३, ३१
 समुद्घात (समुग्घदो) - आत्म प्रदर्शों को फैलानेवाले जीव २-६५

- सम्मति (सम्मति) - सत्य का भेद १२-१५
 सम्यक् चरित्र (चरण) - मोक्ष कारण ९-३२
 सम्यक्त्व (सम्मत्त) - ग्यारह प्रतिमाओं का मूल ३-३,४;७-२९
 - दर्शन मोहनीय का भेद १०--९
 - बारहवीं मार्गणा १२--५४
 सम्यग्ज्ञान (-णाण) - मोक्षकारण ९-३२
 सम्यग्दर्शन - मोक्षकारण ९-३२
 सम्यग्दृष्टि (सम्मादिद्धि) - ३-७;१२-१२,१३
 सम्यग्मिथ्यात्व (सम्माभिच्छत्त) - दर्शन मोहनीय का भेद १०-९
 - सम्यक्त्व का भेद १२-५९
 संयम (संजम) - ४-१;६-१;११-९
 - आठवीं मार्गणा १२-३६
 संयमोपधि (संजभुवहि) - पिछी आदि मुनि द्वारा प्राच्य ५-१४
 संयुक्ताधि करण (सजुयाह्मिगरण) - अन्तर्दण्ड व्रत का अतिचर २-२९
 संयोग केवली (सजोग केवलि) - तेरहवा गुणस्थान, ११-२६,२७
 सर्पविष न्याय (सर्पाविमणाय) २-२३
 सर्वधाति (सर्व धादि) - फल की अपेक्षा कर्म भेद ११-७
 सर्वज्ञ (सर्वज्ञ) - १-३;७-४४
 सल्लेखना (सल्लेखण) - चौथा शिक्षाव्रत, व्रतप्रतिमा का अंग ३-१९
 संवर (संवर) - भावना ७-२,२९
 संवाहन् (संवाहण) - मुनि के लिये वर्च ४-३
 संवेग (संवेअ) - सम्यक्त्व का पहला गुण ३-६
 संशय (संसय) - ज्ञान-दोष ९-३५
 संशयवचनी (संसयवयणी) - असत्य मृदा भाषा का भेद १२-१८
 संसार (संसार) - भावना ७-२,१२
 संस्थान (संठान) - पुद्गलपर्याय ९-११
 संस्थानविचय (संठानविचय) - धर्म ध्यान का भेद १३-१९
 सहसाभ्याख्यान (-अभक्खाण) - सत्याणुवत का अतिचार २-१३
 सहस्रार (सहस्रार) - आठवा स्वर्ग १-२०
 - बारहवा स्वर्ग १-२२
 साकारस्थापना (सायारठवणा) - १६-५

- सागरोपम् (सागरोवम) - उपमा माप १०-२२
 सागार (सायार) - गृहस्थ धर्म ३-१
 साता (साय) - वेदनीय कर्म का भेद १०-७
 सात्यकिसुत (सच्चइसुदो) - ११ वा रुद्र १-५६
 सादिनित्य (साईणिच्च) - पर्यायार्थिक नय का भेद १५-२२
 साधु (साहृ) - मं. १, ३, ४, ५
 सानत्कुमार (सणक्कुमार) - ३ रा स्वर्ग - १-२०, २१
 सामाचारि (सामायारि) - श्रावक के योग्य २-३
 सामायिक (सामाह्य) - प्रथम शिक्षाव्रत २-३०
 -- तीसरी प्रति. ३-२
 सामादन (सासण) -- दूसरा गुणस्थान ११-६
 सासादन सम्यक्त्व (सामण-) १२-५८
 सामुद्र नमक (सामुद्रे) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-८
 सावद्य (सावज्ज) - सद्योप आचरण ३-२५
 सांशयिक (संसायद) - मिथ्यात्व का भेद ११-४
 स्कंध (खंध) - ९-२०
 स्त्री (श्थि) - परीपठ ८-१६, १७
 -- वेद १२-२१
 स्तव (थओ) - द्वितीय आवश्यक ५-२४
 स्तेनाहृत (तेनाहड) - अर्चौर्याणुव्रत का अतीचार २-१५
 स्त्यानगृद्धी (थ्णगिद्धी) - दर्शनावरण कर्म का भेद १०-५
 स्थापना (ह्वण) - निक्षेप भेद १६-३-सत्य भेद १२-१५
 स्थावर (थावर) - जीव भेद ९-९-; काय भेद १२-६
 स्थिति (ठिई) - कर्मों की उत्कृष्ट और जघन्य १०-१९
 स्थितिकरण (ठिदियरण) - सम्यक्त्व का छठा अंग ३-५
 स्थिति बंध (ठिदि-) ९-२६
 स्थिति-भोजन (ठिदिभोयण) - मुनि का एक मूलगुण ५-३४
 स्थूल (थूल) - पुद्गल-पर्याय ९-११
 स्थूल ऋजु सूत्र (थूल रिउमुत्त) - ऋजुसूत्र नय का भेद १५-३३
 स्थूल प्राणिवध विरमण (थूलगपाणिवहविरमण) - आहिसाणुव्रत २-४
 स्नान (सणाण) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-२
 स्पर्श (फास) -- आठ प्रकार का ९-७
 -- स्पर्शेन्द्रिय का विषय १२-५
 स्पर्श निरोध (फास-) ५-२१
 स्मृत्यन्तर्धान (सरअंतरद्ध) -- दिग्ब्रत का अतीचार २-२२ क

- स्यान् अस्ति (अत्थि) - स्याद्वाद का प्रथम भंग १४-९
 स्यान् नास्ति (णत्थि-) -- स्याद्वाद का दूसरा भंग १४-९
 स्यान् अस्ति नास्ति (अत्थि णत्थि-) -- स्याद्वाद का तीसरा भंग १४-९
 स्यान् अवक्तव्य (अवक्तव्व) -- स्याद्वाद का चौथा भंग १४-९
 स्यान् अस्ति अवक्तव्य - स्याद्वाद का पाचवा भंग १४- १
 स्यान् नास्ति अवक्तव्य - स्याद्वाद का छठा भंग १४-११
 स्यान् अस्ति नास्ति अवक्तव्व - स्याद्वाद का सातवा भंग १४-११
 स्यान् निरपेक्ष (णिव्वेक्खा) १४-५
 स्यान् सापेक्ष (मियमावेक्खा) - १४-५
 स्वकालभ्राम (सकालपत्त) - निर्जरा विशेष ७-३५
 स्वजाति असद्भूत (सज्जाइ असब्भूय) - नयभेद १५-४०
 स्वजाति उपचरित (सज्जाइ उपचरित णय) - उपचरित नय का भेद १५-४४
 स्वदारमंत्र भेद (मदारमंत भेय) - सत्याणुव्रत का अनिचार २-१३
 स्वदार सन्तोष (मदार संतोम) - चौथा अणुव्रत २-१६
 स्वद्रव्यादि ग्राहक (महव्वादि चउत्तक) - द्रव्यार्थिक नय का भेद १५-१९
 स्वयम्भू (मयंभू) - तीसरे नागयण १-५३
 स्वाति (सार्दा) - नक्षत्र १-१७
 सिद्ध - सं. १, ३, ४, ५
 - जीव ९-२
 - महावीर हुए १-६२
 मिद्वस्वरूप (मिद्वस्वरुव) - सामार्थिक में ध्यान के योग्य विषय ३-२२
 सिद्धार्थ (सिद्धत्थ) - २४ वे तीर्थंकर वर्धमान के पिता १-५७
 सिंधु - हिमवान पर्वत से निकल कर पश्चिम की ओर बहने वाली
 नदी १-३५
 सीमंकर -- ५ वें कुलकर व मनु पृ. ७ टि.
 सीमंधर -- ६ वें कुलकर व मनु पृ. ७ टि.
 सुदर्शन (सुदंसणो) -- ५ वें बलदेव १-५२
 सुधर्म (सुधम्मो) -- ३ रे बलदेव १-५२
 सुधर्म स्वामिन् (सुधम्मसामी) -- गौतम के निर्वाण दिनपर केवल-ज्ञानी हुए १-६५
 सुपार्श्व (सुपाम) -- ७ वें तीर्थंकर १-४७
 सुप्रतिष्ठ (सुपइठ्ठ) -- ५ वें रुद्र १-५५
 सुप्रभ (सुप्पह) -- ४ थे बलदेव १-५२

- सुभौम (सुभोम) -- ८ वें चक्रवर्ती १-५०
 सुमति (सुमइ) -- ५ वें तीर्थकर १-४७
 सुव्रत (सुव्वय) -- २० वें तीर्थकर १-४८
 सुषमा (सुसम) -- अवसर्पिणी काल का २ रा भाग जिसका समय तीन कोड़ी-
 कोड़ी सागरोपम है १-३९
 सुषमा दुषमा (सुसम दुस्सम) -- अवसर्पिणी काल का ३ रा भाग जिसमें स्त्री-
 पुरुष देवी-देव सदृश होते हैं १-३९
 सुषमा सुषमा (सुसुमसुसुम) -- अवसर्पिणी काल का प्रथम भाग जिसमें पर-स्त्री
 गमन व चोरी नहीं होती १-३९
 सूक्ष्म (सुहुमो) -- पुद्गल-पर्याय ९-११
 सूक्ष्म ऋजुमूत्र (रिउसुत्तो सुहुम) -- ऋजुपूत्र नय का भेद १५-३२
 सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति (सुहुम क्रियि) -- ध्यानविशेष १३-३०
 सूक्ष्म-साम्पराय (सुहुम संपराय) -- दसवा गुणस्थान ११-२२, २३
 सैधव (सिंधव) -- मुनि के लिये वर्ज्य ४-८
 सौधर्म (सोहम्म) -- पहला स्वर्ग १-२०, २१
 सौवर्चल नमक (सोवच्चल) -- मुनि के लिये वर्ज्य ४-८

ह

- हर - रुद्र ७-९
 हरि - जम्बूद्वीप का तीसरा क्षेत्र १-३१
 हरि - नारायण ७-९
 हरिषेण - १० वें चक्रवर्ती १-५०
 हस्त (हत्थ) -- नक्षत्र १-१६
 हास्य (हास) -- भाषा भेद ५-१२
 हिमवान् (हिमवंत) -- भरत क्षेत्र के उत्तर का कुञ्जचल १-३२
 हिरण्य (हिरण्ण) -- अपरिग्रहाणुव्रत का अतिचार २-२०
 हिंसाप्रदान (हिंसप्याण) -- अनर्थदण्ड का भेद २-२७
 हैमवत (हेमवद) -- जंबूद्वीप का दूसरा क्षेत्र १-३१
 हेरण्यवत (हेरण्यवद) -- जंबूद्वीप का छठा क्षेत्र १-३१

तत्त्व-समुच्चय

ग्रन्थ-परिचय

[जिन ग्रंथोंमें से यह संकलन किया गया है उनका परिचय]

१

लोक-स्वरूप

लोक-स्वरूप सम्बंधी ये गाथाएं यतिवृषभाचार्य कृत तिलोयपण्णात्ति ग्रंथ में से संकलित की गई हैं। दिगम्बर जैन परम्परानुसार महावीर स्वामी के गणेश्वर सौप्तम ने जो द्वादशांग की रचना की थी उनमें बारहवें अंग दृष्टिवाद के अन्तर्गत पांच विभाग माने गये हैं : परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इनमें से परिकर्म के पुनः पांच भेद ये : चंदपण्णात्ति, सूरपण्णात्ति, जम्बूदीवपण्णात्ति, दीव-सायरपण्णात्ति और वियाहपण्णात्ति। इस प्रकार द्वादशांग में बारहवें अंग दृष्टिवाद के प्रथम भेद परिकर्म के भीतर सबसे प्राचीन जैन भूगोल व ज्योतिष का प्रतिपादन किया गया था। किन्तु यह साहित्य अब नहीं मिलता। श्वेताम्बर परम्परानुसार सूरपण्णात्ति, जम्बूदीवपण्णात्ति और चंदपण्णात्ति क्रमशः पांचवें, छठवें और सातवें उपांग माने गये हैं और ये ग्रंथ मिलते भी हैं। दिगम्बर परम्परा के उपलब्ध साहित्य में लोक के स्वरूप का व्यवस्था से पूरा वर्णन करने वाला ग्रंथ तिलोय-पण्णात्ति ही है। इस ग्रंथ में दिष्टिवाद व परिकर्म के अतिरिक्त कुछ और भी लोकवर्णन संबंधी ग्रंथों का उल्लेख किया गया पाया जाता है जिन में एक 'लौयविभाग' भी है। यद्यपि यह प्राचीन प्राकृत 'लौय-विभाग' अब उपलब्ध नहीं है, तथापि उसका संस्कृत रूपान्तर सिंहसूरिकृत मिला है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि शक संवत् ३८० में कांची नरेश सिंहवर्मा के राज्य के २२ वें वर्ष में सर्वनन्दि ने प्राकृत में जिस 'लोक-विभाग' की रचना की थी उसी का सिंहसूरि ने संस्कृत रूपान्तर किया है। स्वर्ग तिलोय-पण्णात्ति में महावीर के निर्वाण से लेकर कस्की तक एक हजार वर्ष की राज परम्परा भी पाई जाती है। अतएव स्पष्ट है कि इन ग्रंथ की रचना १०००-५२७=४७३ ईस्वी के पश्चात् हुई है। पद्विंशतम के टीकाकार बीरसेनाचार्य ने अपनी 'धवला' टीका सन् ८१६ में समाप्त की थी और इस टीका में यतिवृषभ को 'ब्रह्ममंथु' और 'नागहरिय' का शिष्य कहा गया है, इसका तिलोयपण्णात्ति का अनेकवार उल्लेख किया गया है। अतएव इस ग्रंथ

की रचना का काल ४७३ और ८१६ ईस्वी के बीच मानना चाहिये। इससे अधिक सूक्ष्म काल-निर्णय करने के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है। यातिवृषभ की एक और रचना पाई जाती है और वह है गुणधर आचार्य कृत 'कषाय प्राभृत' नामक सिद्धान्त ग्रंथ की 'चूर्णि' नामक टीका। इस ग्रंथ से भी कर्त्ता के समय पर अधिक प्रकाश नहीं पड़ता।

तिलोथ-पण्णत्ति का प्रमाण ८००० श्लोक प्रमाण कहा गया है। बहुतायत से इसकी रचना गाथाओं में हुई है, पर कहीं कहीं प्राकृत गद्य भी पाया जाता है। कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जो ध्वलाकार के पश्चात् जोड़े गये प्रतीत होते हैं। ग्रंथ में नौ महाधिकार हैं जिन में क्रमशः लोक सामान्य, नरक, भवनवासी लोक, मनुष्य लोक, तिर्यग्लोक, व्यंतर लोक, उद्योतलोक, देव लोक और सिद्धलोक का वर्णन है। इसका सम्पादन प्रथम बार डा० हरिलाल जैन और डा० उपाध्ये द्वारा हुआ है और वह दो जिल्दों में जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शालापुर द्वारा क्रमशः सन् १९४३ और १९५१ में हुआ है।

२

गृहस्थ-धर्म [१]

यह प्रकरण सावयपण्णत्ति (श्रावक प्रज्ञप्ति) में से संकलित किया गया है। श्रावक धर्म का सबसे प्राचीन वर्णन सातवें श्रुताङ्ग 'उत्तमग-दसाओ' में पाया जाता है। तत्पश्चात् प्राकृत साहित्य में स्वतंत्र रूप से श्रावकाचारका वर्णन करने वाला ग्रंथ श्रावक-प्रज्ञप्ति ही है। यह ग्रंथ प्राकृत गाथा और संस्कृत टीका युक्त पाया जाता है। मूल प्राकृत गाथाओं के कर्तृत्व के सम्बन्ध में कुछ अनिश्चय और मतभेद है। एक मत के अनुसार प्राकृत ग्रंथ उमास्वाति कृत है और उसकी टीका हरिभद्र कृत है। किन्तु अनेक प्राचीन ग्रंथों के उल्लेखों तथा भाषा व शैली आदि पर से उचित निर्णय यही जान पड़ता है कि संभवतः मूल व टीका दोनों ही हरिभद्र कृत हैं। [प्रकाशित जैन ज्ञान प्रसारक मंडल, चम्बई, १९०५] हरिभद्र की अनेक संस्कृत और प्राकृत रचनाएं जैन साहित्य में सुप्रसिद्ध हैं। उनकी प्राकृत धर्मकथा 'समराइच्च कहा' प्राकृत साहित्य की एक विशेष निधि है। ये कुवलयमाला के कर्ता उद्योतन सूरि के गुरु थे और उद्योतन सूरि ने अपना ग्रंथ शक ७०० में समाप्त किया था। अतएव हरिभद्र का काल इससे पूर्व सुनिश्चित है। हरिभद्र ने अपने ग्रंथों में हर्ष, दिङ्नाग, धर्मकीर्ति, भर्तृहरि, कुमारिल, जिनदासगणि आदि सुविख्यात ग्रंथकारों का या उनकी

रचनाओं का उल्लेख किया है या उनसे अपना परिचय व्यक्त किया है। ये सब ग्रंथकार सन् ७०० से पूर्व हो चुके हैं। अतएव हरिमद्र का काल सन् ७०० और ७७५ ईस्वी के बीच सिद्ध होता है।

श्रावक प्रज्ञप्ति में कुल ४०१ प्राकृत गाथाएं हैं जिनमें क्रमशः श्रावक के अहिंसादि बारह व्रतों का विधिवत् वर्णन किया गया है।

३

गृहस्थ-धर्म [२]

यह संकलन वसुनादि कृत श्रावकाचार में से किया गया है। इस ग्रंथ में ५४८ गाथाएं हैं जिन में क्रमशः श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं अर्थात् दर्जों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्रंथ की अन्तिम ७ गाथाओं में वर्त्ता ने अपना परिचय व ग्रंथ-परिमाण का परिचय इस प्रकार दिया है—

आसी समय-परममयविद् मिगिकुंदकुंदसंताणे ।
 मन्वयण-कुमुय-वणमिमियरो म्मिगिणदि णाणे ॥ ५४० ॥
 किन्ती जस्मेदुमुद्मा सयलभुवणमज्जे जद्वल भमिता
 णिच्चं मा मज्जणाण हिययवयणमोए णिवामं करेइ ।
 जो सिद्धंतेज्जुगामिं मुणयतरणमामेज्ज लीलावनिष्णो
 वण्णउ को समत्थो सयलपुणगणं मेविथंते विलोए ॥ ५४३ ॥
 सिस्सो तस्म जिणिदसाणरओ सिद्धतपारंगओ
 खंती-मद्व-लाह-वाइ-दमहा धम्मस्मि णिच्चोवज्जओ ।
 पुण्णोदुज्जलकित्तिप्रियजओ च रिच्छलच्छाहरो
 संजाओ णयणदि णाममुण्णो भव्वासयाणदओ ॥ ५४४ ॥
 सिस्सो तस्म जिणागम-जलणिदिंवल-तरग-धुयमाणो ।
 संजाओ सयलजए विस्सवाओ णेमिचंदो ति ॥ ५४५ ॥
 तस्म पमाएण मए आयरिपपंगमपं एयं ।
 वच्छल्लायरइयं भवियाणमुवासयज्झयणं ॥ ५४६ ॥
 जं किं पि एत्थ भाणियं अयाणमाणेण पवयणावस्सं ।
 खमिऊण पवयणाणू सोहिता तं पयामंतु ॥ ५४७ ॥
 छच्च सया पण्णामुत्तराणि एवस्स गंधपरिमाणं ॥
 वसुणदिणा णिबद्धं वित्थरियव्वं विवट्ठेहिं ॥ ५४८ ॥

इस पशदित में वसुनन्दि ने अपनी गुरु-परम्परा इस प्रकार बतलाई है:—कुन्दकु-
न्दास्राय में क्रमशः श्रीनन्दि, नयनन्दि, नेमिचन्द्र और वसुनन्दि हुए। वसुनन्दि ने
यह 'उपामकाध्ययन' अपने गुरु नेमिचन्द्र के प्रसाद से वात्मल्य भाव से प्रेरित
होकर भव्यों के उपकारार्थ बनाया। इसका प्रमाण ६५० श्लोकों के बराबर
(एक श्लोक बर्त्तीस अक्षरों के बराबर मानकर) है। ग्रंथकार को यह विषय पर-
म्परा से प्राप्त हुआ था, इसका उल्लेख गाथा ५४६ में किया गया है। ग्रंथ के
प्रारम्भ की निम्न गाथा ३ में कहा गया है कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान्
महावीर के मुख्य गणधर इन्द्रभूति गौतम ने जो उपदेश श्रेणिक राजा को दिया
था वही गुरुपरिपाटी से प्राप्त कर यहा कहा जाता है। मुनिये—

विपुलगिरिपव्वयं यं इंद्रभूइणा मेणियस्म जह दिट्ठ ।

तह गुरुपरिवाडीए मणिज्जमाणं णिसामेह ॥३॥

इस पर से जाना जाता है कि ग्रंथकार के मन में वही मानवें श्रुताग
उपामकाध्ययन की परम्परागत धारणा थी, और उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम भी
वही रखा था। वसुनन्दि की गुरुपरम्परा से प्रकट किये गये 'नयनन्दि' व 'नेमिचन्द्र'
नाम तो जैन साहित्य में विख्यात हैं, किन्तु उनका उक्त परम्परा नहीं पाई जाती।
इसलिये वसुनन्दि का कालनिर्देश करना कठिन है।

वसुनन्दी श्रावकाचार हिन्दी अनुवाद सहित सन् १९६६ में जैन
मिद्धान्त प्रचारक मण्डली, देववन्द, की ओर से छपा था। इसके एक मुसम्पादित
संस्करण की आवश्यकता थी। अभी अभी इसका पं० हीरालालजी शास्त्री द्वारा
संपादित संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, से निकला है।

४

मुनि धर्म [१]

यह अवतरण दशवैकालिक सूत्र का तीसरा अध्ययन है। दशवैकालिक श्वेताम्बर
आगम का एक प्रमुख ग्रंथ है और उसकी गणना चार मूल सूत्रों में की गई है।
अनुश्रुति है कि सेज्जंभव अपनी पत्नी को गर्भवती अवस्था में छोड़ कर मुनि हो
गये थे। उनका पुत्र 'मनक' बड़ा होने पर अपने पिता का शिष्य बनने के
लिये उनके पास गया और उसी के उपदेश के लिये यह ग्रंथ रचा गया। यह
घटना महावीर निर्वाण के लगभग सौ वर्ष पश्चात् की कही जाती है। इस ग्रंथ में
कुल १२ अध्ययन हैं। इनमें चतुर्थ व नवम अध्ययन में गद्य के अंश भी पाये

जाते हैं, शेष सब प्राकृत पद्यमय है। मुनि की साधनाओं में शरीर संस्करण का परित्याग व भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार एक प्रमुख स्थान रखते हैं। इस अध्ययन में यहाँ विषय वर्णित है। [दशवैकालिक के अनेक संस्करण निकल चुके हैं। डॉ. ल्यूमन द्वारा सम्पादित और अनूदित संस्करण हेमवर्ग में सन् १९३२ में छपा था।]

५

मुनि-धर्म [२]

यह संकलन वट्टकेर स्वामि कृत मूलान्तर पर से किया गया है। यह ग्रंथ अति प्राचीन है, किन्तु इसका रचनाकाल अभी तक निश्चित नहीं हो सका है। दिगम्बर सम्प्रदाय में यह ग्रंथ मुनि-धर्म के लिये सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है। द्वादशांग के भीतर मुनिधर्म का वर्णन करनेवाला प्रथम श्रुतांग 'आचारांग' है जिसका दिगम्बर परम्परा में लोप हुआ माना जाता है। उसके विषय का उदार वर्तमान ग्रंथ द्वारा किया गया है। हमीरालये ध्वलाकार वाग्सेन जैसे ग्रंथकार ने इस ग्रंथ का उल्लेख 'आचारांग' नाम से ही किया है।

इस ग्रंथ में कुल १२४३ प्राकृत गाथाएँ हैं जिनको मूलगुण, वृहत्प्रत्याख्यान, संक्षेपप्रत्याख्यान, सामाचार, पञ्चाचार, पिडशुद्धि, पडावश्यक, द्वादशानुप्रेक्षा, अनंगारभावना, समयसार, शिल्पिगुणप्रस्तार, और पर्याप्ति इन बारह अधिकारों में विभाजित किया गया है। यह सत्र यथार्थतः मुनि के उन २८ गुणों का ही विस्तार है जो प्रथम अधिकार के भीतर संक्षेप से निर्दिष्ट और वर्णित हैं, अतः वही पूरा अधिकार मात्र यहाँ ले लिया गया है। [प्रकाशित अनन्तर्जाति ग्रंथमाला पुष्प १, मूल और हिन्दी अनुवाद बम्बई १९१९, तथा मणिगुणचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथ माला १९ और २३। दो भागों में, वसुनन्दि कृत संस्कृत टीका सहित, बम्बई वि. सं. १९७७ और १९८०]

६

धर्मांग

यह प्रकरण 'वारस अणुवेक्त्वा' (द्वादशानुप्रेक्षा) में से लिया गया है। इसके कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य हैं, जिनकी प्राकृत रचनाओं का स्थान दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में अद्वितीय है। इस सम्प्रदाय में निम्न संगलवाची श्लोक खूब प्रचलित है :—

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

प्रस्तुत रचना के अतिरिक्त कुन्दकुन्दाचार्य के अष्ट पाहुड़ तथा प्रवचनसार पंचामिकाय, समयमार और नियममार ये चारह ग्रंथ खूब प्रख्यात हैं। इनके अतिरिक्त रयणमार व दशभक्ति आदि कुछ और रचनायें भी कुन्दकुन्द कृत कही जाती हैं। किन्तु उनके कर्तृत्व के सम्बन्ध में मतभेद है। पट्खंडागम की एक परिकर्म नामक टीका भी कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचे जाने का उल्लेख मिलता है, किन्तु यह रचना व उसका कोई विशेष परिचय अप्राप्य है।

पट्खंडागम की रचना वीर निर्वाण से ६८३ वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् किसी समय हुई। और यदि कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा इस पट्खंडागम की टीका लिखे जाने की अनुश्रुति में कोई यथार्थता है तो हमें कुन्दकुन्दाचार्य का काल इससे कुछ और पश्चात् मानना पड़ेगा। निचले कालस्तर के लिये हमारे समक्ष शक ३८८ का मर्करा ताम्रपत्र है जिसमें कुन्दकुन्दान्वय का उल्लेख है। अतः कुन्दकुन्दाचार्य का काल दूसरी और पाचवी शताब्दि के बीच अनुमान किया जा सकता है।

बारस अणुवेक्खा में ९१ प्राकृत गाथाएं हैं, जिनमें चारहवीं भावना धर्म के विवरण में प्रस्तुत दश धर्मों का वर्णन आया है जो मुनिधर्म के पालन के लिये अत्यंत आवश्यक एवं साधारणतः धार्मिक जीवन के लिये बहुत उपयोगी माना गया है। प्रसंगतः यह ध्यान देने योग्य बात है कि मनुस्मृति आदि ग्रंथों में भी धर्म के दश लक्षण बतलाये हैं। यथा

धृतिः क्षमाः दमोऽन्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(मनुस्मृति ६, ९२)

इसी प्रकार बौद्ध धर्म की दश पारमिताएं हैं जिनके पालन से ही मनुष्य 'बुद्ध' हो सकता है—दान, शील, नैष्कर्म्य, प्रज्ञा, वीर्य, क्षान्ति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा।

यही नहीं, बाइबिल में ईसाई धर्म के प्राणस्वरूप दश आदेश दिये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :

1. Thou shalt not have strange Gods before me.
2. Thou shalt not take the name of the lord thy God in vain.

3. Remember thou keep holy the Sabbath Day.
4. Honour thy father and thy mother.
5. Thou shalt not kill.
6. Thou shalt not commit adultery.
7. Thou shalt not steal.
8. Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
9. Thou shalt not covet thy neighbour's house.
10. Thou shalt not covet thy neighbour's wife

आश्चर्य यह नहीं है कि इन धर्मलक्षणों में परस्पर कुछ नामभेद है, आश्चर्य की बात तो यथार्थतः यह है कि धर्म के दश अंग इन सभी धर्मों में माने गये हैं और उन में असाधारण समानता है।

[वारस अणुवेक्खा, हिन्दी अनुवाद सहित, जैन ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १९१० । कुन्दकुन्द और उनके ग्रंथों आदि के सविस्तर विवेचन के लिये देखो प्रवचनसार की भूमिका डा. उपाध्येकृत, गायचन्द्र जैन शास्त्रमाला, ९ । बम्बई, १९३५]

७

भावना

यह संकलन स्वामिकार्तिकेशानुप्रेक्षा में से किया गया है। इस ग्रंथ के कर्ता ने अन्त में अपनी रचना के सम्बंध में केवल इतना ही कहा है कि—

जिणवयणभावणहं सायिकुमारेण परममद्भाए ।

रइया अणुवेक्खाओ चंचल-मण-रुंभणह च ॥४८७॥

वारस अणुवेक्खाओ भणिया हु जिणागमाणुसारेण ।

जो पढइ मुणइ भावइ सो पावइ उत्तमं सोक्खं ॥४८८॥

तिहुयण-पट्ठाणमार्मिं कुमारकाले वि तविय-त्तवयरणं ।

वसुपुज्जमुयं मल्लिं चरिवतियं संथुवे णिच्चं ॥४८९॥

इन पर से हमें कर्ता के संबंध में केवल इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है कि उनका नाम 'स्वामिकुमार' था और वे संभवतः बाल-ब्रह्मचारी थे। 'कुमार' और 'कार्तिकेय' पर्यायवाची होने से उनका नाम कार्तिकेय भी प्रसिद्ध है जो ग्रंथ के नाम में भी हमें दिखाई देता है। कुन्दकुन्द कृत वारस अणुवेक्खा और प्रस्तुत ग्रंथ का विषय व भाषा-शैली आदि में बहुत कुछ साम्य है। यदि

का जो पूरे का विस्तृत व संक्षिप्त रूपान्तर कहा जाय जो कोई जगत्पथ न
 हो। किन्तु वर्तमान में उनके पूर्वापरत्व के सम्बन्ध में प्रमाणमात्र के कारण
 कुछ नहीं कहा जा सकता। इस ग्रंथ में कुल ४८९ गाथाएं हैं जिनमें बाह्य
 ज्ञानियों का खूब विस्तार से वर्णन किया गया है।

[प्रकाशित हिन्दी अनुवाद सहित जैन ग्रंथरत्नाकर कार्यालय, बंबई, १९०४]

८

परीषद्

यह उत्तराध्ययन के दूसरे अध्ययन का पूरा पद्य भाग है। उत्तराध्ययन
 श्वेताम्बर आगम के ४ मूलसूत्रों में एक प्रधान रचना है और उसके अनेक सूक्त
 स्वयं महावीर स्वामी द्वारा उपदिष्ट माने जाते हैं। उत्तराध्ययन में कुल ३६
 अध्ययन हैं। २९ वां अध्ययन पूरा और अन्य कुछ अध्ययनों का प्रास्ताविक
 भाग गद्य में है, शेष सब रचना पद्यरमक है। कुछ अध्ययन कथात्मक हैं और
 काव्य के गुणों से युक्त हैं, अन्य विशेषतः अन्त के अध्ययन सैद्धान्तिक हैं।
 अनेक प्रकरण व गाथाएं ऐसी हैं जिनका वैदिक व बौद्ध साहित्य से अत्यधिक
 साम्य है, उदाहरणार्थ नौवां अध्ययन 'नमि-पञ्चजा' और विशेषतः उसकी
 १४ वीं गाथा जो इस प्रकार है—

सुहं वसामो जीवामो जेसि मो नत्थि किंचण ।

मिधिलाए उज्झमाणिए न मे ढज्झइ किंचण ॥

यह गाथा प्रायः इसी रूप में पाली साहित्य में भी पाई जाती है। इसका
 प्रथम चरण कुछ थोड़े से हेर-फेर के साथ—'सुसुखं वत जीवाम'—धम्मपद के
 'सुखवग्ग' की चार गाथाओं में आया है। एक गाथा की तो प्रथम पंक्ति है
 'सुसुखं वत जीवाम येसं नो नत्थि किंचन'। योगवासिष्ठ्य का 'मिधिलार्था
 प्रहीतायां न मे किञ्चन दृश्यते' सुप्रसिद्ध ही है।

[उत्तराध्ययन के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। डा. जार्ज चार्लेटियर
 संस्करण उपसला (जर्मनी) से १९२२ में प्रकाशित हुआ था]

९

छह द्रव्यः सात तत्वः नवपदार्थ

यह प्रकरण द्रव्य-संग्रह में से लिया गया है। इस ग्रंथ के कर्ता आचार्य
 नेमिसिंह हैं जो गंगनरेश मारसिंह द्वितीय तथा उनके उत्तराधिकारी राजमस्तक

के मंत्री तथा भवणबेलगोला में बाहुबलि की विशाल मूर्ति के प्रतिष्ठापक चामुण्ड-
राय के गुरु थे। मारसिंह द्वि. की मृत्तु शिलालेखों के प्रमाण से सन् ९७५
में हुई थी। चामुण्डरायकृत पुराण में उसके पूर्ण होने का समय शक ९००=ईस्वी
९७५ अंकित है। अतः यही काल प्रायः नेमिचन्द्राचार्य का समझना चाहिए।

द्रव्य-संग्रह में कुल ५८ गाथाएं हैं जिनमें जैन तन्त्रज्ञान का बड़ी
सुन्दरता से निरूपण किया गया है।

१०

कर्म प्रकृति

यह उत्तराध्ययन सूत्र का ३३ वां अध्याय है। ग्रंथ की जानकारी के
लिये ऊपर पाठ ८ का टिप्पण देखिये।

११

गुणस्थान

यह प्रकरण गोम्मटसार जीवकाण्ड में से संकलित किया गया है। ऊपर
पाठ ९ के टिप्पण में द्रव्यसंग्रह के कर्ता नेमिचन्द्राचार्य का परिचय व कालनिर्णय
दिया जा चुका है। वे ही आचार्य गोम्मटसार के भी कर्ता हैं। गोम्मट का अर्थ
होता है सुन्दर। संभवतः उनके रूप-सौंदर्य के कारण चामुण्डराय को गोम्मटराय
भी कहते थे और उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित किये जाने के कारण श्रवणबेलगोला में
बाहुबलि की मूर्ति भी गोम्मटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेमिचन्द्राचार्य ने
पट्टवंद्वागम व उसकी घबला टीका का सार ग्रहण करके गोम्मटराय की प्रेरणा
से गोम्मटसार ग्रंथ की रचना की। इसके अन्तमें उन्होंने कहा है :—

गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मटसिंहरुवरि गोम्मटजिणो य ।

गोम्मटराय-वृणामिमयदक्खिणकुक्कुडजिणो जयउ ॥ कर्मका. ९६८

गोम्मटसार दो भागों में विभक्त है—एक जीवकाण्ड जिसमें ७३३ गाथाओं
द्वारा चौदहों गुणस्थानों और चौदहों मार्गणास्थानों का अति सुव्यवस्थित वर्णन
किया गया है। दूसरा विभाग कर्मकाण्ड है जिसमें ९७२ गाथाओं द्वारा कर्म
सिद्धान्त का अति सूक्ष्म, गहन और विशद वर्णन किया गया है।

गोम्मटसार जीव-काण्ड (हिन्दी अनुवाद सहित) रायचंद्र जैन शास्त्रमाला
बम्बई १९२७; अंग्रेजी अनुवाद सहित Sacred Books of the Jainas
Series, Lacknow.

ध्यान

यह प्रकरण भगवती आराधना से संकलित किया गया है। इस ग्रंथ में २१६६ गाथाएं हैं जिनमें बहुत विशदता और विस्तार से दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप इन चार आराधनाओं का वर्णन किया गया है। ग्रंथ का नाम यथार्थतः 'आराधना' है और भगवती उसका विशेषण, जैसा कि निम्न गाथाओं से स्पष्ट है। ग्रंथ की आदि गाथा है—

सिद्धे जयप्पसिद्धे च उत्रिविहाराहणा-फलं पत्ने ।
वंदित्ता अरिहंते बुच्छं आराहणा कमसो ॥१॥

इसी प्रकार २१६२ वीं गाथा में कहा गया है—

आराहणा सिवज्जेण पाणिदलभोइणा रइदा ॥

और २१६४ वीं गाथा है—

आराधणा भगवदी एवं भत्तीए वण्णिदा संती ।
संग्रसस सिवज्जसस य समाधिवरमुत्तमं देउ ॥

ग्रंथ-कर्ता ने अपना परिचय गाथा २१६१-६२ में इस प्रकार दिया है—

अज्जजिणणंदिगणि-सव्वगुत्तगणि-अज्जमित्तणंदीणं ।
अवगमिय पादमूले सम्भं मुत्तं च अत्थं च ॥
पुव्वायरियणिव्रद्धा उवजीवित्ता इमा ससत्तीए ।
आराधणा सिवज्जेण पाणिदलभोइणा रइदा ॥

इनसे इतनी ही बात ज्ञात होती है कि 'सिवज्ज' (शिवार्य) ने आर्य जिननन्दि गणी, सर्वगुप्तगणी और आर्य मित्रनन्दि ने आगम पढ़कर तथा यथाशक्ति पूर्वाचार्यों द्वारा रचित एतद्विप्रयक ग्रंथों का आधार लेकर यह 'आराधना' ग्रंथ रचा। शिवभूति नामक एक आचार्य का उल्लेख कल्पसूत्र की स्थविरावली में पाया जाता है। आवश्यक मूलभाष्य की गाथा १४५-१४८ में भी शिवभूति का उल्लेख है और उनके द्वारा ही वीर निर्वाण से ६०९ वर्ष पश्चात् 'बौद्धिक' (दिगम्बर) संघ की उत्पत्ति कही गई है। कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने भावपाहुड की गाथा ५३ में शिवभूति के भावविशुद्धि द्वारा केवलज्ञान प्राप्त करने की बात कही है, तथा जिनसेन कृत हरिवंशपुराण ६६-२५ में लोहार्य (वी. नि. ६८३) के पश्चाद्दर्ती आचार्यों में शिवगुप्त मुनीश्वर का उल्लेख आया है जिन्होंने अपने गुणों से अर्हद्रलि पद को धारण किया था। आदिपुराण के प्रारम्भिक श्लोक ४९

में शिवकोटि मुनीश्वर और उनकी चतुष्टय मोक्षमार्ग की आराधना के लिये हितकारी वाणी का उल्लेख है। प्रभाचन्द्र के आराधना कथा-कोष व देवचन्द्र कृत गजावली-कथे (कनाड़ी) में शिवकोटि को स्वामी समन्तभद्र का शिष्य बतलाया गया है। निश्चयतः तो कहना कठिन है किन्तु अनुमानतः इन सब उल्लेखों के आधारभूत आचार्य ये ही भगवती आराधना के कर्ता शिवार्य हैं जो ईस्वी के दूसरी शताब्दि में या उसके लगभग हो सकते हैं। जो हो, प्रस्तुत ग्रंथ एक बहुत ही प्राचीन, सुप्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण प्राकृत रचना है। एक मत यह भी है कि दिग्भ्रमर व श्वेताम्बर के अतिरिक्त जो तीसरा जैन सम्प्रदाय 'यापतीय' नामक प्राचीन काल में प्रचलित रहा है और जो दिग्भ्रमर सम्प्रदाय के अचलरुत्व और श्वेताम्बर सम्प्रदाय की स्वीनक्ति की मान्यता का स्वरूप करता था, यह ग्रंथ उसी के साहित्य का अंग रहा है। [देखिये जैन साहित्य और इतिहास, प० नाथूराम प्रेमी कृत, पृ. २९ आदि]

[भगवती आराधना, हिन्दा अनुवाद सहित प्रकाशित, अनन्तकीर्ति ग्रंथ माला ८, चम्बई १९८९]

१४

स्याद्वाद

यह प्रकरण 'नयचक्र' में लिया गया है। यही ग्रंथकर्ता के लघुनयचक्र की अपेक्षा बड़ा होने से 'बृहत् नयचक्र' भी कहलाता है। इसमें ४२३ गद्यांश हैं। ग्रंथ की अन्तिम गद्यांशों में इस रचना के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं। वे गद्यांश ये हैं—

जइ इच्छह उत्तरिटुं अण्णाणप त्चिहिं मुलीलाए ।

ता णादु कुणइ मइ णयचके दुणयतिभिरमचण्डे ॥४१७॥

मुणिकण दोइसथ सिग्घ हमिकण सुइकरो मणइ ।

एथ ण सोइइ अत्था गाहाबंधेण त मणइ ॥४१८॥

सियसइ-सुणय-दुणय-दणु-देह-विदारणेक-वरवीरं ।

त देवसेणदेव णयचक्रपरं गुं णमइ ॥४२१॥

दव्वसहावपयानं दोइवबंधेण आमि ज दिटुं ।

गाहाबंधेण पुणो रइयं माइल्लघवलेण ॥४२॥

दुसमारणेण पोयपेरिय मत जइ चिरं णटुं ।

सिरिदेवसेणमुणिणा तइ णयचक्र पुणो रइयं ॥४२३॥

इन गाथाओं में ध्यान देने योग्य बात यह कही गई है कि यह नयचक्र पहले 'द्वयसहाय-पयास' (द्वयस्वभाव-प्रकाश) नाम से दोहाबद्ध रचा गया था जिसे सुभकर किमी 'शुभकर' ने हंस कर कहा कि यह अर्थ दोहा छंद में शोभा नहीं देता, इसे गाथाबद्ध कीजिये। अतएव जो द्वयस्वभाव प्रकाश दोहाबद्ध रचा गया था उसे माहल्लदेव (माहल्लधवल भी पाठ है) ने गाथा बद्ध रचा। इस पर से ऐसा अनुमान होता है कि यह रचना पहले अपभ्रंश प्राकृत में रही होगी, क्योंकि दोहा छंद का प्रयोग पहले पहल हमें अपभ्रंश में ही दिखाई देता है। शुभकर कोई प्राचीन प्रणाली के पक्षपाती रहे होंगे जिन्होंने इस विद्वत्तापूर्ण गंभीर विवेचन के लिये अपभ्रंश जैसी सामान्य लोक भाषा को अनुपयुक्त समझा होगा। अतएव संभवतः देवमेन के कोई शिष्य (माहल्लदेव) ने उसे गाथाबद्ध करने में कर्ता को सहायता पहुंचाई होगी।

देवमेन की अनेक अन्य प्राकृत रचनाएं पाई गई हैं। उनकी दर्शनसार नामक रचना में जैन सम्प्रदाय के इतिहास के संबंध की बहुत सी वार्ता उपलब्ध है। इसी के अन्त में उन्होंने कहा है :

पुन्वाथरियकयाई माहाई मंचिऊण एय-थ ।

सिरिदेवमेणगणिणा धाराए संवमंतेण ॥ ४९ ॥

इओ दंसणमारो हारो भव्वाण णवसए नवए ।

सिरिपासणाहगेहे मुचिसुद्धे माहमुद्धदमर्माए ॥ ५० ॥

इन गाथाओं से हम जान जाते हैं कि देवमेन ने धारा नगरी में रहते हुए दर्शनसार की रचना विक्रम संवत् ९९० में पूरी की थी। उन्होंने अपनी एक अन्य रचना भावसंग्रह में अपना परिचय इस प्रकार दिया है—

सिरिविमलमेणगणहर-सिस्सो णामेण देवमेणुत्ति ।

अबुहजण-बोहण-थं तेणयं विरइयं सुत्तं ॥

इसपर से देवमेन के गुरु का नाम विमलसेन गणी जाना जाता है।

[नयचक्र देवमेन की दो अन्य रचनाओं लघुनयचक्र और आलापपद्धति सहित माणिकचंद्र दिग. जैन ग्रंथमाला १६ में 'नयचक्रसंग्रह' नाम से प्रकाशित हो चुका है। बम्बई १९२०]

नयवाद

यह संकलन लघु नयचक्र पर से किया गया है जो देवसेन सूरि की रचना है। इसमें कुल ८७ प्राकृत गाथाएं हैं जिन में आदितः द्रव्यार्थिक

और पर्यायार्थिक इन दो नयों को मौलिक बतलाकर उनके तथा नैगमादि नौ नयों के भेद प्रभेद उदाहरणों सहित संक्षेप में समझाये हैं। कर्ता का परिचय पूर्व पाठ के टिप्पण में दिया जा चुका है।

१६

निक्षेप

यह प्रकरण भी देवसेन कृत नयचक्र से लिया गया है जिसके लिये देखिये पाठ १४ का टिप्पण।

तत्त्व-समुच्चय का परिशिष्ट

[मंकलन से सम्बद्ध गाथाएं]

कुछ गाथाएँ संकलन में छूट गई हैं। वे प्रकरणोपयोगी होने के कारण यहाँ दी जाती हैं।

पृष्ठ १३ :—

२-२२ के पश्चात् निम्न गाथा पढ़िये जिसमें दिग्ब्रत के अतीचार बतलाये गये हैं—

उद्धमहे तिरियं पि य न पमाणाइकम सया कुःजा ।

तह चैव त्विचबुद्धी काह वि सहअतरद्धे च ॥ २२ क ॥ २८ ॥

इसका अर्थ (पृष्ठ ७६) अनुवाद में देखिये।

२-२० के पश्चात् निम्न गाथाए पढ़िये जिनमें सामायिक के समय ध्यान देने योग्य विषय तथा सामायिक के पाँच अतीचार वर्णित हैं —

सिक्खा दुविहा गाहा उववाय-द्विइ-गई कमाया य

बंधता वेयंता पडिवज्जाइकमे पंच ॥ ३० क ॥ २९.५ ॥

मण-वयण-कायत्तुपणिहाण सामाहयमि वज्जिजा ।

सइ-अकरणयं अणुवद्वियस्स तह करणयं चैव ॥३० ख ॥ ३१२ ॥

सामायिक के समय निम्न विषयों में से किसी एक पर ध्यान देना योग्य है— दो प्रकार की शिक्षा अर्थात् हेय-उपादेय का विचार, किसी गाथा का अर्थ, जीवों की उत्पत्ति, स्थिति व गति का विचार, कर्मायों का स्वरूप, कौन जीव कौन से कर्म वाधते हैं, व कौन से कर्मों का फल अनुभव करते हैं, तथा स्वयं

सामायिक के पांच अतीचारों का स्वरूप ॥३० क॥ सामायिक में पांच अतीचार वर्जनीय हैं:— मन, वचन व काय की अनिष्ट बातों में गति; स्मृति न रखना अर्थात् चित्त की अनेकप्रता और अनवस्था या अनादर भाव ॥३० ख॥

पृष्ठ १४ :—

२-३३ के पश्चात् देशावकासिक व्रत के अतीचार बतलाने वाली निम्न गाथा पढ़िये—

वज्रिजा आणयणप्पओगपेसप्पओगयं चेव ।

सदाणुरववायं तह -हिया पुग्गलक्खेवं ॥३० क॥ ३२०

मर्यादा के बाहर प्रदेश से कोई वस्तु दूरियों से मंगा लेना, किसी को वहा भेजना, वहा के लिये आज्ञा लगाना, अपने को दिखा कर इशारे से काम करा लेना व पत्थर मिट्टी आदि फेंककर वहा के लोगों का ध्यान अपनी आवश्यकता की ओर आकर्षित करना, ये देशावकासिक व्रतों के लिये वर्जनीय हैं ।

२-३८ के पश्चात् निम्न गाथा पढ़िये जिसमें अतिथि-संविभाग व्रत के अतीचार बतलाये हैं—

सच्चित्तनिविस्ववणयं वज्जे सच्चित्तपिहणयं चेव ।

कालाइक्कमदाणं परववएमं च मच्छरियं ॥३८ क॥ ३२७

अतिथि के आहार योग्य वस्तु को सचित्त वस्तु से भिन्नकर, या सचित्त से ढककर उसे आहार के अयोग्य बना देना, या आहार का समय टाल कर आहार दान देने का ढोंग करना, किसी दूरों की यह वस्तु है या दूरों के कारण यह अकल्प्य हुआ ऐसा बहाना बनाना तथा मात्मर्य भाव रखना, ये अतिथि-संविभाग व्रत के पांच अतीचार वर्जनीय हैं ।